



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 21—जून 27, 2008 (ज्येष्ठ 31, 1930)

No. 25]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 21—JUNE 27, 2008 (JYAISTHA 31, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers Issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

रक्षा (एम एस)/अनुभाग

नई दिल्ली, दिनांक 21 जून 2008

सं. 293, दिनांक 9 जून 2008.—भारत के राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक अवैतनिक स्टाफ में से निम्नलिखित नियुक्ति करती हैं:—

अवैतनिक थल सेना एडीसी (आरमड)—09 मार्च 2008 से प्रभावी आईसी-24656 लै. जनरल पी खन्ना वि से मै

अवैतनिक थल सेना एडीसी (इन्फैन्ट्री)—01 मार्च 2008 से प्रभावी आईसी-19077 लै. जनरल एम एल नायडू प वि से मे, अ वि से मै, यु से मे,

अवैतनिक थल सेना एडीसी (आर्टी/एएडी)—04 मार्च 2008 से प्रभावी आईसी-28805 लै. जनरल के एस डोगरा, अ वि से मे**, वि से मै (एएडी)

बलराम वर्मा
अवर सचिव

सं. 294, दिनांक 9 जून 2008.—राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव श्री एफ के पाण्डे को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 मार्च, 2008 के आदेश सं. 04 अप्रैल 2008 सीएस-1 (डी) के तहत 01 अप्रैल, 2008 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक इसी मंत्रालय में पूर्णतः तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की उप सचिव (तदर्थ) के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:—

(1) तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की वयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वयन ग्रेड (उप सचिव) में बरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(2) तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के रक्षा मंत्रालय की श्रीमती पुष्पा बी नंदनकर को 24 अप्रैल, 2008 (पूर्वाह्न) से 30 जून, 2008

तक की अवधि तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 6,500-200-10,500/-रुपए के वेतनमान में इसी मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:—

(1) तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने या अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में बरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा; और

(2) केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली में विहित शर्तों के सामान्य माध्यमों द्वारा नियमित अनुभाग अधिकारी के उपलब्ध होने पर उन्हें सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

के. मुरली
अवर सचिव

(वित्त प्रभाग)

सं. 295, दिनांक 9 जून 2008—राष्ट्रपति, श्री सुधीर चन्द्र जैना, सहायक वित्तीय सलाहकार को रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में दिनांक 09 अप्रैल 2008 (पूर्वाह) से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

रमेश कुमार
निदेशक (स्था.)

सेना शाखा

सं. 296, दिनांक 9 जून 2008.—

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

1. राष्ट्रपति महोदय स से मु सिविल सेवा नियम 2001 के अंतर्गत निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों की नियुक्ति की अवधि 24 फरवरी 2008 से 23 अगस्त 2008 तक अथवा नियमित पदधारी मिलने तक बढ़ाने के लिए सहर्ष मंजूरी प्रदान करते हैं:—

नाम	जन्म तिथि
1	2
श्री सोता कान्त मिश्र	25 जनवरी 1962
श्री एस के जैन	11 दिसम्बर 1963
श्री पी जे रोस	19 जून 1967
श्रीमती अनीता कुमारी	01 जनवरी 1967
श्री अलोक गंग	12 जून 1964
श्री एम शामराज	25 दिसम्बर 1949
श्री गुलशन राय	30 अक्टूबर 1968

1	2
श्री ए के एल दास	26 जनवरी 1966
श्री देश राज	05 अक्टूबर 1955
श्री दीपक कुमार दास	01 अगस्त 1966
श्री एस के मेलकानी	20 मई 1967
श्री देवी दयाल	14 मई 1953
श्री रामन्दर सिंह	29 मई 1969
श्री रजनी मोहन गुप्ता	10 जनवरी 1949
श्री आर के तलवार	25 दिसम्बर 1951
श्री के एन चतुर्वेदी	07 मार्च 1950
श्री पंकज भारती	09 जुलाई 1971
श्री विनय कुमार	25 अगस्त 1973
श्री कनवर प्रताप सिंह	09 सितम्बर 1971

2. नियुक्ति पूर्ण रूप से कामचलाऊ आधार पर है और प्रशासनिक कारणों से अथवा नियमित पदधारी मिलने पर बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती है।

3. स से से सिविल सेवा नियम 7 (8) के अंतर्गत पदोन्नति/नियुक्ति के लिए कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा एवं ऐसी नियुक्ति की अवधि को उप निदेशक के ग्रेड में बरिष्ठता के लिए नहीं गिना जाएगा।

रक्षा संपदा महानिदेशालय

1. राष्ट्रपति महोदय, स से मु सिविल सेवा नियम 2001 के नियम 7(8) के अंतर्गत निम्नलिखित सहायक को स्थापनापन अनुभाग अधिकारियों की नियुक्ति की अवधि को उनके नाम के आगे उल्लिखित समयावधि तक अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक के समय में से जो भी पहले हो उस समय तक की अवधि तक बढ़ाने के लिए सहर्ष मंजूरी प्रदान करते हैं:—

नाम	जन्म तिथि	अवधि
श्री जी बांग खेत मंग	26 जनवरी 1971	24 फरवरी 2007 से 23 अगस्त 2007 24 अगस्त 2007 से 23 फरवरी 2008 24 फरवरी 2008 से 23 अगस्त 2008

2. यह नियुक्ति पूर्णतः कामचलाऊ आधार पर है तथा प्रशासनिक कारणों अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने पर बिना सूचना दिये समाप्त की जा सकती है।

3. अनुभाग अधिकारी के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकारी का कोई दावा नहीं होगा और न ही नियम 7(8) के अधीन स्थापनापन अनुभाग अधिकारियों के रूप में उनकी सेवा को उक्त ग्रेड में बरिष्ठता के लिए गिना जाएगा।

राष्ट्रपति महोदय को महानिदेशालय

1. राष्ट्रपति महोदय, स से मु सिविल सेवा नियम 2001 के नियम 7(8) के अंतर्गत सहायक सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निम्नलिखित स्थापनापन

अनुभाग अधिकारियों की नियुक्ति की अवधि उनके नाम के आगे उल्लिखित समयावधि तक अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक के समय में से जो भी पहले हो उस समय तक बढ़ाने के लिए सहर्ष मंजूरी प्रदान करते हैं:--

नाम	जन्म तिथि	अवधि
श्रीमती उषा कुमारी	05 जनवरी 1949	24 फरवरी 2007 से 23 अगस्त 2007 24 अगस्त 2007 से 23 फरवरी 2008 24 फरवरी 2008 से 23 अगस्त 2008
श्री सुजय कुमार	04 मई 1966	--वही--
श्री रूप राम	06 फरवरी 1951	--वही--
श्रीमती राधिका बैकटरमन	30 अप्रैल 1967	--वही--
श्रीमती शीला देवी	01 अप्रैल 1956	--वही--
श्री बिनेन्द्र सिंह	02 दिसम्बर 1955	--वही--
श्री राम सिंह	10 मई 1953	24 फरवरी 2008 से 23 अगस्त 2008
श्रीमती रीता मिश्र	11 अप्रैल 1968	24 फरवरी 2008 से 23 अगस्त 2008
श्री देवेन्द्र पाल सिंह	29 दिसम्बर 1949	24 फरवरी 2008 से 23 अगस्त 2008

2. यह नियुक्ति पूर्णतः कामचलाऊ आधार पर है तथा प्रशासनिक कारणों अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने पर बिना सूचना दिये समाप्त की जा सकती है।

3. अनुभाग अधिकारी के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकारी का कोई दावा नहीं होगा और न ही नियम 7(8) के अधीन स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी के रूप में उनकी सेवा को उक्त ग्रेड में वरिष्ठता के लिए माना जाएगा।

1. राष्ट्रपति महोदय, स से मु सिविल सेवा नियम 2001 के नियम 7(8) के अंतर्गत सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के श्री देवेन्द्र पाल सिंह, सहायक को स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी (ग्रुप-बी, राजपत्रित) (वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/-) के रूप में दिनांक 30 नवम्बर 2007 से 23 फरवरी 2008 तक अथवा उनके सेवानिवृत्त होने तक अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक के समय में से जो भी पहले हो उस समय तक नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति पूर्णतः कामचलाऊ आधार पर है तथा प्रशासनिक कारणों अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने पर बिना सूचना दिये समाप्त की जा सकती है।

3. अनुभाग अधिकारी के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकारी का कोई दावा नहीं होगा और न ही नियम 7(8) के अधीन स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी के रूप में उनकी सेवा को उक्त ग्रेड में वरिष्ठता के लिए माना जाएगा।

सेना चित्र प्रभाग

1. राष्ट्रपति महोदय, स से मु सिविल सेवा नियम 2001 के नियम 7(8) के अंतर्गत निम्नलिखित सहायक को स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी की नियुक्ति की अवधि को उनके नाम के आगे उल्लिखित समयावधि तक

अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक के समय में से जो भी पहले हो उस समय तक की अवधि तक बढ़ाने के लिए सहर्ष मंजूरी प्रदान करते हैं:--

नाम	जन्म तिथि	अवधि
श्री अर्जुन देव शम्भानी	23 जुलाई 1949	24 फरवरी 2007 से 23 अगस्त 2007 24 अगस्त 2007 से 23 फरवरी 2008 24 फरवरी 2008 से 23 अगस्त 2008

2. यह नियुक्ति पूर्णतः कामचलाऊ आधार पर है तथा प्रशासनिक कारणों अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने पर बिना सूचना दिये समाप्त की जा सकती है।

3. अनुभाग अधिकारी के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकारी का कोई दावा नहीं होगा और न ही नियम 7(8) के अधीन स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी के रूप में उनकी सेवा को उक्त ग्रेड में वरिष्ठता के लिए माना जाएगा।

सुरक्षा कार्यालय

1. राष्ट्रपति महोदय, स से मु सिविल सेवा नियम 2001 के नियम 7(8) के अंतर्गत निम्नलिखित सहायक को स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी की नियुक्ति की अवधि को उनके नाम के आगे उल्लिखित समयावधि तक अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक के समय में से जो भी पहले हो उस समय तक की अवधि तक बढ़ाने के लिए सहर्ष मंजूरी प्रदान करते हैं:--

नाम	जन्म तिथि	अवधि
श्री प्रवीण कुमार	13 जनवरी 1966	24 फरवरी 2007 से 23 अगस्त 2007 24 अगस्त 2007 से 23 फरवरी 2008 24 फरवरी 2008 से 23 अगस्त 2008

2. यह नियुक्ति पूर्णतः कामचलाऊ आधार पर है तथा प्रशासनिक कारणों अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने पर बिना सूचना दिये समाप्त की जा सकती है।

3. अनुभाग अधिकारी के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकारी का कोई दावा नहीं होगा और न ही नियम 7(8) के अधीन स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी के रूप में उनकी सेवा को उक्त ग्रेड में वरिष्ठता के लिए माना जाएगा।

संकर सिंह

उप मुख्य प्रसा अधिकारी

एकीकृत मुख्यालय (नौसेना)

प्रशासन निदेशालय (सिव)

सं. 297, दिनांक 10 जून 2008.--राष्ट्रपति सहर्ष सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निम्नलिखित सहायकों को सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम 2001 के नियम 7(8) के अंतर्गत उनके नामों के आगे उल्लिखित समयावधि तक या नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक या अधिकारी के सेवा निवृत्त होने तक जो भी पहले हो, उस समय तक अनुभाग अधिकारी (वर्ग 'ख' राजपत्रित) के रूप में वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- में नियुक्त करते हैं:--

श्री आर डी कुशवाहा 3 अप्रैल 2008 से 23 अगस्त 2008

श्री बी के शर्मा 3 अप्रैल 2008 से 23 अगस्त 2008

श्री आर के वर्मा 3 अप्रैल 2008 से 23 अगस्त 2008

श्रीमती बलवीर कौर 3 अप्रैल 2008 से 23 अगस्त 2008

श्री ए के गुप्ता 3 अप्रैल 2008 से 23 अगस्त 2008

श्री ए के चड्ढा 7 अप्रैल 2008 से 23 अगस्त 2008

श्री संजय कुमार 3 अप्रैल 2008 से 23 अगस्त 2008

श्री एस सी चोपड़ा 3 अप्रैल 2008 से 23 अगस्त 2008

श्री एच एस नेगी 3 अप्रैल 2008 से 23 अगस्त 2008

श्री जी डी शर्मा 4 अप्रैल 2008 से 23 अगस्त 2008

ये नियुक्ति पूर्णतः कामचलाऊ व्यवस्था के आधार पर की गई है तथा प्रशासनिक कारणों अथवा नियमित पदधारक के उपलब्ध होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द की जा सकती है।

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित वैयक्तिक सहायकों को उनके नाम के आगे दर्शायी गई तारोख से सशस्त्र सेना मुख्यालय की आशुलिपिक सेवा में निजी सचिव (वर्ग 'ख' राजपत्रित वेतनमान रु. 6,500-10,500/-) के पद पर नियुक्त करते हैं:-

श्रीमती निर्मल : 09 जनवरी 2008

श्री एस सेंथिल कुमारन : 26 फरवरी 2008

शंकर सिंह
उप मुख्य प्रशा अधिकारी

सं. 298, दिनांक 10 जून 2008.--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07 फरवरी, 2008 के का.जा. सं. 05 नवम्बर 2007-सोएस-II के तहत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड "क" और "ख" (विलयित) (निजी सचिव) के पद पर पदोन्नति होने के परिणामस्वरूप रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड "ग" श्री हरीश चंद्र को निम्नलिखित शर्तों के अधीन 09 अप्रैल, 2008 के पूर्वाह्न से 30 जून, 2008 तक या नियमित अधिकारी उपलब्ध होने तक या अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड "क" और "ख" (विलयित) के पद पर नियुक्त करते हैं:-

(1) तदर्थ नियुक्ति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड "क" और "ख" (विलयित) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(2) तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

के. मुरली
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 299, दिनांक 10 जून 2008.--

सुरक्षा कार्यालय

1. राष्ट्रपति महोदय, स से मु सिविल सेवा नियम 2001 के नियम 7(8) के अंतर्गत सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निम्नलिखित सहायकों को स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी (ग्रुप-बी, राजपत्रित) (वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/-) के रूप में दिनांक 03 अप्रैल 2008 से 23 अगस्त 2008 तक अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक के समय में से जो भी पहले हो उस समय तक की अवधि के लिए सहर्ष मंजूरी प्रदान करते हैं :-

नाम	जन्म तिथि
कु विजय शर्मा	13 मार्च 1949
श्री स्वामी नाथ	01 अगस्त 1968

2. यह नियुक्ति पूर्णतः कामचलाऊ आधार पर है तथा प्रशासनिक कारणों अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने पर बिना सूचना दिये समाप्त की जा सकती है।

3. अनुभाग अधिकारी के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकारी का कोई दावा नहीं होगा और न ही नियम 7(8) के अधीन स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी के रूप में उनकी सेवा को उक्त ग्रेड में वरिष्ठता के लिए माना जाएगा।

रक्षा संपदा महानिदेशालय

1. राष्ट्रपति महोदय, स से मु सिविल सेवा नियम 2001 के नियम 7(8) के अंतर्गत सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निम्नलिखित सहायकों को स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी (ग्रुप-बी, राजपत्रित) (वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/-) के रूप में दिनांक 03 अप्रैल 2008 से 23 अगस्त 2008 तक अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक के समय में से जो भी पहले हो उस समय तक की अवधि के लिए सहर्ष मंजूरी प्रदान करते हैं :-

नाम	जन्म तिथि
श्री हिदेश मिश्रा	05 दिसम्बर 1973
श्री गजराज सिंह	15 फरवरी 1955
श्री सत्य पाल	01 अप्रैल 1950

2. यह नियुक्ति पूर्णतः कामचलाऊ आधार पर है तथा प्रशासनिक कारणों अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने पर बिना सूचना दिये समाप्त की जा सकती है।

3. अनुभाग अधिकारी के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकारी का कोई दावा नहीं होगा और न ही नियम 7(8) के अधीन

स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी के रूप में उनकी सेवा को उक्त ग्रेड में बरिष्ठता के लिए माना जाएगा।

शंकर सिंह
उप मुख्य प्रशा/अधिकारी

स्थायी आर्मी
मिलिट्री नर्सिंग सेवा
(स्थायी कमीशन)

सं. 300, दिनांक 10 जून 2008.--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एम एन एस अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गयी तिथियों से पदोन्नति प्रदान करते हैं :--

ले. कर्नल (सलेक्ट) से कर्नल

पद और नाम, व्यक्तिगत सं., और पदोन्नति की तारीख

कर्नल प्रमिला कपूर (एनआर-15773एक्स), 17 दिसम्बर 2005

कर्नल वी सरस्वती (एनआर-15893डब्ल्यू), 02 जनवरी 2007

कर्नल एल्सा बायस (एनआर-15899एक्स), 02 अप्रैल 2007

कर्नल सुनीता कपूर (एनआर-15948पी), 31 दिसम्बर 2006

कर्नल शरली स्टीफन (एनआर-16039डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2006

ले. कर्नल से ले. कर्नल (सलेक्ट)

ले. कर्नल वी सी जलजामणि (एनआर-16679ए), 18 दिसम्बर 2004

ले. कर्नल निवेदिता शोम (एनआर-17002एफ), 14 जून 2007

मेजर से ले. कर्नल (टीएस)

ले. कर्नल ए वर्गीस (एनआर-17725डब्ल्यू), 27 जनवरी 2003

ले. कर्नल के ओ सुजा (एनआर-18672पी), 22 सितम्बर 2006

टी प्रेमिनी

मेजर जनरल

अतिरिक्त महानिदेशक एमएनएस

सेना शाखा

सं. 301, दिनांक 10 जून 2008.--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

ले. कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में (समयमान द्वारा)

आईसी सं. नाम, आर्म और सक्सेडेंटिव तिथि

34439 एस सी रॉय, इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004

34485 वी के सिन्हा, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004

34778 जे एस मंगत, सिग्नल्स, 16 दिसम्बर 2004

37834 एस पी एस तूर, एएससी, 12 नवम्बर 2007

38849 ए एस भाटिया, मे इन्फैन्ट्री, 07 जून 2006

39773 गोविन्द पाल सिंह, एएडी, 13 जून 2007

39873 रविन्द्र सप्रे, एसी, 19 दिसम्बर 2007

39884 टी के पॉल, एसी, 19 दिसम्बर 2007

39891 आर एल बिच्चरनिया, एएडी, 19 दिसम्बर 2007

39903 एम डी एस भान, इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2007

39913 सी अनिल कुमार नायर, आर्टी, 19 दिसम्बर 2007

39914 फतेह सिंह बिंक, आर्टी, 19 दिसम्बर 2007

39932 वी के मिश्रा, एएडी, 19 दिसम्बर 2007

39935 सतबीर सिंह, इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2007

39941 आर जापासिया, इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2007

39947 धर्मजीत सिंह नागिल, मैक इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2007

39951 तेज सिंह, एओसी, 19 दिसम्बर 2007

39957 वी पी वेनुगोपालन, एएससी, 19 दिसम्बर 2007

39963 के पी वी रवि, आर्टी, 19 दिसम्बर 2007

39973 आर सी एस आर्पो, इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2007

39983 जी एस मनहास, आर्टी, 19 दिसम्बर 2007

39984 जगरूप सिंह, आर्टी, 19 दिसम्बर 2007

39991 आर के यादव, आर्टी, 19 दिसम्बर 2007

40002 वी पी अय्यर, एएडी, 19 दिसम्बर 2007

40029 ए पी तन्वर, गार्ड्स, 19 दिसम्बर 2007

40047 के टी मैथ्यू, इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2007

40057 मोहम्मद सलीम, इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2007

40058 श्याम लाल, आर्टी, 19 दिसम्बर 2007

40059 एस एस बाजवा, इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2007

40067 के सी सेनापति, आर्टी, 19 दिसम्बर 2007

40079 डी सी रुजे, आर्टी, 19 दिसम्बर 2007

40085 एम एम खान, इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2007

40086 नाहर सिंह, आर्टी, 19 दिसम्बर 2007

40089 ठाकुर करण सिंह, इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2007

40100 वी उद्यमीशी, इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2007

40108 सुमन्तो चौधरी, एओसी, 19 दिसम्बर 2007

40117 अरुणजीत सिंह, एसी, 19 दिसम्बर 2007

40118 एस एस पटेल, सिग्नल्स, 19 दिसम्बर 2007

40128	एच एस ग्रेवाल, गार्ड्स, 19 दिसम्बर 2007	39878ए	एस एस गौरावा, एससी, 19 दिसम्बर 2007
40129	एस जी रॉय चौधरी, एसी, 19 दिसम्बर 2007	39907के	ए के जनार्दनन, आर्टी, 19 दिसम्बर 2007
40138	राजेश पुंज, एसी, 19 दिसम्बर 2007	40119एम	यू सी शर्मा, आर्टी, 19 दिसम्बर 2007
40141	के जो लिम्बू, इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2007	40121के	सुनील जग्गी, एएडो, 19 दिसम्बर 2007
40147	ए एम वर्मा, एसी, 19 दिसम्बर 2007	40194डब्ल्यू	ओम प्रकाश, गार्ड्स, 19 दिसम्बर 2007
40148	टी वी अरूण कुमार, बैंक इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2007	40210एच	एस थोमस, इंजीनियर्स, 19 दिसम्बर 2007
40159	अजय सहाय, इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2007	40669पी	एन एस सोलंकी, सिग्नल्स, 12 जून 2006
40169	परमजीत शहोद, इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2007	37724पी	पी के सिंह, एएडो, 14 नवम्बर 2006
40174	हरेन्द्र सिंह, ए ओ सी, 19 दिसम्बर 2007	37837एक्स	एम एम वर्गास, आर्टी, 12 नवम्बर 2007
40175	नरेश सिंह, इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2007	38291पी	एस के सिंह, इन्फैन्ट्री, 22 दिसम्बर 2005
40182	किशोर सिंह चौहान, इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2007	38913एल	राज कुमार सोनी, इन्फैन्ट्री, 07 जून 2006
40183	आर एस पन्वर, सिग्नल्स, 19 दिसम्बर 2007	39158वाई	एम एम श्रीवास्तव, आर्टी, 13 दिसम्बर 2006
40184	चरण सिंह, इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2007	39877एक्स	राजेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2007
40192	सतोश टी, आर्टी, 19 दिसम्बर 2007	39892एम	कान्ता प्रसाद, इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2007
40195	जे एस चौधरी, इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2007	40042पी	दिनेश गुप्ता, एसी, 19 दिसम्बर 2007
40196	राकेश शर्मा, बैंक इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2007	40087पी	बोहनन आई, आर्टी, 19 दिसम्बर 2007
40199	मलुक सिंह, आर्टी, 19 दिसम्बर 2007	40212एन	वी एम एस रावत, एसी, 19 दिसम्बर 2007
40201	सुनील खुराना, एसी, 19 दिसम्बर 2007	एसएल-03585के	ए के होलकर, आर ओ, 16 दिसम्बर 2004
40204	अश्वनी शर्मा, इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2007	36577एल	स्वर्ण सिंह, इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004
40213	अतुल कुमार, आर्टी, 19 दिसम्बर 2007	37726ए	सरयजीत सिंह, एओसी, 14 नवम्बर 2006
40220	आर के शर्मा, एएडो, 19 दिसम्बर 2007	38376एल	डी डी मोहिन्वा, इन्फैन्ट्री, 22 दिसम्बर 2005
40221	अर सी वर्मा, आर्टी, 19 दिसम्बर 2007	38816एन	एस जयराज, सिग्नल्स, 07 जून 2006
40225	सुभाष पॉल, इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2007	39623ए	पंजाब सिंह, इन्फैन्ट्री, 13 जून 2007
40226	टी डी एस मूर्ती, इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2007	40018वाय	टी के बाहरी, इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2007
40229	एफ एम हबीबुल्ला, आर्टी, 19 दिसम्बर 2007		अजय गोयल
40236	आर के पांडे, एएडो, 19 दिसम्बर 2007		उप निदेशक
40237	वी राजेन्द्रा, आर्टी, 19 दिसम्बर 2007		एम एस 8ए
40245	एस के रंगरा, इन्फैन्ट्री, 19 दिसम्बर 2007		-----
40251	सो एस मुलगांड, आर्टी, 19 दिसम्बर 2007		सेना शाखा
40255	आर के सिंह, एससी, 19 दिसम्बर 2007		सं. 302, दिनांक 11 जून 2008 -- राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :-
40260	धर्मचोर सिंह, इन्ड, 19 दिसम्बर 2007		नियमित सेना
40835	अनिल कुमार, इंजीनियर्स, 20 दिसम्बर 2007		अल्प-कालीन सेवा कमीशन (डब्ल्यू एस)
37801वाई	प्रहलद रावल, एसो, 19 जनवरी 2008		ले. से कैप्टन
37843एल	मोन्टगोमरी, इन्फैन्ट्री, 12 नवम्बर 2007		डब्ल्यू एस, नाम, आम
38161एम	ललित गंग आर्टी, 09 जून 2005	00859	प्रीति जगधन मिश्रकार, सिग्नल्स
38515के	वी एन्डोनी, आर्टी, 22 दिसम्बर 2005	00869	एस कविता रेड्डी, ईएमई,

00903	जसरीन बिल्लन, इंजीनियर्स	68949	भाषकर अभिवेक जगन्नाथ, सिग्नल्स
00920	हेमावती के एन, सिग्नल्स	68950	हरत शंकर, इंजीनियर्स
	--20 मार्च 2007	68951	मनू छबरा, इंजीनियर्स
00926	पंकज ए कुमाजी, ईएमई	68952	नवीन कुमार शर्मा, ईएमई
00928	मेघना राजेश्वर, इंजीनियर्स	68954	जगदीप सिंह, सिग्नल्स
00935	नटराजन सुचित्रा श्रीनिवास, सिग्नल्स	68955	सुमित दूबे, ईएमई
00946	नेहा राजन, सिग्नल्स	68956	अश्वनी सुधार, सिग्नल्स
00962	जे विजया कुमारी, ईएमई	68957	आशीष रहेजा, सिग्नल्स
00969	बिनिता पूनम, सिग्नल्स	68959	प्रदीप कुमार, ईएमई
00973	बोरेडूडी संभासिन्ना, ईएमई	68960	जयंत कदम, इंजीनियर्स
00981	ज्योत्सना बेनाल, ईएमई	68961	अनंत वैभव शर्मा, ईएमई
00997	विष्णु कविता सी, इंजीनियर्स	68962	अश्वनी कुमार, ईएमई

--17 सितम्बर 2007

स्थायी कमीशन लेफ्टि. से कैप्टन

आईसी नं., नाम एवं आर्म्स

68925	अश्वरोप चिंगखैंगवा, इंजीनियर्स	68967	अशोक कुमार, इंजीनियर्स
68926	अनाजित गांगुली, सिग्नल्स	68970	प्रवीण कुमार नायर, इंजीनियर्स
68927	शौर्पा सूद, सिग्नल्स	68971	डॉ शिवा कुमार, ईएमई
68928	रतन दीप सीयोल, ईएमई	68972	अनिल कुमार साहु, सिग्नल्स
68929	अमरदीप सिंह मुलतानी, ईएमई	68973	संदीप रवासा, ईएमई
68930	ध्रुव शंकर सक्सेना, इंजीनियर्स	68974	मनीष शर्मा, इंजीनियर्स
68931	विवेक मलिक, इंजीनियर्स	68975	दीपक मनहास, ईएमई
68932	जयदीप बोदवादकर, सिग्नल्स	68977	सुरेन्द्र वर्मा, ईएमई
68933	सतिन्द्र खोला, एएडी	68978	सुमंत कुमार शर्मा, सिग्नल्स
68934	गगनदीप हंसपाल, ईएमई	68980	प्रमोद शेर्मा आर, सिग्नल्स

--11 दिसम्बर 2006

68936	आशीश भारद्वाज, इंजीनियर्स	56494	प्रवीण सिंह भादौरिया, इन्फैन्ट्री
68937	आकाश त्रिपाठी, ईएमई	56497	मृतुंजय कुमार सिंह, एओसी
68938	पाटिल उमेश अशोक, इंजीनियर्स	56500	सिबी थोमस, इन्फैन्ट्री
68939	सुकरीत सिंह सिधू, एसी	56501	अजय दोभल, मेक इन्फैन्ट्री
68940	नवीन कुमार, इंजीनियर्स	56504	दीपक शर्मा, सिग्नल्स
68941	जेता पुण्डलिकराव धोंगडे, इंजीनियर्स	56505	मयंक सहाय, एसी
68942	अभिनव यादव, इंजीनियर्स	56508	सत्या प्रिया सक्सेना, मेक इन्फैन्ट्री
68943	ठक्कर ध्रुव दीपक, ईएमई	56522	मोहित निगम, इन्फैन्ट्री
68945	पी श्रीनिवासन, सिग्नल्स	56524	नितिन हंस, इन्फैन्ट्री
68946	नवल्लू सिंह राजपाल, सिग्नल्स	56525	अमित कुमार छेत्री, इन्फैन्ट्री
68948	नवेद अख्तर, ईएमई		

--16 दिसम्बर 2004

56561	सज्जन सिंह शेखावत, एएससी	65701	अमित रावत, इन्फैन्ट्री
	--06 नवम्बर 2003	65702	अनिल मनहास, इन्फैन्ट्री
65268	इन्द्रजीत सिंह, इन्फैन्ट्री	65703	समीर कादयान, एसी
65470	पुलकिन्द सिंह, इन्फैन्ट्री	65705	एम जिदेश कृष्णन, इंजीनियर्स
	--16 दिसम्बर 2004	65706	कुलदीप राज, इन्फैन्ट्री
65530	दीपक पाठक, ईएमई	65707	सुनील, एएससी
65532	बिजीय बाँ, सिगनल्स	65709	सुनील कुमार, मैक इन्फैन्ट्री
	--05 मई 2004	65710	हरमीत सिंह बेदी, आर्टी
53322	विवेक सिंह, ईएमई	65711	एन जो पाहरी, एओसी
	--10 दिसम्बर 1999	65712	नवीन सरवदे, इन्फैन्ट्री
65666	एओन चौधरी, एएडी	65715	शिंदे संग्राम रामचन्द्र, इन्फैन्ट्री
65667	संजय कुमार, इन्फैन्ट्री	65716	देविन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री
65668	प्रकाश प्रसाद, मैक इन्फैन्ट्री	65717	विनित बाजपेई, इन्फैन्ट्री
65670	अजय सिंह, इन्फैन्ट्री	65718	अनंत फोगट, एओसी
65671	सुभाष चन्द्र पुनिया, इन्फैन्ट्री	65719	विवेक गुप्ता, इंजीनियर्स
65672	मनीष पुंज, इन्फैन्ट्री	65721	एम पलानिसरवनन, इन्फैन्ट्री
65674	पुनीत सिंह अटवाल, एसी	65722	गौरव राणा, एएडी
65675	रविन्द्र सैनी, इन्फैन्ट्री	65723	रणधीर सिंह सूरी, एएससी
65676	जवा भरत राव अरिताकुला, इन्फैन्ट्री	65724	अजय कुमार, इन्फैन्ट्री
65680	नरेन्द्र सिंह चिब, एएससी	65725	सुखविन्द्र सिंह, आर्टी
65682	जतिन्द्र जसरोटिया, आर्टी	65726	कार्तिक कुमार, आर्टी
65683	जगदीप सिंह, इन्फैन्ट्री	65727	प्रज्ञा वर्मा, इन्फैन्ट्री
65684	भास्कर शिंदे, इन्फैन्ट्री	65728	वाकडे समीर सुरेश, आर्टी
65685	पुष्पेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री	65729	धनदुप करोंगा, इन्फैन्ट्री
65687	राजीव पाण्डे, इन्फैन्ट्री	65731	विकास राजा, एओसी
65688	अरवि बक्शी, इन्फैन्ट्री	65732	राहुल सिंह, इन्फैन्ट्री
65689	रवि शिकारवार, इन्फैन्ट्री	65733	गौरव वासी, आर्टी
65690	ध्रुव सारसवत, एसी	65734	वैद्य अभिजीत अनिल, इन्फैन्ट्री
65691	टण्डन गिरिश सी एम, आर्टी	65736	शेखरियुम बीकेन सिंह, इन्फैन्ट्री
65693	अमित भारद्वाज, इंजीनियर्स	65737	युवराज सिंह, इन्फैन्ट्री
65695	भानू प्रताप सिंह, इन्फैन्ट्री	65741	देविन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री
65696	अजीत कुमार सिंह, एओसी	65743	आनन्दजात सिंह, इन्फैन्ट्री
65697	दी सोमाशेखर, एएससी	65744	कर्ण सिंह, इन्फैन्ट्री
65698	विशाल शर्मा, एएडी	65745	हमीर सिंह, मैक इन्फैन्ट्री
65700	विद्यानन्द डी कंचन, आर्टी	65746	विरेन्द्र सिंह, एएससी

65749	राजेश कुमार नाथक, इन्फैन्ट्री	65550	मृदुल मिश्रा, इन्फैन्ट्री
65750	बाचसपतिमयू एम एल शर्मा, इन्फैन्ट्री	65551	संजीत सांगवान, एएससी
65751	अरुणकुमार एम, इन्फैन्ट्री	65552	विशाल सिंह सांगा, मैक इन्फैन्ट्री
65752	दिवादकर केदार राजीव, आर्टी	65553	अक्षय कुमार, आर्टी
65753	कृष्णवीर सिंह चहर, इंजीनियर्स	65555	अदित्या सिंह राठीर, एसी
65755	रोहन साहनी, आर्टी	65556	शिवीन्द्र प्रताप सिंह कंवर, इन्फैन्ट्री
65756	रवनीत बरार, इन्फैन्ट्री	65557	आर्धर अगई फोनिंग, इन्फैन्ट्री
65758	नगेन्द्र सिंह राठीर, इन्फैन्ट्री	65558	आनंद, ईएमई
65762	अभिषेक पंवार, इन्फैन्ट्री	65559	भानु प्रताप सिंह, एओसी
65763	टी लियान मुंग, इन्फैन्ट्री	65560	प्रेम कुमार तोमर, सिग्नल्स
65764	देशपाण्डे अजिनक्या जगदीश, इंजीनियर्स	65561	ब्रिजेन्द्र सिंह बी शेखावत, एसी
65766	सुनील पंकज गंगाल, इन्फैन्ट्री	65562	सुगंधित विकास बाली, इंजीनियर्स
65767	मनदीप सिंह, आर्टी	65563	शेराप दोर्जो भुटिया, इन्फैन्ट्री
65769	चेतन दत्ता, ईएमई	65565	अमरिन्द्र बरार, एसी
65770	मोहम्मद फारूख खान, एएससी	65566	पार्था प्रतिम दत्ता, इंजीनियर्स
65771	चरणजीव सिंह, इन्फैन्ट्री	65567	विवेक चौधरी, आर्टी
65773	संतोष कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री	65568	जाधव संतोष कुमार रंगराव, इन्फैन्ट्री
--07 मई 2005		65569	जाधव महेश वैष्णू, एसी
65533	प्रेम सिंह बिष्ट, आर्टी	65570	करन वशिष्ठ, इन्फैन्ट्री
65534	पंकज पैथानी, मैक इन्फैन्ट्री	65571	रोहित चौहान, इन्फैन्ट्री
65535	अश्वनी कुमार, आर्टी	65572	अरिन्दम बर्धन, इन्फैन्ट्री
65536	प्रभांत जोषिबा माने, एसी	65573	सिद्धार्थ पाटिल, इंजीनियर्स
65537	अमित मेहता, इन्फैन्ट्री	65574	सुनील कुमार, मैक इन्फैन्ट्री
65538	जोरावर सिंह, इन्फैन्ट्री	65577	विरमानी मनु चंदर मोहन, इन्फैन्ट्री
65539	सुरेश कुमार पंडित, इंजीनियर्स	65578	हेमंत लोहन, आर्टी
65540	लॉगजाम जिमकाली मोताई, इन्फैन्ट्री	65579	राजीव रंजन ठाकुर, सिग्नल्स
65541	संदीप के थापा, ईएमई	65580	एष बाबू, इन्फैन्ट्री
65542	अदित्या वाली, इन्फैन्ट्री	65581	कृष्ण कुमार शरण, आर्टी
65543	फर्नांडिज जोनी रांकी, इन्ट	65583	इम्तियाज मनसूरी, एएडी
65544	दीपक बी शर्मा, एओसी	65584	दिनेश सिंह भंडारी, ईएमई
65545	अजित कुमार राजगुरु मिश्रा, इन्फैन्ट्री	65585	सचिन शर्मा, एओसी
65546	कौशिक तरुण महेस्, एसी	65586	अमरदीप यादव, मैक इन्फैन्ट्री
65547	अरुण देव सिंह जसरोटिया, इन्फैन्ट्री	65588	विकास खन्ना, आर्टी
65548	रमित चौहान, सिग्नल्स	65589	दिग बिजय सिंह शेखावत, ईएमई
65549	प्रताप रंजन मोहंती, इन्फैन्ट्री	65590	मिश्रा राहुल बल, इन्फैन्ट्री

65591	बिजू कृष्णन, आर्टी	65634	माधवेन्द्र सिंह, ईएमई
65592	रमनदीप सन्धु, एसी	65635	राकेश शर्मा, एएडी
65593	विकास रामचंद्र पाटिल (खरे), सिग्नल्स	65636	मयंक तिवारी, मैक इन्फैन्ट्री
65594	पवन कुमार ठग्याल, इन्फैन्ट्री	65637	संजीत एस ज्ञानी, इन्फैन्ट्री
65595	सुखवंत सिंह डिन्डसा, इन्फैन्ट्री	65638	विकास त्यागी, एएससी
65596	रोहित सोलंकी, इन्फैन्ट्री	65639	आदित्या कपूर, एसी
65597	त्रिरेन्द्र कुमार पुष्कर, आर्टी	--16 दिसम्बर 2004	
65598	विक्रम सिंह बोरा, इन्फैन्ट्री	जसवंत सिंह	
65599	एम डी अनवारुद्दीन शरीफ, इन्फैन्ट्री	संयुक्त निदेशक	
65600	बादल कौशिक, एएडी	एम एस-8सी	
65601	एम बी विपिन, एएससी	-----	
65603	महेन्द्र कुमार जोशी, एएससी	थल सेना शाखा	
65604	विष्ट अभय भुवन चंदा, एओसी	सं. 303, दिनांक 11 जून 2008--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--	
65605	नोरज कुमार, इन्फैन्ट्री	नियमित सेना	
65606	राजीव मेनन, इन्फैन्ट्री	स्थायी कमीशन	
65607	दीपू के. इन्फैन्ट्री	(सेना चिकित्सा कोर)	
65608	शिव कुमार, ईएमई	विंग कमांडर/ग्रुप कैप्टन (टीएस) से ग्रुप कैप्टन (चयनित और समकक्ष) के पद पर	
65609	सौरभ रावत, इन्फैन्ट्री	एमआर नं. और नाम,	टिप्पणी
65610	अजय कुमार, इन्फैन्ट्री	एस के अवस्थी	26 फरवरी 2007 वेतन एवं पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 21 जनवरी 2006
65614	श्रौंगबाम दिजेन सिंह, इन्फैन्ट्री	(एमआर-4284एम) (एएफ-16354)	
65617	विक्रान्त मनकोटिया, ईएमई	जो एस सन्धु	22 मार्च 2007 वेतन एवं पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जनवरी 2007
65618	रमेश कुमार, इन्फैन्ट्री	(एमआर-4568डब्ल्यू) (एएफ-16767)	
65619	पैशाल मनोचा, इन्फैन्ट्री	आर सी पांडा	12 मार्च 2007 वेतन एवं पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जनवरी 2007
65621	प्रशांत झाला, इन्फैन्ट्री	(एमआर-5486एक्स) (एएफ-18434)	
65622	आसिफ अब्बास, इन्फैन्ट्री	जे के श्रीवास्तवा	26 फरवरी 2007 वेतन एवं पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जनवरी 2007
65623	परतंद मिश्रा, आर्टी	(एमआर-4781डब्ल्यू) (एएफ-17270)	
65624	दिनेश सिंह ठाकुर, इन्फैन्ट्री	(मिस्सेज) बी बी गोंज	16 अप्रैल 2007 वेतन एवं पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02 जनवरी 2007
65625	गर्जेन्द्र सिंह शेखावत, इन्फैन्ट्री	(एमआर-4284एम) (एएफ-16354)	
65626	विनोद जोशी, इन्फैन्ट्री		
65627	दिव्या मनो शुक्ला, इंजीनियर्स		
65628	शैलेन्द्र सिंह शेखावत, एसी		
65629	आनुराग शर्मा, सिग्नल्स		
65630	सिद्धार्थ विरमानो, सिग्नल्स		
65631	मान सिंह, इंजीनियर्स		
65632	फकीर अब्बास, एसी		
65633	विश्वास पी, इंजीनियर्स		

इलजीत सिंह (एमआर-4896के) (एफ-17403)	26 फरवरी 2007 वेतन एवं पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 फरवरी 2007
डी गौर (एमआर-4897एम) (एफ-17404)	26 फरवरी 2007 वेतन एवं पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 फरवरी 2007
एस मुखर्जी (एमआर-4918एक्स) (एफ-17405)	23 जुलाई 2007 वेतन एवं पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जून 2007
एस के अग्रवाल (एमआर-5879डब्ल्यू) (एफ-17407)	01 अगस्त 2007

जी रविन्द्रनाथ

ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक स से चि से (कार्यिक)

सं. 304, दिनांक 11 जून 2008--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :-

नियमित सेना

कोर ऑफ इंजीनियर

कंगाल इंजीनियर ग्रुप

पक्के सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार तम ईश्वर राय (जेसी-327088एक्स), 01 सितम्बर 2006
सूबेदार हिमंत सिंह (जेसी-327092ए), 01 सितम्बर 2006
सूबेदार कुलविन्दर सिंह (जेसी-327098एफ), 01 अक्टूबर 2006
सूबेदार धन बहादुर भूरा (जेसी-327099के), 01 अक्टूबर 2006
सूबेदार सुखदेव सिंह (जेसी-327100एन), 01 अक्टूबर 2006
सूबेदार पप्पी (जेसी-327928एम), 01 नवम्बर 2006
सूबेदार प्रसन्न कुमार मिसरो (जेसी-327940एन), 01 नवम्बर 2006
सूबेदार सरजीत सिंह (जेसी-327941एन), 01 दिसम्बर 2006
सूबेदार गोधा राम (जेसी-327948ए), 01 दिसम्बर 2006
सूबेदार अगस्तिन खरिषतिव (जेसी-327994पी), 01 जनवरी 2007
सूबेदार अरूप कुमार गोण (जेसी-328278डब्ल्यू), 01 मई 2007
सूबेदार साहिब सिंह (जेसी-328029एक्स), 01 जून 2007
सूबेदार दूध नाथ सिंह (जेसी-328036एन), 01 जून 2007
सूबेदार राम बहादुर खत्री (जेसी-328219के), 01 जून 2007

सूबेदार उरवा दत्त (जेसी-328039एफ), 01 जुलाई 2007
सूबेदार फतेह बहादुर सिंह (जेसी-328064ए), 01 अगस्त 2007
सूबेदार जगदम्बा राय (जेसी-328067एन), 01 अगस्त 2007
सूबेदार हीरा सिंह (जेसी-328079एच), 01 अगस्त 2007
सूबेदार राज पाल सिंह (जेसी-328078ए), 01 अगस्त 2007
सूबेदार पितम्बर प्रसाद (जेसी-328125एम), 01 सितम्बर 2007
सूबेदार चैन सिंह (जेसी-328126पी), 01 सितम्बर 2007
सूबेदार धन बहादुर शर्मा (जेसी-328127एक्स), 01 सितम्बर 2007
सूबेदार मान सिंह सैरों (जेसी-328131ए), 01 नवम्बर 2007
सूबेदार धर्मवीर शर्मा (जेसी-328129एच), 01 नवम्बर 2007

पक्के सूबेदार मेजर क्लर्क (जीडी) के रैंक में

सूबेदार योगेन्द्र कुमार सिंह (जेसी-215896एन), 01 जनवरी 2006
सूबेदार भीहम्मद अब्दुर खान (जेसी-325319के), 01 अप्रैल 2006
सूबेदार सतबीर सिंह (जेसी-325510एल), 01 जून 2006
सूबेदार बिमल डायमरी (जेसी-325528एफ), 01 जून 2006
सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद किमोबे (जेसी-325533एम), 01 जून 2006
सूबेदार महेन्द्र सिंह कौशिक (जेसी-325519ए), 01 जून 2006
सूबेदार अश्वनी कुमार सिंह (जेसी-325527वाई), 01 जून 2006
सूबेदार सुधाष प्रसाद कुशवाहा (जेसी-325541एल), 01 अगस्त 2006
सूबेदार हिमांशु शेखर नाथ (जेसी-325550एम), 01 अगस्त 2006
सूबेदार लाखन सिंह (जेसी-325532के), 01 जून 2006
सूबेदार हरीश चन्द्र जोशी (जेसी-325181ए), 01 अगस्त 2006
सूबेदार महेश कुमार ब्रह्मा (जेसी-325598ए), 01 सितम्बर 2006
सूबेदार राकेश कुमार शर्मा (जेसी-325600एम), 01 सितम्बर 2006
सूबेदार धर्म पाल (जेसी-325601पी), 01 अक्टूबर 2006
सूबेदार सोबन सिंह (जेसी-325606एन), 01 अक्टूबर 2006
सूबेदार भूरा (जेसी-325608वाई), 01 अक्टूबर 2006
सूबेदार रज्जोन चन्दा राय (जेसी-325790के), 01 नवम्बर 2006
सूबेदार पुष्कर सिंह मिश्र (जेसी-325719डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2006
सूबेदार चन्द्र मोहन सोरेन (जेसी-325695एक्स), 01 नवम्बर 2006
सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-325721एन), 01 दिसम्बर 2006
सूबेदार शशीकान्त चौबे (जेसी-325177एक्स), 01 जनवरी 2007
सूबेदार कुलतार सिंह वर्मा (जेसी-325494वाई), 01 जनवरी 2007
सूबेदार पूरन कान्त साकिया (जेसी-325503पी), 01 जनवरी 2007
सूबेदार क्याम लाल (जेसी-325516एम), 01 फरवरी 2007

सूबेदार प्रसन्ना कुमार सिन्हा (जेसी-325529के), 01 फरवरी 2007
 सूबेदार जगदीश चन्द (जेसी-325547एन), 01 मार्च 2007
 सूबेदार विनोद शंकर मिश्रा (जेसी-325549एक्स), 01 मार्च 2007
 सूबेदार सत पाल (जेसी-325307पी), 01 मार्च 2007
 सूबेदार अनन्त चरन महापत्रा (जेसी-325694पी), 01 अप्रैल 2007
 सूबेदार कृष्ण चन्द (जेसी-325720एल), 01 अप्रैल 2007
 सूबेदार राज कुमार सिंह (जेसी-325800एच), 01 मई 2007
 सूबेदार वजीर सिंह (जेसी-325801एल), 01 मई 2007
 सूबेदार शेखर कुमार सिंह (जेसी-325803डब्ल्यू), 01 मई 2007
 सूबेदार लखवीर सिंह (जेसी-325805एफ), 01 मई 2007
 सूबेदार भुनेश्वर रावत (जेसी-325812एक्स), 01 जून 2007
 सूबेदार नरेश कुमार शर्मा (जेसी-325943एच), 01 जून 2007
 सूबेदार राम सिंह थापा (जेसी-325947वाई), 01 जुलाई 2007
 सूबेदार मदन सिंह मेहता (जेसी-325874एक्स), 01 जून 2007
 सूबेदार प्रदीप कुमार (जेसी-325972एक्स), 01 जुलाई 2007
 सूबेदार नरीन्द्र जीत सिंह (जेसी-325806के), 01 जून 2007
 सूबेदार योगेन्द्र प्रसाद सिंह (जेसी-325809एक्स), 01 जून 2007
 सूबेदार मांगे राम (जेसी-325804वाई), 01 अगस्त 2007
 सूबेदार सत्यवीर सिंह (जेसी-325881एन), 01 जुलाई 2007
 सूबेदार सुरीन्द्र पाल सिंह (जेसी-325884एफ), 01 जुलाई 2007
 सूबेदार बशीर अहमद मोर (जेसी-325954पी), 01 जुलाई 2007
 सूबेदार अर्जुन सिंह पाराशर (जेसी-326017के), 01 जुलाई 2007

पक्के सूबेदार मेजर सर्वे के रैंक में

सूबेदार दया सिंह (जेसी-325051एक्स), 01 जुलाई 2007
 सूबेदार सुरीन्द्र सिंह (जेसी-326479डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2006
 सूबेदार हेमन्त सिंह कंवर (जेसी-328210पी), 01 जनवरी 2007
 सूबेदार परमजीत सिंह (जेसी-326671ए), 01 फरवरी 2007
 सूबेदार दिनेश सिंह (जेसी-326675डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2007
 सूबेदार अरविन्द सिंह नेगी (जेसी-325560डब्ल्यू), 01 मार्च 2007

पक्के सूबेदार मेजर आर टी के रैंक में

सूबेदार जगदीश प्रसाद (जेसी-120471के), 01 फरवरी 2007
 नायब सूबेदार श्याम नारायण सिंह (जेसी-328972एच), 01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार सुशांत कुमार पाल (जेसी-329036ए), 01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार गोविन्द सिंह (जेसी-328995के), 01 सितम्बर 2006
 नायब सूबेदार खतम सिंह (जेसी-328973एल), 01 सितम्बर 2006
 नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-328886एक्स), 27 जून 2006
 नायब सूबेदार विजय कुमार बेहरा (जेसी-328924एच), 27 जून 2006
 नायब सूबेदार श्यामल कुमात बिसवास (जेसी-328300डब्ल्यू), 27 जून 2006

नायब सूबेदार किशन सिंह (जेसी-328974एन), 01 अक्टूबर 2006
 नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-328996एम), 01 अक्टूबर 2006
 नायब सूबेदार शिव धन सिंह (जेसी-328997पी), 01 अक्टूबर 2006
 नायब सूबेदार जय राम सिंह (जेसी-329207एफ), 01 अक्टूबर 2006
 नायब सूबेदार गौरी शंकर यादव (जेसी-329000एफ), 01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार दीप चन्द (जेसी-329038एल), 01 अक्टूबर 2006
 नायब सूबेदार जोगेन्द्र प्रसाद (जेसी-329002एम), 01 अक्टूबर 2006
 नायब सूबेदार सच्चे सिंह (जेसी-329003पी), 01 अक्टूबर 2006
 नायब सूबेदार सुखवीर सिंह (जेसी-329004एक्स), 01 अक्टूबर 2006
 नायब सूबेदार अमरीक सिंह (जेसी-329040एच), 01 अक्टूबर 2006
 नायब सूबेदार अनन्त कुमार (जेसी-329005ए), 01 अक्टूबर 2006
 नायब सूबेदार मिथिलेश कुमार रे (जेसी-329132पी), 01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार भीम बहादुर थापा (जेसी-329041एल), 01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार किमत सिंह (जेसी-329007एल), 01 अक्टूबर 2006
 नायब सूबेदार नैन सिंह (जेसी-329008एन), 01 अक्टूबर 2006
 नायब सूबेदार सुरेन्द्र राम (जेसी-329009डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2006
 नायब सूबेदार जसपाल सिंह (जेसी-329133एक्स), 01 अक्टूबर 2006
 नायब सूबेदार सुरेश पाल सिंह (जेसी-3289010एल), 01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार राम सिंह रोतेला (जेसी-328975एम), 01 अक्टूबर 2006
 नायब सूबेदार गुरनाम सिंह (जेसी-329012डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2006
 नायब सूबेदार भीष्म नारायण सिंह (जेसी-329043डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2006

नायब सूबेदार जर्नेल सिंह (जेसी-329044वाई), 01 नवम्बर 2006
 नायब सूबेदार गणेश सिंह (जेसी-329013वाई), 01 नवम्बर 2006
 नायब सूबेदार महावीर सिंह (जेसी-329053ए), 01 नवम्बर 2006
 नायब सूबेदार अवधेश पाण्डेय (जेसी-329046के), 01 नवम्बर 2006

नायब सूबेदार रघुबीर सिंह (जेसी-329047एम), 01 दिसम्बर 2006
 नायब सूबेदार नन्दा बल्लभ सलवासी (जेसी-329045पी), 01 नवम्बर 2006
 नायब सूबेदार उमेश कुमार सिंह (जेसी-329054एच), 01 दिसम्बर 2006
 नायब सूबेदार मातबर सिंह (जेसी-329048डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2006
 नायब सूबेदार तेजबीर सिंह (जेसी-329050एम), 01 दिसम्बर 2006
 नायब सूबेदार जय प्रकाश (जेसी-329014एफ), 01 दिसम्बर 2006
 नायब सूबेदार गजेन्द्र कुमार चौधरी (जेसी-329006एफ), 01 अक्तूबर 2006
 नायब सूबेदार श्री विलास (जेसी-329049एक्स), 01 दिसम्बर 2006
 नायब सूबेदार राजीन्द्र सिंह (जेसी-329035एल), 01 जनवरी 2007
 नायब सूबेदार होम बहादुर पुन (जेसी-329019ए), 01 जनवरी 2007
 नायब सूबेदार मन मोहन सिंह नेगी (जेसी-329051पी), 01 जनवरी 2007
 नायब सूबेदार मोहन चन्द्र (जेसी-329016एम), 01 जनवरी 2007
 नायब सूबेदार नेत्रा सिंह साही (जेसी-329052एक्स), 01 जनवरी 2007
 नायब सूबेदार नारायण प्रसाद पलई (जेसी-329056एन), 01 जनवरी 2007
 नायब सूबेदार नारायण सिंह (जेसी-329134ए), 01 फरवरी 2007
 नायब सूबेदार आनन्द सिंह बफौला (जेसी-329057डब्ल्यू), 01 फरवरी 2007
 नायब सूबेदार सुभाष सिंह (जेसी-329208के), 01 फरवरी 2007
 नायब सूबेदार शिव नाथ सिंह (जेसी-329059एफ), 01 फरवरी 2007
 नायब सूबेदार जोगीन्द्र सिंह (जेसी-329060डब्ल्यू), 01 फरवरी 2007
 नायब सूबेदार बचन सिंह (जेसी-329061वाई), 01 फरवरी 2007
 नायब सूबेदार दलवीर सिंह (जेसी-329062एफ), 01 फरवरी 2007
 नायब सूबेदार मेहंगा सिंह (जेसी-329135एच), 01 फरवरी 2007
 नायब सूबेदार बनमाली बिसवास (जेसी-329039एन), 05 दिसम्बर 2007
 नायब सूबेदार नंदन सिंह रावत (जेसी-329063के), 01 मार्च 2007
 नायब सूबेदार छन्नु प्रसाद (जेसी-329064एम), 01 मार्च 2007
 नायब सूबेदार रुक्म सिंह (जेसी-329066एक्स), 01 मार्च 2007
 नायब सूबेदार सुदर्शन सिंह (जेसी-329136एल), 01 मार्च 2007
 नायब सूबेदार अवतार सिंह (जेसी-329067ए), 01 मार्च 2007
 नायब सूबेदार नगेन्द्र कुमार सिंह (जेसी-329137एन), 01 मार्च 2007
 नायब सूबेदार अर्जुन सिंह (जेसी-329068एच), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार नगेन्द्र कुमार लेन्का (जेसी-329069एल), 01 मार्च 2007
 नायब सूबेदार विश्वनाथ प्रसाद (जेसी-329070ए), 01 मार्च 2007
 नायब सूबेदार चन्द्र मोहन (जेसी-329071एच), 01 मार्च 2007
 नायब सूबेदार जामन सिंह (जेसी-329113के), 01 मार्च 2007
 नायब सूबेदार सर्वण सिंह (जेसी-329072एल), 01 मार्च 2007
 नायब सूबेदार श्री भावान सिंह (जेसी-329160एफ), 01 जनवरी 2007
 नायब सूबेदार संजीव कुमार सरकार (जेसी-329073एन), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार गौरंग मिश्रा (जेसी-329074डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार आनन्द सिंह (जेसी-329075वाई), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार वासुदेव प्रसाद (जेसी-329076एफ), 01 मई 2007
 नायब सूबेदार कमला सिंह (जेसी-329209एम), 01 मई 2007
 नायब सूबेदार मुकन्द सिंह (जेसी-329077के), 01 मई 2007
 नायब सूबेदार शम्भु नाथ जूवर (जेसी-329238एफ), 01 मई 2007
 नायब सूबेदार धन सिंह (जेसी-329078एम), 01 मई 2007
 नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-329079पी), 01 मई 2007
 नायब सूबेदार बच्चा सिंह (जेसी-329080के), 01 मई 2007
 नायब सूबेदार कृष्ण कुमार थापा (जेसी-329114एम), 01 मई 2007
 नायब सूबेदार जगत नारायण सिंह (जेसी-329081एम), 01 मई 2007
 नायब सूबेदार कृष्णा नन्द कण्डपाल (जेसी-329082पी), 01 मई 2007
 नायब सूबेदार प्रहलाद सिंह (जेसी-329083एक्स), 01 मई 2007
 नायब सूबेदार करमेल सिंह (जेसी-329084ए), 01 मई 2007
 नायब सूबेदार लखविन्दर सिंह (जेसी-329088एन), 01 जून 2007
 नायब सूबेदार जगभान सिंह (जेसी-329089वाई), 01 जून 2007
 नायब सूबेदार सुरेश बहादुर सिंह (जेसी-329690डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2005
 नायब सूबेदार प्रकाश सिंह (जेसी-329139वाई), 01 जून 2007
 नायब सूबेदार जितेन्द्र प्रसाद सिंह (जेसी-329090एन), 01 जून 2007
 नायब सूबेदार कृष्णा मुरारी (जेसी-329094के), 01 जून 2007
 नायब सूबेदार प्रेम नारायण सिंह यादव (जेसी-329095एम), 01 जून 2007
 नायब सूबेदार मनोहरन बी (जेसी-329091डब्ल्यू), 01 जून 2007
 नायब सूबेदार धुवन चन्द्र सिंह (जेसी-329092वाई), 01 जून 2007
 नायब सूबेदार ईन्द्रजीत तिवारी (जेसी-329093एफ), 01 जून 2007
 नायब सूबेदार महेन्द्र पाल सिंह (जेसी-329140एन), 01 जून 2007
 नायब सूबेदार नरसिंह नारायण तिवारी (जेसी-329115पी), 01 जून 2007
 नायब सूबेदार जसविन्दर सिंह (जेसी-329086एल), 01 जून 2007

नायब सूबेदार मन बहादुर विश्वकर्मा (जेसी-329099एच), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार चन्द्र प्रकाश आर्य (जेसी-329143एफ), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार विश्वनाथ प्रसाद चमरारा (जेसी-329101पी), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार शिव शंकर सिंह (जेसी-329102वाई), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार बिरेन्द्र कुमार सिंह (जेसी-329104एच), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार हरवीर सिंह (जेसी-329142वाई), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार गोपाल छत्री (जेसी-329105एल), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार सुरेश चन्द्र (जेसी-329106एन), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार दिनेश चन्द्र बंगवाल (जेसी-329107डब्ल्यू), 01 अगस्त 2007

नायब सूबेदार अवधेश कुमार सिंह (जेसी-329108एन), 01 अगस्त 2007

नायब सूबेदार करम सिंह (जेसी-329145एम), 01 अगस्त 2007

नायब सूबेदार अखिलेश्वर सिंह (जेसी-329087एन), 01 जून 2007

नायब सूबेदार श्याम सिंह (जेसी-329085एच), 01 जून 2007

नायब सूबेदार भावान सिंह (जेसी-329098ए), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार बिरेन्द्र कुमार सिंह (जेसी-329103ए), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार हिम्मत सिंह धामी (जेसी-329112एफ), 01 अगस्त 2007

नायब सूबेदार ईश्वरी दत्त (जेसी-329100एम), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-329141डब्ल्यू), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार रमेश चन्द (जेसी-329144के), 01 अगस्त 2007

नायब सूबेदार रमेश चन्द्र सिंह बिष्ट (जेसी-329096पी), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार दरवान सिंह (जेसी-329146पी), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार कुन्दन राम (जेसी-329148ए), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार सुखविन्दर सिंह (जेसी-329210एफ), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार मौहम्मद हनीष (जेसी-329150एक्स), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार जयवीर सिंह (जेसी-329338एम), 01 अगस्त 2007

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-329147एक्स), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार नवाब सिंह (जेसी-329151ए), 01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार जगदीश सिंह खाती (जेसी-329152एच), 01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार राम किशोर वर्मा (जेसी-329153एल), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार सुरेन्द्र प्रसाद सिंह (जेसी-329154एन), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-329155डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार श्याम सिंह (जेसी-329156वाई), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार कुशल सिंह (जेसी-329157एफ), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार भीम यादव (जेसी-329158के), 01 नवम्बर 2007

पक्के सूबेदार क्लर्क (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार गिरोश कुमार (जेसी-327291एन), 01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार दिवान सिंह अधिकारी (जेसी-327266पी), 01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार गयाधरा परोदा (जेसी-328012के), 01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार भोला मुखर्जी (जेसी-327908वाई), 01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार रविन्दर सिंह तोमर (जेसी-327293वाई), 01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार रमेश कुमार (जेसी-327920ए), 01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार राम कुमार शर्मा (जेसी-327290एल), 01 अगस्त 2006

नायब सूबेदार कुलदीप चन्द शर्मा (जेसी-327265एम), 01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार रोहतास चन्द्र ढाका (जेसी-326970वाई), 27 जून 2006

नायब सूबेदार हीरा सिंह (जेसी-327919एल), 01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार बोध राम (जेसी-327261डब्ल्यू), 01 अगस्त 2006

नायब सूबेदार गुरचरण सिंह (जेसी-327921एच), 01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार बलविन्दर सिंह (जेसी-327929पी), 01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार परमजीत सिंह (जेसी-327922एल), 01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार धनी राम (जेसी-327923एन), 01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार राज कुमार सैतिया (जेसी-327930के), 01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार जनक राज राणा (जेसी-327924एच), 01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार अशोक डे (जेसी-327294एफ), 01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार ब्रह्म जॉन (जेसी-327925वाई), 01 नवम्बर 2006

नायब सूबेदार जोगिन्द्र सिंह पन्थाल (जेसी-327926एफ), 01 नवम्बर 2006

नायब सूबेदार सज्जद मिर्जा (जेसी-327961के), 01 नवम्बर 2006

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-327932पी), 01 नवम्बर 2006

नायब सूबेदार अशोक कुमार सिंह (जेसी-328043के), 01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार जलेश कुमार तिवारी (जेसी-327907के), 01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार रमा कान्त धर दुबे (जेसी-328013एम), 01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार अशोक कुमार मिश्रा (जेसी-328136वाई), 01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-327935एच), 01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार धर्म बीर (जेसी-327963पी), 01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार प्रीतम सिंह (जेसी-328014पी), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-327937एन), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार गोबरधन भवता (जेसी-327965ए), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार सवर्ण जीत (जेसी-328045पी), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार रमेश सिंह (जेसी-327966एन), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार देस राम (जेसी-328016ए), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार अजीत कुमार पाल (जेसी-328017एच), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार डुंगर देव शर्मा (जेसी-328046एक्स), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार श्रेष्ठ जहीरुद्दीन अहमद (जेसी-327295के), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार पून सिंह खनका (जेसी-328047ए), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार ओम प्रकाश दुबे (जेसी-327967एल), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार महावीर प्रसाद (जेसी-328050ए), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार कृष्ण कुमार (जेसी-328051एच), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार शिव प्रसाद (जेसी-328137एफ), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार रमेश पाल सिंह (जेसी-328049एल), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार मदन गोपाल (जेसी-328052एल), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार अजय पाल सिंह (जेसी-328053एम), 01 मई 2007

नायब सूबेदार कर्मवीर सिंह (जेसी-328055वाई), 01 मई 2007

नायब सूबेदार राम राज पाठक (जेसी-328085डब्ल्यू), 01 मई 2007

नायब सूबेदार राजेश कुमार (जेसी-328139एम), 01 मई 2007

नायब सूबेदार राम गोपाल (जेसी-328087एफ), 01 मई 2007

नायब सूबेदार लक्ष्मी नारायण (जेसी-328088के), 01 जून 2007

नायब सूबेदार नाथूनी सिंह (जेसी-328089एम), 01 जून 2007

नायब सूबेदार रमेश चन्द्र (जेसी-328091एफ), 01 जून 2007

नायब सूबेदार मोहन लाल दत्ता (जेसी-328090एफ), 01 जून 2007

नायब सूबेदार देव राज मिस्सी (जेसी-328141के), 01 जून 2007

नायब सूबेदार प्रणव भौमिक (जेसी-328140एफ), 01 जून 2007

नायब सूबेदार हरीश चन्द्र (जेसी-328093पी), 01 जून 2007

नायब सूबेदार राजबीर (जेसी-328142एम), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार गुरचरण सिंह (जेसी-328170वाई), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-328171एफ), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार सत्यवीर यादव (जेसी-328197डब्ल्यू), 01 अगस्त 2007

नायब सूबेदार राम पाल (जेसी-328222के), 01 अगस्त 2007

नायब सूबेदार ईशवर सिंह (जेसी-328223एम), 01 अगस्त 2007

नायब सूबेदार सोहन सिंह (जेसी-328225एक्स), 01 अगस्त 2007

नायब सूबेदार सुनील चन्द राणा (जेसी-328226ए), 01 अगस्त 2007

नायब सूबेदार बिजेन्द्र पाल सिंह (जेसी-328168एफ), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार सवर्ण सिंह (जेसी-328169के), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार जगमाल सिंह (जेसी-328234वाई), 01 अगस्त 2007

नायब सूबेदार रविन्द्र पाल सिंह (जेसी-328235एफ), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार धर्मवीर सिंह (जेसी-328238पी), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार बबन बीजनाथ पाण्डेय (जेसी-328239एक्स), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार गोपी राम (जेसी-328407एल), 01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार रमेश कुमार साह (जेसी-328408एन), 01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार सुरेश प्रसाद शाह (जेसी-328410एल), 01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार चन्द्र शेखर उपरती (जेसी-328411एन), 01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार रत्नेश्वर नाथ (जेसी-328413वाई), 01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार राम लखन (जेसी-328415के), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार पवन कुमार (जेसी-328435एक्स), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार राजेन्द्र कुमार (जेसी-328436ए), 01 नवम्बर 2007

पक्के सूबेदार एसकेटी के रैंक में

नायब सूबेदार दिनेश पाण्डेय (जेसी-328199एफ), 01 अक्टूबर 2006

पक्के सूबेदार सर्वे के रैंक में

नायब सूबेदार दान सिंह (जेसी-326482डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार कूलबिन्दर सिंह (जेसी-326825एफ), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार हरजिन्दर सिंह (जेसी-326611एल), 01 मार्च 2007
 नायब सूबेदार सलार अली (जेसी-328367पी), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार सुखवन्त सिंह (जेसी-328664एच), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार पुष्कर सिंह (जेसी-328240एम), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार सन्तोष कुमार मिश्रा (जेसी-329597पी), 01 जून 2007
 नायब सूबेदार नरेश पाल (जेसी-329598एक्स), 01 जून 2007
 नायब सूबेदार चन्द्र शेखर (जेसी-329743के), 01 जून 2007
 नायब सूबेदार सोमपाल सिंह (जेसी-329746एक्स), 01 जून 2007
 नायब सूबेदार अरविन्द बाबु बी पी (जेसी-329740डब्ल्यू), 01 जून 2007

नायब सूबेदार शेखर कुमार पाठक (जेसी-329744एम), 01 जून 2007
 नायब सूबेदार डोगर सिंह (जेसी-329745पी), 01 जून 2007
 नायब सूबेदार अतुल कुमार त्रिपाठी (जेसी-329599ए), 01 जून 2007
 नायब सूबेदार मसाला पिल्ली वैकट नारायण (जेसी-329741वाई), 01 जून 2007

नायब सूबेदार अक्षय कुमार पाधी (जेसी-329742एफ), 01 जून 2007
 नायब सूबेदार राकेश चौधरी (जेसी-329747ए), 01 जून 2007
 नायब सूबेदार हुकम सिंह नेगी (जेसी-326577डब्ल्यू), 01 जून 2007
 नायब सूबेदार प्रमोद सिंह नेगी (जेसी-326550वाई), 01 अगस्त 2007

पक्के सूबेदार आर टी के रैंक में

नायब सूबेदार सरजदीप सिंह (जेसी-326454के), 01 दिसम्बर 2006

पक्के सूबेदार मेजर क्लर्क (जी डी) के रैंक में

सूबेदार विनोद शंकर मिश्रा (जेसी-325549एक्स), 01 मार्च 2007
 सूबेदार सतपाल (जेसी-325307पी), 01 मार्च 2007
 सूबेदार अनन्त चरन मोहापत्रा (जेसी-325694पी), 01 अप्रैल 2007
 सूबेदार कृष्ण चन्द (जेसी-325720एल), 01 अप्रैल 2007
 सूबेदार राज कुमार सिंह (जेसी-325800एच), 01 मई 2007
 सूबेदार वजीर सिंह (जेसी-325801एल), 01 मई 2007
 सूबेदार श्योकरन (जेसी-326015वाई), 01 सितम्बर 2007
 सूबेदार कुलबीर सिंह दहिया (जेसी-326078एम), 01 नवम्बर 2007
 सूबेदार दलबीर सिंह (जेसी-325303वाई), 01 जनवरी 2008

पक्के सूबेदार (जोड़ी) के रैंक में

नायब सूबेदार राम नाथ (जेसी-329110डब्ल्यू), 01 अगस्त 2007
 नायब सूबेदार बाने सिंह (जेसी-329111वाई), 01 अगस्त 2007
 नायब सूबेदार देवेन्द्र सिंह (जेसी-329162एम), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार भोला नाथ (जेसी-329163पी), 01 दिसम्बर 2007
 नायब सूबेदार खड़क सिंह (जेसी-329164एक्स), 01 दिसम्बर 2007
 नायब सूबेदार रनबीर सिंह (जेसी-329166एच), 01 दिसम्बर 2007
 नायब सूबेदार मलुक सिंह (जेसी-329167एल), 01 दिसम्बर 2007
 नायब सूबेदार रबिन्द्र सिंह (जेसी-329168एन), 01 दिसम्बर 2007
 नायब सूबेदार सतगु राम (जेसी-329240आई), 01 दिसम्बर 2007
 नायब सूबेदार कृष्ण कुमार सिंह (जेसी-329169वाई), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार प्रीतम चन्द (जेसी-329171एम), 01 दिसम्बर 2007
 नायब सूबेदार प्रेम दयाल सिंह (जेसी-329172डब्ल्यू), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार श्याम नारायण सिंह (जेसी-329211के), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार गुरवचन सिंह (जेसी-329212एम), 01 जनवरी 2008
 नायब सूबेदार प्रोबीर कुमार मण्डल (जेसी-329213पी), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार रणजीत सिंह (जेसी-329214एक्स), 01 जनवरी 2008
 नायब सूबेदार गोपाल कृष्ण नायर पी (जेसी-329215ए), 01 जनवरी 2008

पक्के सूबेदार क्लर्क (जोड़ी) के रैंक में

नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (जेसी-328458वाई), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार सुरेश यादव (जेसी-328460डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2007
 नायब सूबेदार किशन सिंह (जेसी-328461वाई), 01 दिसम्बर 2007
 नायब सूबेदार असीम राणा (जेसी-328494के), 01 दिसम्बर 2007
 नायब सूबेदार चन्द्रमा सिंह (जेसी-328495एम), 01 दिसम्बर 2007
 नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-328496पी), 01 दिसम्बर 2007
 नायब सूबेदार सुभाष सिंह (जेसी-328462एफ), 01 दिसम्बर 2007
 नायब सूबेदार ब्रह्मदत्त शर्मा (जेसी-328498ए), 01 दिसम्बर 2007
 नायब सूबेदार मनोज मिश्रा (जेसी-328499एच), 01 जनवरी 2008
 नायब सूबेदार श्री नाथ पाल (जेसी-328500एम), 01 जनवरी 2008
 नायब सूबेदार नारायण सिंह (जेसी-328501पी), 01 जनवरी 2008
 नायब सूबेदार जिया लाल शर्मा (जेसी-328502एक्स), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार मोहिन्द्र पाल शर्मा (जेसी-328546पी), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार मदन लाल (जेसी-328521एच), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार प्यार सिंह (जेसी-328522एल), 01 जनवरी 2008

पक्के सूबेदार क्लर्क (स्टोर) के रैंक में

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-326610एच), 01 दिसम्बर 2007

नम्बई इंजीनियरी ग्रुप

सूबेदार मेजर (क्लर्क जीडी) के रैंक में

सूबेदार (क्लर्क जीडी) विरेंद्र सिंह (जेसी-347524एल), 10 अक्टूबर 2007

सूबेदार (क्लर्क जीडी) रत्तन लाल (जेसी-347523एच), 08 अक्टूबर 2007

सूबेदार (क्लर्क जीडी) दुध नाथ सिंह (जेसी-347655डब्ल्यू), 27 नवम्बर 2007

सूबेदार (क्लर्क जीडी) दिगंबर सिंह (जेसी-347635एच), 04 दिसम्बर 2007

सूबेदार (क्लर्क जीडी) प्रेम कुमार शर्मा (जेसी-347610डब्ल्यू), 07 दिसम्बर 2007

सूबेदार (क्लर्क जीडी) विरेंद्र सिंह दहिया (जेसी-347896डब्ल्यू), 05 दिसम्बर 2007

सूबेदार (क्लर्क जीडी) सुद्धाला लोकेस्व (जेसी-347559एफ), 13 दिसम्बर 2007

सूबेदार (क्लर्क जीडी) परशोतम सिंह (जेसी-347585एच), 15 नवम्बर 2007

सूबेदार (क्लर्क जीडी) रत्तन सिंह (जेसी-347704एन), 08 जनवरी 2008

सूबेदार (क्लर्क जीडी) गोपाल सिंह राना (जेसी-347879डब्ल्यू), 05 दिसम्बर 2007

सूबेदार (क्लर्क जीडी) हरस्वरूप (जेसी-347582पी), 04 फरवरी 2008

सूबेदार (क्लर्क जीडी) चौगले मधुकर दत्तात्रय (जेसी-3477784डब्ल्यू), 06 मार्च 2008

सूबेदार (क्लर्क जीडी) रमेश चंद्र शर्मा (जेसी-347769एफ), 04 फरवरी 2008

सूबेदार (क्लर्क जीडी) रामवीर सिंह (जेसी-347793एक्स), 18 फरवरी 2008

सूबेदार (क्लर्क जीडी) चंद्र मोहन पाठक (जेसी-347608वाई), 19 फरवरी 2008

सूबेदार (क्लर्क जीडी) राजेंद्र सिंह (जेसी-347779एल), 17 मार्च 2008

सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार (जीडी) करार बालू कृष्णा (जेसी-348411पी), 12 मार्च 2008

सूबेदार (जीडी) बक्षीश सिंह (जेसी-348344पी), 05 दिसम्बर 2007

सूबेदार (जीडी) उमा शंकर मौर्य (जेसी-348376एक्स), 07 दिसम्बर 2007

सूबेदार (क्लर्क जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) सुरेश चंद वर्मा (जेसी-349171पी), 21 फरवरी 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) राजेंद्र कुमार (जेसी-349209एन), 19 फरवरी 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) राकेश कुमार (जेसी-349284एक्स), 15 फरवरी 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) शिव राज सिंह (जेसी-349221पी), 14 फरवरी 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) महिपाल सिंह (जेसी-349270एक्स), 14 फरवरी 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) रमेश चंद्र (जेसी-349180डब्ल्यू), 12 फरवरी 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) राम करन जाट (जेसी-348992एक्स), 16 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) हरीश कुमार (जेसी-349283पी), 09 फरवरी 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) ब्रिपन सिंह पन्वर (जेसी-349253एक्स), 08 फरवरी 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) जयाचंद्रन नायर पी वी (जेसी-349272एच), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) लक्ष्मण गुनवंत ठाके (जेसी-349036एफ), 11 फरवरी 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) भूप सिंह गंगवार (जेसी-349255एच), 08 फरवरी 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) भोकरे जोतीराम सदाशिव (जेसी-349268ए), 13 फरवरी 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) बाबूस्कर श्रीकृष्णा हरी (जेसी-348854डब्ल्यू), 22 फरवरी 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) मानाबेन्द्र चक्रवर्ती (जेसी-349033एन), 10 फरवरी 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) सुरेश कुमार (जेसी-349069एच), 07 मार्च 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) बहादुर सिंह (जेसी-349049वाई), 15 मार्च 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) यादव जयसिंग हरीसिंग (जेसी-349252पी), 28 फरवरी 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) मंगला राम मुंदियारा (जेसी-349213डब्ल्यू), 11 फरवरी 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) भगवान सिंह (जेसी-349035वाई), 27 फरवरी 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) रामसेवक यादव (जेसी-349288एन), 13 मार्च 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) प्रह्लाद सिंह अजरौवाल (जेसी-349070एफ), 11 फरवरी 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) रोशन सिंह (जेसी-349210एच), 21 फरवरी 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) रघुविंदर सिंह (जेसी-349073पी), 10 मार्च 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) नरेंद्र प्रताप सिंह (जेसी-349034डब्ल्यू), 22 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) सुरेन्द्र कुमार यादव (जेसी-349257एन), 20 फरवरी 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) पतारे भाऊसाहेब रामचंद्र (जेसी-348947एल), 16 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) महिपाल सिंह शेखत (जेसी-348914ए), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) दया नंद (जेसी-348836एन), 01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) राकेश कुमार शर्मा (जेसी-348792एफ), 08 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) अब्दुल वाहीद (जेसी-349201एफ), 06 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) राय बरन आजाद (जेसी-348847ए), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) महेंद्र पाल (जेसी-348932एच), 06 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) वासुदेवन एन (जेसी-348846एक्स), 19 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) बसंत कुमार (जेसी-348950एल), 04 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) कोशलाराम चौधरी (जेसी-348932एन), 07 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) पौध्याम चौधरी (जेसी-348991पी), 06 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) कुलकर्णी विनयकumar (जेसी-348948एन), 03 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) पटोले शामराव अनेबा (जेसी-348786एन), 03 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) धीरज कुमार (जेसी-348952डब्ल्यू), 04 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) घन श्याम सिंह (जेसी-348954एफ), 03 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) राजेंद्र सिंह (जेसी-348974पी), 05 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) गोविंद सिंह बिष्ट (जेसी-348798एच), 03 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) प्रदुमन (जेसी-349317एक्स), 08 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) कशमीरी लाल (जेसी-348988पी), 06 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) चुंदर परेश कुमार रमेश चंद (जेसी-348951एन), 04 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) सुरेंद्र मोहन (जेसी-349007एम), 27 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) दीप चंद (जेसी-348972के), 07 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) रणधीर सिंह (जेसी-348949डब्ल्यू), 09 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) काशिश शिवाजी ज्ञानदेव (जेसी-348999एफ), 17 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) नील बाजौराव माधाराव (जेसी-349008पी), 17 जनवरी 2007

सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार (जीडी) भीम सिंह (जेसी-349794वाई), 12 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (जीडी) महावीर प्रसाद (जेसी-349695डब्ल्यू), 16 फरवरी 2008

नायब सूबेदार (जीडी) भोगले बाबाजान राव (जेसी-349749एम), 10 मार्च 2008

नायब सूबेदार (जीडी) सुरेंद्र सिंह गुर्जर (जेसी-349697एफ), 05 मार्च 2008

नायब सूबेदार (जीडी) सत्यलाल सिंह (जेसी-349738ए), 08 मार्च 2008

नायब सूबेदार (जीडी) धीरज सिंह (जेसी-349776डब्ल्यू), 10 मार्च 2008

नायब सूबेदार (जीडी) हरि सिंह जाट (जेसी-349689एच), 07 मार्च 2008

नायब सूबेदार (जीडी) डल्लेकर संजय गोविंद (जेसी-349708एच), 08 मार्च 2008

नायब सूबेदार (जीडी) सज्जन सिंह (जेसी-349745डब्ल्यू), 12 मार्च 2008

नायब सूबेदार (जीडी) विजेंद्र (जेसी-349733एफ), 12 मार्च 2008

नायब सूबेदार (जीडी) विजय नारायण (जेसी-349692एच), 07 मार्च 2008

नायब सूबेदार (जीडी) सचिंदर सिंह (जेसी-349705पी), 09 मार्च 2008

नायब सूबेदार (जीडी) पारसे दिलीप रामा (जेसी-349820पी), 09 मार्च 2008

नायब सूबेदार (जीडी) अशोक कुमार (जेसी-349796के), 07 मार्च 2008

नायब सूबेदार (जीडी) सागर सिंह (जेसी-349774एल), 10 मार्च 2008

नायब सूबेदार (जीडी) ललित मोहन (जेसी-349742एच), 13 मार्च 2008

नायब सूबेदार (जीडी) राजेंद्र सिंह (जेसी-349700डब्ल्यू), 13 मार्च 2008

नायब सूबेदार (जीडी) मुख्तार सिंह (जेसी-349735एम), 13 मार्च 2008

नायब सूबेदार (जीडी) श्री राम वर्मा (जेसी-349775एन), 17 मार्च 2008

नायब सूबेदार (जीडी) संतोष सिंह (जेसी-349690एक्स), 14 मार्च 2008

नायब सूबेदार (जीडी) उमाकांत सुदाम जोरोडे (जेसी-349703के), 12 मार्च 2008

नायब सूबेदार (जीडी) जान मोहमेद (जेसी-349751के), 18 मार्च 2008

नायब सूबेदार (जीडी) सावंत संजय रमेश (जेसी-349707ए), 15 मार्च 2008

नायब सूबेदार (जीडी) कश्मीर सिंह (जेसी-349701वाई), 12 मार्च 2008

नायब सूबेदार (जीडी) अब्दुल कैयुम (जेसी-349677एन), 11 मार्च 2008

नायब सूबेदार (जीडी) रामेश्वर सिंह (जेसी-349691ए), 24 मार्च 2008

नायब सूबेदार (जीडी) सुखविंदर सिंह (जेसी-349737एक्स), 11 मार्च 2008

नायब सूबेदार (जीडी) कुलवीर चंद (जेसी-349739एच), 12 मार्च 2008

नायब सूबेदार (जीडी) निर्मल सिंह (जेसी-349736पी), 14 मार्च 2008

नायब सूबेदार (जीडी) शिंदे विश्वास पांडुरंग (जेसी-349678डब्ल्यू), 14 मार्च 2008

नायब सूबेदार (जीडी) बंत सिंह (जेसी-349698के), 21 मार्च 2008

नायब सूबेदार (जीडी) यादव अम्प हान (जेसी-349780वाई), 02 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार (जीडी) ज्ञानदेव पांडुरंग बर्गे (जेसी-349624पी), 10 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार (जीडी) विरेंद्र कुमार (जेसी-349638पी), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार (जीडी) नवखरे देवराय रघुनाथ (जेसी-349609ए), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार (जीडी) माने रामचंद्र धमनराय (जेसी-349622के), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार (जीडी) शम्बीर अहमद (जेसी-349644एच), 11 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार (जीडी) कुलगे सम्पत भागोजी (जेसी-349666एफ), 20 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार (जीडी) दरबार सिंह (जेसी-349648वाई), 19 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार (जीडी) सतपाल (जेसी-349665वाई), 16 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार (जीडी) दीप चंद (जेसी-349640एम), 18 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार (जीडी) अशीष कुमार (जेसी-349664डब्ल्यू), 18 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार (जीडी) जरनैल सिंह (जेसी-349653के), 13 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार (जीडी) सुदेश पाल (जेसी-349683एफ), 13 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार (जीडी) परलाद सिंह (जेसी-349647डब्ल्यू), 12 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार (जीडी) सतवीर सिंह (जेसी-349654एम), 17 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार (जीडी) पाटेल गोरखनाथ नाथदेव (जेसी-349649एफ), 17 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार (जीडी) पलविंदर सिंह (जेसी-349646एन), 31 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार (जीडी) चौगले विलास केशव (जेसी-349643ए), 19 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार (जीडी) सुरेश कुमार (जेसी-349651वाई), 27 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार (जीडी) गुरमेल सिंह (जेसी-349623एफ), 31 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार (जीडी) गुंड बिजु भगवान (जेसी-349657ए), 09 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (जीडी) बंगाली राम (जेसी-349655पी), 14 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (जीडी) जाधव अशोक गोविंद (जेसी-349670के), 10 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (जीडी) मोहम्मद रफीक (जेसी-349652एफ), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (जीडी) विष्णु बाप्पाजी यनवे (जेसी-349650डब्ल्यू), 03 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (जीडी) भदन सिंह भंडारी (जेसी-349699एफ), 10 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (जीडी) नसीम खान (जेसी-349679वाई), 10 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (जीडी) पवार लिमराज उधव (जेसी-349686पी), 10 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (जीडी) मोहन एस (जेसी-349674एफ), 10 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (जीडी) थकाचन के वी (जेसी-349685एफ), 10 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (जीडी) आजाद सिंह (जेसी-349671एफ), 10 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (जीडी) हरनेक सिंह (जेसी-349694एन), 11 जनवरी 2008

नायब सूबेदार (जीडी) बंसत कुमार स्वामी (जेसी-349673एक्स), 11 जनवरी 2008

सूबेदार मेजर (एस के टी) के रैंक में

सूबेदार (एस के टी) मन्सूर अहमद खान (जेसी-347949के), 08 मार्च 2008

सूबेदार (एस के टी) धर्मवीर सिंह (जेसी-349159एन), 03 मार्च 2008

अलका जोशी
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 305, दिनांक 11 जून 2008 -राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेना

पायनियर कोर

नायब सूबेदार (जीडी)/क्लर्क (जीडी) के रैंक में

रैंक, नाम, आर्मी नम्बर, अब जेसी नम्बर तथा पदोन्नति दिनांक

हवलदार (जीडी) सदा शिव बाबू वाडीगर (सं. 8030459वाई अब जेसी-829380एन), 01 जून 2007

हवलदार (जीडी) सुकुमारन नायर एम (सं. 8030410एच अब जेसी-829381डब्ल्यू), 23 अक्टूबर 2007

हवलदार (जीडी) नरेन्द्र बहादुर सिंह (सं. 8030745ए अब जेसी-829382वाई), 15 अक्टूबर 2007

हवलदार (जीडी) धर्मेन्द्र सिंह (सं. 8030748एन अब जेसी-829383एफ), 12 अक्टूबर 2007

हवलदार (जीडी) भागीरथी बेहरा (सं. 8030769के अब जेसी-829384के), 12 अक्टूबर 2007

हवलदार (जीडी) हीरा लाल पाण्डे (सं. 8033205एफ अब जेसी-829385एफ), 12 अक्टूबर 2007

हवलदार (जीडी) भवानी दा (सं. 8030853के अब जेसी-829386पी), 31 अक्टूबर 2007

हवलदार (जीडी) जामेश्वर पन्ना (सं. 8030197एन अब जेसी-829387एक्स), 30 अक्टूबर 2007

हवलदार (जीडी) राजन पुथुसेरी (सं. 8030369एक्स अब जेसी-829388ए), 24 अक्टूबर 2007

हवलदार (जीडी) राजेन्द्र पाल (सं. 8030480एफ अब जेसी-829389एच), 01 नवम्बर 2007

हवलदार (जीडी) बाबू राजन नायर आर (सं. 8030681ए अब जेसी-829390एक्स), 07 नवम्बर 2007

हवलदार (जीडी) पेरिस बोगर (सं. 8030954के अब जेसी-829391ए), 07 नवम्बर 2007

हवलदार (जीडी) राधेश्याम (सं. 8031045वाई अब जेसी-829392एच), 03 दिसम्बर 2007

हवलदार (जीडी) पी मैलेश (सं. 8031049पी अब जेसी-829393एल), 10 दिसम्बर 2007

हवलदार (जीडी) वल्लु कुमार थापा (सं. 8031534के अब जेसी-829395डब्ल्यू), 20 दिसम्बर 2007

हवलदार (जीडी) पुरुषोत्तम कुमार (सं. 8031796ए अब जेसी-829396वाई), 01 दिसम्बर 2007

हवलदार (जीडी) लक्ष्मण बासाप्पा मोडगी (सं. 8031805डब्ल्यू अब जेसी-829400डब्ल्यू), 01 जनवरी 2008

हवलदार (जीडी) चित्तरंजन दास (सं. 8030569एन अब जेसी-829401वाई), 01 जनवरी 2008

हवलदार (जीडी) श्री राम (सं. 8031058डब्ल्यू अब जेसी-829402एफ), 01 जनवरी 2008

हवलदार (जीडी) अर्जुन सिंह (सं. 8031832ए अब जेसी-829403के), 01 जनवरी 2008

हवलदार (जीडी) रतन लाल (सं. 8031862एक्स अब जेसी-829404एम), 01 जनवरी 2008

हवलदार (जीडी) राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (सं. 8031876एक्स अब जेसी-829405पी), 01 जनवरी 2008

हवलदार (जीडी) विजय राम (सं. 8032220पी अब जेसी-829394एन), 01 दिसम्बर 2007

हवलदार (जीडी) प्रदीपन चायडो वालापिल (सं. 8032236ए अब जेसी-829397एफ), 01 जनवरी 2008

हवलदार (जीडी) रनजीत सिंह (सं. 8029930एफ अब जेसी-829398के), 01 जनवरी 2008

हवलदार (जीडी) प्रदीप कुमार (सं. 8029979एक्स अब जेसी-829399एम), 01 जनवरी 2008

\$ वरिष्ठता 01 फरवरी 2006 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना

@ वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना

वरिष्ठता 01 नवम्बर 2007 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना

* वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना

गोपखाना रेजिमेंट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार गुलझार सिंह (सं. 14475968डब्ल्यू अब जेसी-271223एल), 27 सितम्बर 2007/01 अक्टूबर 2006 *

हवलदार बीककार सिंह (सं. 14368856वाई अब जेसी-271224एन), 08 अगस्त 2007/01 जून 2007 *

हवलदार जोगिन्दर सिंह (सं. 15100595के अब जेसी-271225डब्ल्यू), 23 दिसम्बर 2007/01 अगस्त 2007 *

हवलदार दिलदार सिंह (सं. 14375519एम अब जेसी-271226वाई), 01 सितम्बर 2007/02 अगस्त 2007 *

हवलदार उत्तम सिंह (सं. 14378545वाई अब जेसी-271227एफ), 19 दिसम्बर 2007/01 अक्टूबर 2007 *

हवलदार होसियार सिंह (सं. 14369774एच अब जेसी-271228के), 31 दिसम्बर 2007/03 नवम्बर 2007 *

बीएचएम बलदेव सिंह (सं. 14378290के अब जेसी-271229एम), 17 दिसम्बर 2007/11 नवम्बर 2007 *

हवलदार अमर बहादुर सिंह (सं. 15113436एल अब जेसी-271230एफ), 02 जनवरी 2008/12 नवम्बर 2007 *

हवलदार ब्रजाकिशोर मोहनती (सं. 15102461के अब जेसी-271231के), 29 दिसम्बर 2007/21 नवम्बर 2007 *

हवलदार दिगार सिंह (सं. 14391342एन अब जेसी-271232एम), 05 जनवरी 2008/21 नवम्बर 2007 *

हवलदार स्वरूप सिंह (सं. 14397991पी अब जेसी-271233पी), 31 दिसम्बर 2007/26 नवम्बर 2007 *

हवलदार राजेश कुमार शुक्ला (सं. 14490621एफ अब जेसी-271234एक्स), 01 जनवरी 2008/01 दिसम्बर 2007 *

बीएचएम रोहतास (सं. 14381805के अब जेसी-271235ए), 17 जनवरी 2008/06 दिसम्बर 2007 *

हवलदार कन्हैया नाथ उपाध्याय (सं. 14496495डब्ल्यू अब जेसी-271236एच), 31 दिसम्बर 2007/06 दिसम्बर 2007 *

हवलदार अनिल कुमार गौर (सं. 14492576वाई अब जेसी-271237एल), 01 जनवरी 2008

हवलदार राधे श्याम मौर्या (सं. 15105923डब्ल्यू अब जेसी-271238एन), 01 जनवरी 2008

हवलदार सुरिन्द कुमार (सं. 14479406डब्ल्यू अब जेसी-271239डब्ल्यू), 05 जुलाई 2007/21 जून 2007 *

हवलदार राज किशोर शर्मा (सं. 14489353डब्ल्यू अब जेसी-271240एल), 28 अक्टूबर 2007/01 अगस्त 2007 *

हवलदार सीलास तोपो (सं. 14374281एल अब जेसी-271241एन), 19 सितम्बर 2007/01 अगस्त 2007 *

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 14380278एफ अब जेसी-271242डब्ल्यू), 01 अगस्त 2007

हवलदार हंसराज यादव (सं. 14488246एच अब जेसी-271243वाई), 17 सितम्बर 2007/23 अगस्त 2007 *

हवलदार कृष्ण प्रसाद (सं. 15107418एम अब जेसी-271244एफ), 25 जनवरी 2008/01 नवम्बर 2007 *

हवलदार जर्नेल सिंह (सं. 14402349ए अब जेसी-271245के), 02 फरवरी 2008/08 नवम्बर 2007 *

हवलदार सुरजीव कुमार (सं. 14492137एन अब जेसी-271246एम), 19 दिसम्बर 2007/17 नवम्बर 2007 *

हवलदार योगेन्द्र सिंह (सं. 14487371ए अब जेसी-271247पी), 10 जनवरी 2008/29 नवम्बर 2007 *

हवलदार विजय बहादुर यादव (सं. 14389073एन अब जेसी-271248एक्स), 10 जनवरी 2008/29 नवम्बर 2007 *

बीएचएम नागेश्वर प्रकाश (सं. 14489490पी अब जेसी-271249ए), 09 जनवरी 2008/01 दिसम्बर 2007 *

हवलदार सत्य प्रसाद मुदोय (सं. 14493893एम अब जेसी-271250पी), 18 जनवरी 2008/01 दिसम्बर 2007 *

हवलदार सिन्हा राम यादव (सं. 14487500पी अब जेसी-271251एक्स), 26 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007 *

हवलदार शशीर कुमार नायक (सं. 15122514वाई अब जेसी-271252ए), 18 जनवरी 2008/01 दिसम्बर 2007 *

बीएचएम शीश राम कटेवा (सं. 15104053एक्स अब जेसी-271253एच), 16 जनवरी 2008/15 दिसम्बर 2007 *

हवलदार रोशन लाल (सं. 15100045एफ अब जेसी-271254एल), 11 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008 *

हवलदार सुरेन्द्र पाल सिंह (सं. 15100478वाई अब जेसी-271045एन), 15 अक्टूबर 2007/11 अप्रैल 2007 *

हवलदार रमेश एस (सं. 15103617एच अब जेसी-271046डब्ल्यू), 21 सितम्बर 2007/01 जुलाई 2007 *

हवलदार पी एस विनायक नायडू (सं. 14491724एम अब जेसी-271047वाई), 03 सितम्बर 2007/25 जुलाई 2007 *

हवलदार राजिन्दर सिंह (सं. 14408592एन अब जेसी-271048एफ), 19 अक्टूबर 2007/01 अगस्त 2007 *

हवलदार पाटील बलवन्त शंकर (सं. 14411589वाई अब जेसी-271049के), 22 अक्टूबर 2007/20 अगस्त 2007 *

हवलदार सुम सिंह (सं. 14479441वाई अब जेसी-271050वाई), 01 नवम्बर 2007/27 अगस्त 2007 *

हवलदार प्रह्लाद पाठक (सं. 14480208एक्स अब जेसी-271051एफ), 27 अक्टूबर 2007/30 अगस्त 2007 *

हवलदार भंवर सिंह (सं. 14382070एक्स अब जेसी-271052के), 17 नवम्बर 2007/31 अगस्त 2007 *

हवलदार पुरुषोत्तम राम (सं. 14493533डब्ल्यू अब जेसी-271053एम), 13 अक्टूबर 2007/31 अगस्त 2007 *

हवलदार एस कानन (सं. 14482630एन अब जेसी-271054पी), 01 नवम्बर 2007/31 अगस्त 2007 *

हवलदार रमेश मिश्रा (सं. 15112053एम अब जेसी-271055एक्स), 19 अक्टूबर 2007/01 सितम्बर 2007 *

हवलदार पवीत्रम मानोली (सं. 14392909एल अब जेसी-271056ए), 10 अक्टूबर 2007/01 सितम्बर 2007 *

हवलदार प्रेमन टी पो (सं. 14482915ए अब जेसी-271057एच), 17 अक्टूबर 2007/02 सितम्बर 2007 *

हवलदार नन्द किशोर (सं. 15102975एफ अब जेसी-271058एल), 30 अक्टूबर 2007/17 सितम्बर 2007 *

हवलदार कर्ण सिंह यादव (सं. 14489049एम अब जेसी-271059एन), 26 नवम्बर 2007/03 नवम्बर 2007 *

हवलदार पञ्चराम नाथवावा (सं. 14496144एफ अब जेसी-271060एन), 07 नवम्बर 2007/06 नवम्बर 2007 *

हवलदार सारानाम श्रीनिवास राव (सं. 15124704के अब जेसी-271061एल), 28 मई 2007/01 मार्च 2007 *

हवलदार एम वीरा प्रतापा रेड्डी (सं. 14485059वाई अब जेसी-271062एन), 04 दिसम्बर 2007/01 अगस्त 2007 *

हवलदार प्रेम कुमार ए (सं. 14494208एच अब जेसी-271063डब्ल्यू), 18 अक्टूबर 2007/01 अगस्त 2007 *

हवलदार राघवेन्द्रा सिंह यादव (सं. 14476211ए अब जेसी-271064वाई), 30 सितम्बर 2007/01 अगस्त 2007 *

हवलदार बिहारी सिंह (सं. 14482336एन अब जेसी-271065एफ), 01 सितम्बर 2007/01 अगस्त 2007 *

हवलदार तारा सिंह (सं. 14488183एल अब जेसी-271066के), 05 सितम्बर 2007/01 अगस्त 2007 *

हवलदार सेनशील कुमार टी (सं. 14400223एफ अब जेसी-271067एम), 13 अक्टूबर 2007/27 अगस्त 2007 *

हवलदार विनोद कुमार शर्मा (सं. 14494739ए अब जेसी-271068पी), 01 सितम्बर 2007

हवलदार राम किशन (सं. 14484391एच अब जेसी-271069एक्स), 01 अक्टूबर 2007/03 सितम्बर 2007 *

हवलदार नरेश कुमार (सं. 14367628के अब जेसी-271070एम), 23 अक्टूबर 2007/20 सितम्बर 2007 *

हवलदार सरजीत सिंह (सं. 15103706एफ अब जेसी-271071पी), 13 नवम्बर 2007/24 सितम्बर 2007 *

हवलदार भूपीन्दर सिंह (सं. 14404174एफ अब जेसी-271072एक्स), 27 नवम्बर 2007/01 अक्टूबर 2007 *

हवलदार भाग्य राम बिशीनोई (सं. 14384007एफ अब जेसी-271073ए), 29 अक्टूबर 2007/01 अक्टूबर 2007 *

हवलदार मयबम कान्ते सिंह (सं. 14396032एम अब जेसी-271074एच), 27 नवम्बर 2007/16 अक्टूबर 2007 *

हवलदार राव सहैव रणदीवे (सं. 14383547एन अब जेसी-271075एल), 19 अक्टूबर 2007/17 अक्टूबर 2007 *

हवलदार प्रधान सपता सिन्धु (सं. 14488136एन अब जेसी-271076एन), 16 नवम्बर 2007/01 नवम्बर 2007 *

हवलदार युद्धवीर सिंह बिस्ट (सं. 14370925एच अब जेसी-271146एफ), 21 अगस्त 2007/05 जून 2007 *

हवलदार के रमेश रेड्डी (सं. 14400887पी अब जेसी-271147के), 08 अगस्त 2007/21 जून 2007 *

हवलदार गिरीश चन्द (सं. 14486060ए अब जेसी-271148एम), 09 दिसम्बर 2007/01 अगस्त 2007 *

हवलदार अर्जुन विजय (सं. 14492995डब्ल्यू अब जेसी-271149पी), 17 अक्टूबर 2007/12 अगस्त 2007 *

हवलदार भगवान सिंह (सं. 14493840एन अब जेसी-271150के),
17 अक्टूबर 2007/12 अगस्त 2007*

हवलदार मनी चन्द्र झा (सं. 14492069एल अब जेसी-271151एम),
26 अक्टूबर 2007/20 अगस्त 2007*

हवलदार तेजनाथ ठाकुर (सं. 15109523एफ अब जेसी-271152एफ),
24 दिसम्बर 2007/20 अगस्त 2007*

हवलदार परमार कन्हाई बालूभाई (सं. 14381324एक्स अब जेसी-271153एक्स), 22 दिसम्बर 2007/27 अगस्त 2007*

हवलदार करनश कुमार सिंह (सं. 14383142एच अब जेसी-271154ए),
14 दिसम्बर 2007/31 अगस्त 2007*

हवलदार बाबू लाल बीना (सं. 14384497ए अब जेसी-271155एच),
13 नवम्बर 2007/31 अगस्त 2007*

हवलदार चन्द्र प्रकाश (सं. 14396865डब्ल्यू अब जेसी-271156एल),
24 दिसम्बर 2007/01 सितम्बर 2007*

हवलदार देव राज (सं. 14495199वाई अब जेसी-271157एन),
17 अक्टूबर 2007/01 सितम्बर 2007*

हवलदार सुखदेव सिंह (सं. 14387710ए अब जेसी-271158डब्ल्यू),
01 अक्टूबर 2007/07 सितम्बर 2007*

हवलदार राजेन्द्र सिंह यादव (सं. 14369399एच अब जेसी-271159वाई), 30 जनवरी 2008/09 सितम्बर 2007*

आरएचएम बिपुल चन्द्र नाथ (सं. 14478671ए अब जेसी-271160एन),
06 नवम्बर 2007/06 अक्टूबर 2007*

हवलदार नीला कान्त गोहेन (सं. 14496153एच अब जेसी-271161डब्ल्यू), 21 नवम्बर 2007/01 नवम्बर 2007*

बीएचएम गोपाकुमारन बी (सं. 14497253ए अब जेसी-271162वाई),
05 नवम्बर 2007/10 जुलाई 2007*

हवलदार सुनील कुमार सिंह (सं. 14396845एच अब जेसी-271163एफ), 10 नवम्बर 2007/01 अगस्त 2007*

हवलदार राजवीर (सं. 14398838एल अब जेसी-271164के),
17 दिसम्बर 2007/01 अगस्त 2007*

हवलदार के सुन्दर भर्ति (सं. 14392448एम अब जेसी-271165एम),
18 अगस्त 2007/01 अगस्त 2007*

हवलदार भट्टागीरी बी रामी रेड्डी (सं. 15109709एल अब जेसी-271166पी), 18 अक्टूबर 2007/15 अगस्त 2007*

आरएचएम नीका राम (सं. 14372093एल अब जेसी-271167एक्स),
23 नवम्बर 2007/22 सितम्बर 2007*

हवलदार वेद पाल (सं. 14498374एन अब जेसी-271168ए),
15 अक्टूबर 2007/01 अक्टूबर 2007*

हवलदार शिंगरा सिंह (सं. 14387390डब्ल्यू अब जेसी-271169एच),
12 दिसम्बर 2007/30 अक्टूबर 2007*

आरएचएम शशी भूषण कुमार (सं. 14368885एन अब जेसी-271170एक्स), 15 दिसम्बर 2007/01 नवम्बर 2007*

हवलदार आरोग्य नाथन (सं. 14497098के अब जेसी-271171ए),
20 नवम्बर 2007/01 नवम्बर 2007*

हवलदार जयनैल सिंह (सं. 15101897एच अब जेसी-271172एच),
24 नवम्बर 2007/01 नवम्बर 2007*

हवलदार सुखचिन्दर सिंह (सं. 14493344एम अब जेसी-271173एल),
19 दिसम्बर 2007/17 नवम्बर 2007*

आरएचएम अमीया कुमार पटवारी (सं. 14389984के अब जेसी-271174एन), 30 दिसम्बर 2007/25 नवम्बर 2007*

आरएचएम कुंवर प्रताप सिंह राठी (सं. 14375573ए अब जेसी-271175डब्ल्यू), 02 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007*

हवलदार जीवन सिंह राना (सं. 14378844एक्स अब जेसी-271176वाई), 01 जनवरी 2008/01 दिसम्बर 2007*

आरएचएम किशोरी लाल (सं. 14486302एक्स अब जेसी-271177एफ), 17 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007*

हवलदार महात्मा सिंह (सं. 14459351डब्ल्यू अब जेसी-271104पी),
01 फरवरी 2004

हवलदार दुधाडे सुभाष नाना (सं. 14498833एफ अब जेसी-271105एक्स), 16 जुलाई 2007/01 मई 2007*

हवलदार जनार्दन प्रसाद (सं. 14488690वाई अब जेसी-271106ए),
06 अगस्त 2007/01 जून 2007*

हवलदार संजीव कुमार जैन (सं. 14384149वाई अब जेसी-271107एच), 08 सितम्बर 2007/06 जून 2007*

आरएचएम राज कुमार शर्मा (सं. 15103700ए अब जेसी-271108एल), 29 जुलाई 2007/14 जून 2007*

हवलदार के सोन्दरराजा (सं. 14390415एच अब जेसी-271109एन),
03 सितम्बर 2007/01 अगस्त 2007*

हवलदार रमधीर सिंह (सं. 15111345एच अब जेसी-271110एच),
01 अक्टूबर 2007/02 अगस्त 2007*

हवलदार शेख इब्राहीम (सं. 14494136के अब जेसी-271111एल),
11 अक्टूबर 2007/22 अगस्त 2007*

हवलदार उदयवीर सिंह (सं. 15113935ए अब जेसी-271112एन),
29 अक्टूबर 2007/27 अगस्त 2007*

हवलदार रघुनाथ सिंह (सं. 15115327एक्स अब जेसी-271113डब्ल्यू),
29 अक्टूबर 2007/27 अगस्त 2007*

हवलदार कैवल कृष्ण (सं. 14481802एल अब जेसी-271114वाई),
01 सितम्बर 2007

हवलदार कोडाग हनुमन्त महादेव (सं. 15104159के अब जेसी-271115एफ), 12 जनवरी 2008/01 सितम्बर 2007*

हवलदार विष्णु दत्तु बडे (सं. 14396452एम अब जेसी- 271116के),
12 जनवरी 2008/01 सितम्बर 2007 *

हवलदार अरोबाट सिंह (सं. 14393832ए अब जेसी- 271117एम),
03 सितम्बर 2007

हवलदार जसवन्त सिंह (सं. 15116772एच अब जेसी- 271118पी),
01 नवम्बर 2007

हवलदार वैकाप्पा अली (सं. 14399196एन अब जेसी- 271119एक्स),
18 दिसम्बर 2007/06 नवम्बर 2007 *

हवलदार संजीव कुमार डी (सं. 14496862एक्स अब जेसी-
271120एम), 05 नवम्बर 2007/01 जून 2007 *

हवलदार करनैल सिंह (सं. 15111304वाई अब जेसी- 271121पी),
31 अगस्त 2007/01 जून 2007 *

हवलदार पुरन चन्द (सं. 14395721एफ अब जेसी- 271122एक्स),
31 अक्टूबर 2007/01 अगस्त 2007 *

हवलदार राम पाल ब्रजापथी (सं. 14367591एन अब जेसी-
271123ए), 07 सितम्बर 2007/17 अगस्त 2007 *

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 14487056के अब जेसी- 271124एच),
24 सितम्बर 2007/22 अगस्त 2007 *

हवलदार सुखविन्दर सिंह (सं. 15111238एफ अब जेसी- 271125एल),
03 दिसम्बर 2007/01 सितम्बर 2007 *

हवलदार जोगिन्दर पाल (सं. 14371256एफ अब जेसी- 271126एन),
18 अक्टूबर 2007/23 सितम्बर 2007 *

आरएचएम राज सिंह (सं. 14486027एच अब जेसी- 271127डब्ल्यू),
03 नवम्बर 2007/01 अक्टूबर 2007 *

हवलदार शंकर मस्तीहोली (सं. 14377627पी अब जेसी- 271128वाई),
03 नवम्बर 2007/01 अक्टूबर 2007 *

हवलदार निरीपेन कुमार घोष (सं. 14373982पी अब जेसी-
271129पी), 09 नवम्बर 2007/01 नवम्बर 2007 *

बीएचएम राम प्रताप (सं. 14486042एक्स अब जेसी- 271130डब्ल्यू),
17 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007 *

हवलदार हनुमंत सनसीध्दा (सं. 14378643वाई अब जेसी-
271131वाई), 26 दिसम्बर 2007/11 दिसम्बर 2007 *

हवलदार शिव प्रताप यादव (सं. 14486391एफ अब जेसी-
271132एफ), 05 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008 *

हवलदार लालो यादव (सं. 14407571एल अब जेसी- 271133के),
01 जनवरी 2008

हवलदार गुरबचन सिंह (सं. 14488343ए अब जेसी- 271134एफ),
01 जनवरी 2008

हवलदार सतवन्त सिंह (सं. 14497914पी अब जेसी- 271135पी),
01 जनवरी 2008

(*ज्येष्ठता प्राप्त)

सबस्टैंटिव सूबेदार (जीडी) के पद में

नायब सूबेदार बब्वन सिंह (जेसी- 266463वाई), 25 जनवरी 2008/
01 जनवरी 2008 *

नायब सूबेदार सोमन के (जेसी- 267231एम), 14 जनवरी 2008/
01 जनवरी 2008 *

नायब सूबेदार दलजीत सिंह (जेसी- 267380ए), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार अनुप सिंह यादव (जेसी- 267226एफ), 01 जनवरी
2008

नायब सूबेदार सत्यनाथ भुमीज (जेसी- 267408पी), 14 जनवरी
2008/01 जनवरी 2008 *

नायब सूबेदार धनेश कुमार त्यागी (जेसी- 267514एन), 01 जनवरी
2008

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी- 267680एफ), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार राम निवास सिंह (जेसी- 268527एक्स), 02 जनवरी
2008/01 जनवरी 2008 *

नायब सूबेदार राम प्रसाद मिश्रा (जेसी- 268156ए), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार मुल चन्द (जेसी- 268109एच), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार कुलबीर सिंह (जेसी- 268142ए), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार सुरेश चन्द्र (जेसी- 268274एन), 07 जनवरी 2008/
01 जनवरी 2008 *

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी- 268127एल), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार गुरुदेव सिंह (जेसी- 268410वाई), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार फुल चन्द्र वर्मा (जेसी- 268336एच), 02 जनवरी
2008/01 जनवरी 2008 *

नायब सूबेदार अखिलेश बाबू (जेसी- 268411एफ), 21 फरवरी
2008/01 जनवरी 2008 *

नायब सूबेदार बोध राज एस एम (जेसी- 268580एच), 01 जनवरी
2008

नायब सूबेदार विरेन्द्र सिंह यादव (जेसी- 268694एन), 01 जनवरी
2008

नायब सूबेदार सुर्यकान्त मिश्रा (जेसी- 269042एफ), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार केन्द्र सिंह (जेसी- 267572एक्स), 28 फरवरी 2008/
01 फरवरी 2008 *

नायब सूबेदार पारस राम (जेसी- 267091एल), 06 फरवरी 2008/
01 फरवरी 2008 *

नायब सूबेदार मुन्सी लाल (जेसी- 267475ए), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार कुरुवेर नागामुनी (जेसी- 268325डब्ल्यू), 23 फरवरी
2008/01 फरवरी 2008 *

नायब सूबेदार विवेन्द्र सिंह (जेसी-268602डब्ल्यू), 01 फरवरी 2008
 नायब सूबेदार विवेन्द्र सिंह (जेसी-268813वाई), 13 फरवरी 2008/
 01 फरवरी 2008*
 नायब सूबेदार हेमन्त कुमार (जेसी-268631एल), 01 फरवरी 2008
 नायब सूबेदार शोध नाथ (जेसी-266376एल), 25 फरवरी 2008/
 01 अगस्त 2007*

(*ज्येष्ठता प्राप्त)

पी रामा शास्त्री
 अवसर सचिव

 (वायु शाखा)

सं. 306, दिनांक 12 जून 2008--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसर को उसके नाम के सामने दी गई तारीख से उड़ान (पायलट) से प्रशासनिक शाखा में स्थानान्तरित करते हैं। इस शाखा में उसकी समायोजित करिष्ठता उसी प्रकार भानी जाएगी मानो उसे मूल कमीशन ही प्रशासनिक शाखा में प्राप्त हुआ है। अफसर 21 नवम्बर 07 से उड़ान के अयोग्य होने की वजह से उसी दिन से उड़ान भत्ते का हकदार नहीं होगा। अफसर को वायुसेना सूची में स्क्वाड्रन लीडर डी. के. गौर (26382) प्रशासनिक व स्क्वाड्रन लीडर डी. पुरी (26572) प्रशासनिक के मध्य रखा जाएगा।

वा. से. मु./21901/26330/पी. ओ.-3 ई दिनांक 01 फरवरी 2008

स्क्वाड्रन लीडर दीपक हुड्डा (26330) उड़ान पायलट से प्रशासनिक शाखा में दिनांक 21 नवम्बर 2007

पी सिंह
 विंग कमाण्डर
 जे.डो.पी.ओ.-3 ई

 आर्मी शाखा

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

स्थायी कमीशन

सं. 307, दिनांक 12 जून 2008--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एम एन एस अधिकारियों को अधिवर्ष आयु प्राप्त होने पर सेवा निवृत्ति होने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

पद और नाम, व्यक्तिगत संख्या तथा सेवा निवृत्ति की तारीख

ले. कर्नल टी स्टेनली (एनआर-15038एफ), 31 मार्च 2007
 ले. कर्नल एम स्टीफन जॉरा (एनआर-16288पी), 31 मई 2007
 ले. कर्नल एम के पद्मिनी (एनआर-15027पी), 31 मई 2007
 ले. कर्नल प्रकाश कौर (एनआर-15990एन), 31 मई 2007
 ले. कर्नल भाग्यलक्ष्मी (एनआर-16891एक्स), 30 जून 2007
 ले. कर्नल बाई लाम्हु (एनआर-15953ए), 30 जून 2007

ले. कर्नल शान्ता रॉय (एनआर-16250एल), 31 अगस्त 2007
 ले. कर्नल सी एल प्रधान (एनआर-16249डब्ल्यू), 30 सितम्बर 2007
 ले. कर्नल मुक्तेश भाजवा (एनआर-16436पी), 30 नवम्बर 2007
 ले. कर्नल सुजाता दास (एनआर-15467एच), 31 जनवरी 2006
 ले. कर्नल बी बालामणिय्या (एनआर-15005डब्ल्यू), 31 मार्च 2006
 ले. कर्नल एम आर सूद (एनआर-15554डब्ल्यू), 31 मार्च 2006
 ले. कर्नल एम सुगुना (एनआर-15897एम), 31 मार्च 2006
 ले. कर्नल शमशेर कौर (एनआर-15946के), 31 मई 2006
 ले. कर्नल सी इन्दिरा (एनआर-15199के), 30 जून 2006
 ले. कर्नल पुष्पा भंडारी (एनआर-16095पी), 30 सितम्बर 2006
 ले. कर्नल सी पी भवानी (एनआर-15338एच), 31 दिसम्बर 2006
 ले. कर्नल टी जी चन्द्रिका (एनआर-16681एक्स), 31 मार्च 2007
 ले. कर्नल एम आर सिंगला (एनआर-15788ए), 30 सितम्बर 2007
 ले. कर्नल लीलाम्बा वर्गीस (एनआर-16620ए), 30 सितम्बर 2007
 ले. कर्नल टी एच स्क्रुविलस (एनआर-16654एन), 30 सितम्बर 2007
 ले. कर्नल अनवरी बेगम (एनआर-16142एफ), 31 मार्च 2006
 ले. कर्नल एलिस थॉमस (एनआर-16440एक्स), 30 जून 2006
 ले. कर्नल सुषमा कौल (एनआर-16653एल), 31 जुलाई 2006
 ले. कर्नल के पी ललिताबाई (एनआर-15596एच), 31 अगस्त 2006
 ले. कर्नल एस के रावत (एनआर-16294एच), 31 अगस्त 2006
 ले. कर्नल एस थॉमस (एनआर-15764डब्ल्यू), 30 सितम्बर 2006
 ले. कर्नल चरनजीत कौर नागरथ (एनआर-16884एफ), 30 सितम्बर 2006

ले. कर्नल जलजामणि (एनआर-16679ए), 31 दिसम्बर 2006
 ले. कर्नल के सुमतिकुट्टी (एनआर-16310पी), 31 दिसम्बर 2006
 ले. कर्नल पी यू मेरी (एनआर-16032एम), 31 दिसम्बर 2006

टी पद्मिनी

मेजर जनरल

अतिरिक्त महानिदेशक एम एन एस

 एकीकृत मुख्यालय-रक्षा मंत्रालय (नौसेना)

प्रशासन निदेशालय (सिब)

सं. 308, दिनांक 12 जून 2008--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर नौसेना मुख्यालय के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के आगे दी गई

तारोख से सेवानिवृत्त हुए और उन्हें पेंशन स्थापना में स्थानांतरित कर दिया गया :--

नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि	पेंशन स्थापना में स्थानांतरण की तिथि
श्री चन्द प्रकाश, अनु. अधि.	30.06.2007	01.07.2007
श्री आर एन पी गुप्ता, अनु. अधि.	30.06.2007	01.07.2007
श्री के डी शर्मा, संयुक्त निदेशक	31.08.2007	01.09.2007
श्रीमती ऊषा वर्मा, अनु. अधि.	31.10.2007	01.11.2007
श्री वाई पी अरोड़ा, व. प्र. नि. सचिव	31.12.2007	01.01.2008
श्री ए के धीर, अनु. अधि.	31.03.2008	01.04.2008
श्री मान सिंह, अनु. अधि.	31.03.2008	01.04.2008
कृ. उज्ज्वल कौर, अनु. अधि.	31.03.2008	01.04.2008
श्री विजय सागर, अनु. अधि.	31.03.2008	--
श्री ईश्वर दत्त, पी एस	24.02.2008 (मृत्यु)	--

शंकर सिंह

उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (ए)

(सेना शाखा)

सं. 309, दिनांक 12 जून 2008--राष्ट्रपति जो निम्नलिखित को सहर्ष नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

शुद्धिपत्र

दिनांक 10 मार्च 2007 को प्रकाशित भारत सरकार के राजपत्र के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना के शीर्षक नियमित सेवा के अन्तर्गत उपशीर्षक स्थायी आयोग के अन्तर्गत प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है :--

के लिए :

टी/6261 संजीव कौशल आईसी-6788एन सिग्नल्स

पढ़ें :

टी/6261 संजीव कौशल आईसी-6788एन सिग्नल्स

के लिए :

टी/6254 अमोल विभुति कुजुर आईसी-67858एक्स आईसी

पढ़ें :

टी/6254 अमोल विभुति कुजुर आईसी-67858एक्स आईसी

अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन)

(शुद्धिपत्र)

दिनांक 10 मार्च 2007 को प्रकाशित भारत सरकार के राजपत्र के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना के शीर्षक नियमित सेवा के अन्तर्गत उपशीर्षक अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) के अन्तर्गत प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है :--

के लिए :

टी/6303 गजेन्द्रा एस डबास एसएस-41768के सिग्नल्स 19 जनवरी 2005

पढ़ें :

टी/6303 गजेन्द्र एस डबास एसएस-41768के सिग्नल्स 19 जनवरी 2005

के लिए :

टी/6310 नवदीप मितल एसएस-51775ए सिग्नल्स 01 फरवरी 2005

पढ़ें :

टी/6310 नवदीप मितल एसएस-41775ए सिग्नल्स 01 फरवरी 2005

के लिए :

टी/6313 अभिषेक नेगी 41778एन सिग्नल्स 03 फरवरी 2005

पढ़ें :

टी/6313 अभिषेक नेगी एसएस-41778एन सिग्नल्स 03 फरवरी 2005

के लिए :

टी/6255 के विवरणों को पंक्ति में '(टी/6256)' छप गया है;

पढ़ें :

'(टी/6256)' को टी/6255 के विवरणों की पंक्ति से काट दें।

चंद्र शेखर

ले. कर्नल

एमएम-8बी

MINISTRY OF DEFENCE

D(MS)/SECTION

New Delhi, the 21st June 2008

No. 293, the 9th June, 2008.—The President has made the following appointments on her Honorary Personal Staff :—

Honorary Army ADC (Armed Corps) w.e.f. 09-03-2008

(IC-24656) Lt Gen P Khanna, VSM

Honorary Army ADC (Inf) w.e.f. 01-03-2008

(IC-19077) Lt Gen ML Naidu, PVSM, AVSM, YSM

Honorary Army ADC (Arty/AAD) w.e.f. 01-03-2008

(IC-28805) Lt Gen KS Dogra, AVSM**, VSM (AAD)

BALRAM VERMA

Under Secy.

No. 294, the 9th June 2008.—The President is pleased to appoint Shri F. K. Pande, CSS, Under Secretary, Ministry of Defence to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS, in the same Ministry, purely on ad-hoc basis w.e.f. 1-4-2008 (FN) until further orders in terms of DOP&T Order No. 4/4/2008-CS.I(D) dated the 25th March, 2008.

2. The appointment of the above officer as Deputy Secretary (ad-hoc) in the Ministry of Defence, is subject to the following conditions :—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS.
- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

The President is pleased to appoint Smt. Pushpa V Nandanwar borne on CSS cadre of Ministry of Defence as Section Officer on ad-hoc basis in the same Ministry in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 24-4-2008(FN) for a period up to 30-6-2008 or until further orders, whichever is earlier.

2. The above appointment will be subject to the following conditions :—

- (i) The ad-hoc appointment shall not confer on her any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers grade of CSS.
- (ii) She will be reverted to the Assistant's Grade on availability of regular Section Officer through normal channels of recruitment as prescribed in the CSS Rules.

K. MURALI

Under Secy.

No. 295, the 9th June 2008.—The President is pleased to appoint Shri Sudhir Chandra Jana, AFA in the Ministry of Defence (Finance Division) with effect from 09-04-2008(FN) until further orders.

RAMESH KUMAR

Dir(E)

ARMY BRANCH

No. 296, the 9th June 2008.—The President is pleased to extend the appointment of the following officiating Section Officers under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules, 2001 with effect from 24 Feb 2008 to 23 Aug 2008 or till regular incumbents become available whichever is earlier :—

Name & Date of birth

Shri Sita Kant Mishra, 25 Jan 1962

Shri SK Jain, 11 Dec 1963

Shri PJ Ross, 19 Jun 1967

Smt. Anita Kumari, 01 Jan 1967

Shri Alok Garg, 12 Jun 1963

Shri M Sham Raj, 25 Sep 1949

Shri Gulshan Raj, 30 Oct 1968

Shri AKL Das, 26 Jan 1966

Shri Desh Raj, 05 Oct 1955

Shri Dipak Kumar Das, 01 Aug 1966

Shri SK Melkani, 20 May 1967

Shri Devi Dayal, 14 May 1953

Shri Raminder Singh, 29 May 1969

Shri Rajni Mohan Gupta, 10 Jan 1949

Shri RK Talwar, 25 Dec 1951

Shri KN Chaturvedi, 07 Mar 1950

Shri Pankaj Bharati, 09 Jul 1971

Shri Vinay Kumar, 25 Aug 1973

Shri Kunwar Pratap Singh, 09 Sep 1971

2. The appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

3. There will be no claim for regular promotion/ appointment on the basis of promotion granted under Rule 7(8) of AFHQ CSR 2001. The seniority in this Grade will be count towards his regular appointment i.e. Assistant.

DIRECTORATE GENERAL OF DEFENCE ESTATES

The President is pleased to extend the appointment of the following, officiating Section Officer under Rule 7(8) of

AFHQ Civil Services Rules, 2001 for the period mentioned against his name or till regular incumbent becomes available whichever is earlier :

Name, Date of Birth—Period

Shri G Thang Khen Mang, 26 Jan 1971—24 Feb 07 to 23 Aug 07—24 Aug 07 to 23 Feb 08—24 Feb 08 to 23 Aug 2008.

2. The appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbent.

3. There will be no claim for regular promotion/appointment on the basis of promotion granted under Rule 7(8) of AGHQ CSR 2001 and the period of such appointment shall not count towards his seniority in the grade of Section Officer.

DIRECTORATE GENERAL OF NATIONAL CADET CORPS

The President is pleased to extend the appointment of the following officiating Section Officers under Rule 7(8) of AFHQ Civil Services Rules, 2001 for the period mentioned against their respective names or till regular incumbents become available whichever is earlier :—

Name, Date of Birth—Period

Smt. Usha Kumari, 05 Jan 1949—24 Feb 07 to 23 Aug 07—24 Aug 07 to 23 Feb 08—24 Feb 08 to 23 Aug 08.

Shri Sujay Kumar, 04 May 1966—24 Feb 07 to 23 Aug 07—24 Aug 07 to 23 Feb 08—24 Feb 08 to 23 Aug 08.

Shri Roop Ram, 06 Feb 1951—24 Feb 07 to 23 Aug 07—24 Aug 07 to 23 Feb 08—24 Feb 08 to 23 Aug 08.

Smt. Radhika Venkatramanan, 30 Apr 1967—24 Feb 07 to 23 Aug 07—24 Aug 07 to 23 Feb 08—24 Feb 08 to 23 Aug 08.

Smt. Sheela Devi, 01 Apr 1956—24 Feb 07 to 23 Aug 07—24 Aug 07 to 23 Feb 08—24 Feb 08 to 23 Aug 08.

Shri Vijender Singh, 02 Dec 1955—24 Feb 07 to 23 Aug 07—24 Aug 07 to 23 Feb 08—24 Feb 08 to 23 Aug 08.

Shri Ram Singh, 10 May 1953—24 Feb 08 to 23 Aug 08.

Smt. Rita Minz, 11 Apr 1968—24 Feb 08 to 23 Aug 08.

Shri Devinder Pal Singh, 29 Dec 1949—24 Feb 08 to 23 Aug 08.

2. The appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

3. There will be no claim for regular promotion/appointment on the basis of promotion granted under Rule 7(8) of AFHQ CSR 2001 and the period of such appointment shall not count towards his seniority in the grade of Section Officer.

DIRECTORATE GENERAL OF NATIONAL CADET CORPS

The President is pleased to appoint Shri Devinder Pal Singh, Assistant (Group 'B' Non-Gazetted) of AFHQ Civil Services as Section Officer (Group 'B' Gazetted) (Pay scale Rs. 6,500-200-10,500/-) under Rule 7(8) of Armed Forces Headquarter Civil Services Rules, 2001 with effect from 30 Nov 2008 to 23 Feb 2008 or till his retirement or till the availability of a regular incumbent, whichever is earlier.

2. The appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbent.

3. There will be no claim for regular promotion/appointment on the basis of promotion granted under Rule 7(8) of AFHQ CSR 2001 and the period of such appointment shall not count towards his seniority in the grade of Section Officer.

ARMED FORCES FILMS AND PHOTO DIVISION

The President is pleased to extend the appointment of the following, officiating Section Officer under Rule 7(8) of AFHQ Civil Services Rules, 2001 for the period mentioned against his name or till regular incumbent becomes available whichever is earlier :

Name, Date of Birth—Period

Shri Arjun Dev Bhambhani, 23 July 1949—24 Feb 07 to 23 Aug 07—24 Aug 07 to 23 Feb 08—24 Feb 08 to 23 Aug 2008.

2. The appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbent.

3. There will be no claim for regular promotion/appointment on the basis of promotion granted under Rule 7(8) of AFHQ CSR 2001 and the period of such appointment shall not count towards his seniority in the grade of Assistant.

SECURITY OFFICE

The President is pleased to extend the appointment of the following, officiating Section Officer under Rule 7(8) of AFHQ Civil Services Rules, 2001 for the period mentioned against his name or till regular incumbent becomes available whichever is earlier :

Name, Date of Birth—Period

Shri Praveen Kumar, 13 Jan 1966—24 Feb 07 to 23 Aug 07—24 Aug 07 to 23 Feb 08—24 Feb 08 to 23 Aug 2008.

2. The appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbent.

3. There will be no claim for regular promotion/ appointment on the basis of promotion granted under Rule 7(8) of AFHQ CSR 2001 and the period of such appointment shall not count towards his seniority in the grade of Assistant.

SHANKAR SINGH
Dy. Chief Administrative Officer

INTEGRATED HEADQUARTERS—MIN OF DEFENCE
(NAVY)

(Dte of Admin/Civ Section)

No. 297, the 10th June, 2008.—The President is pleased to appoint the following Assistants of AFHQ Civil Service as Section Officer (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- under Rule 7(8) of AFHQ Civil Services Rules 2001 for a period mentioned against their names, or till regular incumbents become available or till such time the officers retire, whichever is earlier :

Shri RD Kushwaha—03-04-2008 to 23-08-2008.

Shri BK Sharma—03-04-2008 to 23-08-2008.

Shri RK Verma—03-04-2008 to 23-08-2008.

Shri Balbir Kaur—03-04-2008 to 23-08-2008.

Shri AK Gupta—03-04-2008 to 23-08-2008.

Shri AK Chadha—07-04-2008 to 23-08-2008.

Shri Sanjay Kumar—03-04-2008 to 23-08-2008.

Shri SC Chopra—03-04-2008 to 23-08-2008.

Shri HS Negi—03-04-2008 to 23-08-2008.

Shri GD Sharma—04-04-2008 to 23-08-2008.

3. This appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

The President is pleased to appoint the following Personal Assistants of AFHQ Stenographers Service as Private Secretary (Group 'B' Gazetted in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/-) with effect from the dates mentioned against their names :

Smt. Nirmal—09-1-08.

Shri S Senthil Kumaran—26-2-08.

SHANKAR SINGH
Dy. Chief Administrative Officer (A)

No. 298, the 10th June, 2008.—Consequent on his promotion to the Stenographer Grade 'A&B' (Merged) (Private Secretary) of CSSS vide Department of Personnel & Training O.M. No. 5/11/2007-CS.II, dated 7th February, 2008, the President is pleased to appoint Shri Harish Chander,

Stenographer Grade 'C' borne on the cadre of Ministry of Defence, to the post of Stenographer Grade 'A&B' (Merged) of CSSS in the same Ministry on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the forenoon of 9.4.2008 till 30.6.2008 or till regular officer becomes available or until further orders, whichever is earlier subject to the following conditions :—

(i) The ad-hoc appointment shall not confer him any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (Merged) of CSSS.

(ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

K. MURALI
Under Secy.

SECURITY OFFICE

No. 299, the 10th June, 2008.—The President is pleased to promote the following Assistants (Group 'B' Non-Gazetted) of AFHQ Civil Services as Section Officer (Group 'B' Gazetted) under Rule 7(8) of Armed Forces Headquarters Civil Services Rules, 2001 in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 03 Apr 2008 to 23 Aug 2008 or till regular incumbents available whichever is earlier :—

Name, Date of Birth

Km. Vijay Sharma—13 Mar 1949

Shri Swami Nath—01 Aug 1968.

2. The appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

3. There will be no claim for regular promotion/ appointment on the basis of promotion granted under Rule 7(8) of AFHQ CSR 2001 and the period of such appointment shall not count towards his seniority in the grade of Section Officer.

DIRECTORATE GENERAL OF DEFENCE ESTATES

The President is pleased to promote the following Assistants (Group 'B' Non-Gazetted) of AFHQ Civil Services as Section Officers (Group 'B' Gazetted) under Rule 7(8) of Armed Forces Headquarters Civil Services Rules, 2001 in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 03 Apr 2008 to 23 Aug 2008 or till regular incumbents available which is earlier :—

Name, Date of Birth

Shri Hridyesh Mishra—05 Dec 1973

Shri Gajraj Singh—15 Feb 1955.

Shri Satya Pal—01 Apr 1950.

2. The appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

3. There will be no claim for regular promotion/appointment on the basis of promotion granted under Rule 7(8) of AFHQ CSR 2001 and the period of such appointment shall not count towards his seniority in the grade of Section Officer.

SHANKAR SINGH

Dy. Chief Administrative Officer (A)

REGULAR ARMY

(PERMANENT COMMISSION)

No. 300, the 10th June 2008.—The President is pleased to make the following promotion in respect of MNS officers with effect from the date(s) mentioned against their names :—

Lt Col (Select) to Col

Rank & Name, Pers Number & Date of Promotion

Col Promila Kapoor (NR-15773X), 17 Dec 2005

Col V Saraswathy (NR-15893W), 02 Jan 2007

Col Elsa Thomas (NR-15899X), 02 Apr 2007

Col Sunita Kapoor (NR-15948P), 31 Dec 2006

Col Sherly Stephan (NR-16039W), 01 Nov 2006

Lt Col (TS) to Lt Col (Select)

Lt Col PC Jalajamani (NR-16679A), 18 Dec 2004

Lt Col Nivedita Shome (NR-17002F), 14 Jun 2007

Maj to Lt Col (TS)

Lt Col A Varghese (NR-17725W), 27 Jan 2003

Lt Col KO Suja (NR-18672P), 22 Sep 2006

T PADMINI

Maj Gen

Addl DGMNS

ARMY BRANCH

No. 301, the 10th June 2008.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Cols to be substantive Col (By Time Seniority)

(IC-34439L) Lt Col SC Roy, Inf, 16 Dec 2004

(IC-34485A) Lt Col VK Sinha, Arty, 16 Dec 2004

(IC-34778L) Lt Col JS Mangal, Sigs, 16 Dec 2004

(IC-37834K) Lt Col SPS Toor, ASC, 12 Nov 2007

(IC-38849Y) Lt Col AS Bhatia, Mech Inf, 07 Jun 2006

(IC-39773W) Lt Col Govind Pal Singh, AAD, 13 Jun 2006

(IC-39873F) Lt Col Ravindra Sapre, AC, 19 Dec 2007

(IC-39884N) Lt Col TK Paul, AC, 19 Dec 2007

(IC-39891K) Lt Col RL Bijarnia, AAD, 19 Dec 2007

(IC-39903N) Lt Col MDS Mann, Inf, 19 Dec 2007

(IC-39913X) Lt Col C Anil Kumar Nair, Arty, 19 Dec 2007

(IC-39914A) Lt Col Pateh Singh Virk, Arty, 19 Dec 2007

(IC-39932H) Lt Col VK Mishra, AAD, 19 Dec 2007

(IC-39935W) Lt Col Sathir Singh, Inf, 19 Dec 2007

(IC-39941K) Lt Col R Trapasia, Inf, 19 Dec 2007

(IC-39947L) Lt Col Dharamjit Singh Nagil, Mech Inf, 19 Dec 2007

(IC-39951N) Lt Col Tej Singh, AOC, 19 Dec 2007

(IC-39957P) Lt Col PP Venugopalan, ASC, 19 Dec 2007

(IC-39963H) Lt Col KPV Ravi, Arty, 19 Dec 2007

(IC-39973M) Lt Col RCS Arya, Inf, 19 Dec 2007

(IC-39983W) Lt Col GS Manhas, Arty, 19 Dec 2007

(IC-39984) Lt Col Jagrup Singh, Arty, 19 Dec 2007

(IC-39991P) Lt Col RK Yadav, Arty, 19 Dec 2007

(IC-40002N) Lt Col VP Iyer, AAD, 19 Dec 2007

(IC-40029L) Lt Col AP Tanwar, Guards, 19 Dec 2007

(IC-40047N) Lt Col K F Mathew, Inf, 19 Dec 2007

(IC-40057X) Lt Col Mohammad Salim, Inf, 19 Dec 2007

(IC-40058A) Lt Col Shyam Lal, Arty, 19 Dec 2007

(IC-40059H) Lt Col SS Bajwa, Inf, 19 Dec 2007

(IC-40067F) Lt Col KC Senapati, Arty, 19 Dec 2007

(IC-40079W) Lt Col DC Rujay, Arty, 19 Dec 2007

(IC-40085K) Lt Col MM Khan, Inf, 19 Dec 2007

(IC-40086M) Lt Col Nahar Singh, Arty, 19 Dec 2007

(IC-40089A) Lt Col Thakur Karan Singh, Inf, 19 Dec 2007

(IC-40100N) Lt Col V Udameeshi, inf, 19 Dec 2007

(IC-40108A) Lt Col Sumanto Choudhury, AOC, 19 Dec 2007

(IC-40117F) Lt Col Arunjit Singh, AC, 19 Dec 2007

(IC-40118K) Lt Col SS Patel, Sigs, 19 Dec 2007

(IC-40128N) Lt Col HS Grewal, Guards, 19 Dec 2007

(IC-40129W) Lt Col SC Roychowdhury, AC, 19 Dec 2007

(IC-40138X) Lt Col Rajesh Punj, AC, 19 Dec 2007

(IC-40141X) Lt Col KG Limbu, Inf, 19 Dec 2007
 (IC-40147Y) Lt Col AM Verma, AC, 19 Dec 2007
 (IC-40148F) Lt Col TV Arun Kumar, Mech Inf, 19 Dec 2007
 (IC-40159N) Lt Col Ajay Sahai, Inf, 19 Dec 2007
 (IC-40169X) Lt Col Paramjit Shaheed, Inf, 19 Dec 2007
 (IC-40174H) Lt Col Harendra Singh, AOC, 19 Dec 2007
 (IC-40175L) Lt Col Naresh Singh, Inf, 19 Dec 2007
 (IC-40182F) Lt Col Kishor Singh Chauhan, Inf, 19 Dec 2007
 (IC-40183K) Lt Col RS Panwar, Sigs, 19 Dec 2007
 (IC-40184M) Lt Col Charan Singh, Inf, 19 Dec 2007
 (IC-40192L) Lt Col Sateesh T. Arty, 19 Dec 2007
 (IC-40195Y) Lt Col JS Choudhary, Inf, 19 Dec 2007
 (IC-40196F) Lt Col Rakesh Sharma, Mech Inf, 19 Dec 2007
 (IC-40199P) Lt Col Maluk Singh, Arty, 19 Dec 2007
 (IC-40201F) Lt Col Sunil Khurana, AC, 19 Dec 2007
 (IC-40204P) Lt Col Ashwani Sharma, Inf, 19 Dec 2007
 (IC-40213W) Lt Col Atul Kumar, Arty, 19 Dec 2007
 (IC-40220M) Lt Col RK Sharma, AAD, 19 Dec 2007
 (IC-40221P) Lt Col RC Verma, Arty, 19 Dec 2007
 (IC-40225L) Lt Col Subhash Pol, Inf, 19 Dec 2007
 (IC-40226N) Lt Col TVS Murthy, Inf, 19 Dec 2007
 (IC-40229F) Lt Col FM Habibullah, Arty, 19 Dec 2007
 (IC-40236X) Lt Col RK Pandey, AAD, 19 Dec 2007
 (IC-40237A) Lt Col V Rajendra, Arty, 19 Dec 2007
 (IC-40245Y) Lt Col SK Rangra, Inf, 19 Dec 2007
 (IC-40251M) Lt Col CS Mulgund, Arty, 19 Dec 2007
 (IC-40255H) Lt Col RK Singh, ASC, 19 Dec 2007
 (IC-40260N) Lt Col Dharambir Singh, Int, 19 Dec 2007
 (IC-41835K) Lt Col Anil Kumar, Engrs, 20 Dec 2007
 (IC-37801Y) Lt Col Prashant Rawal, AC, 19 Jan 2008
 (IC-37843L) Lt Col Montgomery, inf, 12 Nov 2007
 (IC-38161M) Lt Col Lalit Roy, Arty, 09 Jun 2005
 (IC-38515K) Lt Col V Antony, Arty, 22 Dec 2005
 (IC-39878A) Lt Col SS Goraya, ASC, 19 Dec 2007
 (IC-39907K) Lt Col AK Janardhanan, Arty, 19 Dec 2007
 (IC-40119M) Lt Col UC Sharma, Arty, 19 Dec 2007
 (IC-40121K) Lt Col Sunil Jaggi, AAD, 19 Dec 2007

(IC-40194W) Lt Col Om Prakash, Guards, 19 Dec 2007
 (IC-40210H) Lt Col S Thomas, Engrs, 19 Dec 2007
 (IC-40669P) Lt Col NS Solanki, Sigs, 12 Jun 2006
 (IC-37724P) Lt Col PK Singh, AAD, 14 Nov 2006
 (IC-37837X) Lt Col MM Varghese, Arty, 12 Nov 2007
 (IC-38291P) Lt Col SK Singh, Inf, 22 Dec 2005
 (IC-38913L) Lt Col Raj Kumar Soni, Inf, 07 Jun 2006
 (IC-39158Y) Lt Col MM Srivastava, Arty, 13 Dec 2006
 (IC-39877X) Lt Col Rajender Singh, Inf, 19 Dec 2007
 (IC-39892M) Lt Col Kanta Prasad, Inf, 19 Dec 2007
 (IC-40042P) Lt Col Dinesh Gupta, AC, 19 Dec 2007
 (IC-40087P) Lt Col Yohannan I, Arty, 19 Dec 2007
 (IC-40212N) Lt Col BMS Rawat, AC, 19 Dec 2007
 (IC-03585K) Lt Col AK Holkar, RO, 16 Dec 2004
 (IC-36577L) Lt Col Swaran Singh, Inf, 16 Dec 2004
 (IC-37726A) Lt Col Sarabjit Singh, AOC, 14 Nov 2006
 (IC-38376L) Lt Col DD Mohindra, Inf, 22 Dec 2005
 (IC-38816N) Lt Col S Jayaraj, Sigs, 07 Jun 2006
 (IC-39623A) Lt Col Punjab Singh, Inf, 13 Jun 2007
 (IC-40018Y) Lt Col DK Bahri, Inf, 19 Dec 2007

AJAY GOEL
 Dy Dir
 MS 8-A

ARMY BRANCH

No. 302, the 11th June 2008.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

Lt to be Capt

WS No., Name & Arm

(00859) Preeti Janardhan Bhisikar, Sigs
 (00869) S Kavitha Reddy, EME
 (00903) Jasreen Dhillon, Engrs
 (00920) Hemavathi KN, Sigs
 (00926) Pankaja A Kugaji, EME
 (00928) Meghana Rajeshwar, Engrs
 (00935) Natarajan Suchitra Srinivas, Sigs
 (00946) Neha Rawat, Sigs
 (00962) J Vijaya Kumari, EME

—20 Mar 2007

(00969) Binita Poonam, Sigs

(00973) Boreddy Sanghamitra, EME

(00981) Jyoisna Benal, EME

(00997) Vishnukavitha C, Engrs

—17 Sep 2007

PERMANENT COMMISSION

Lt to be Capt

IC No, Name and Arm

(68925) Irom Chingkhenganba, Engrs

(68926) Anajit Ganguly, Sigs

(68927) Shaurya Sood, Sigs

(68928) Ratan Deep Seeyol, EME

(68929) Amardeep Singh Multani, EME

(68930) Dhruv Shankar Saxena, Engrs

(68931) Vivek Malik, Engrs

(68932) Jaydeep Bodwadkar, Sigs

(68933) Satinder Khola, AAD

(68934) Gagandeep Hanspal, EME

(68936) Ashish Bhardwaj, Engrs

(68937) Aakash Tripathi, EME

(68938) Patil Umesh Ashok, Engrs

(68939) Sukreet Singh Sidhu, AC

(68940) Navin Kumar, Engrs

(68941) Jeta Pundlikrao Dhongde, Engrs

(68942) Abhinav Yadav, Engrs

(68943) Thakkar Dhruv Deepak, EME

(68945) P Srinivasan, Sigs

(68946) Navleen Singh Raj Pal, Sigs

(68948) Naved Akhtar, EME

(68949) Bhupkar Abhishek Jagannath, Sigs

(68950) Sharath Shankar, Engrs

(68951) Manu Chhabra, Engrs

(68952) Naveen Kumar Sharma, EME

(68954) Jagdeep Singh, Sigs

(68955) Sumit Dubey, EME

(68956) Ashwani Suthar, Sigs

(68957) Ashish Raheja, Sigs

(68959) Pradeep Kumar, EME

(68960) Jayant Kadam, Engrs

(68961) Anant Vaibhav Sharma, EME

(68962) Ashwani Kumar, EME

(68964) Nagar Vishal Vithaldas, Engrs

(68965) Somya Mohan, EME

(68966) Sumit Mishra, Sigs

(68967) Ashok Kumar, Engrs

(68970) Prabeen Kumar Nair, Engrs

(68971) D Shiva Kumar, EME

(68972) Anil Kumar Sahu, Sigs

(68973) Sandeep Khalsa, EME

(68974) Maneesh Sharma, Engrs

(68975) Deepak Manhas, EME

(68977) Surender Verma, EME

(68978) Sumant Kumar Sharma, Sigs

(68980) Pramod Shenoy R, Sigs

(56494) Praveen Singh Bhadauria, Inf

(56497) Mritunjay Kumar Singh, AOC

(56500) Siby Thomas, Inf

(56501) Ajay Dobhal, Mech Inf

—11 Dec 2006

(56504) Deepak Sharma, Sigs

(56505) Mayank Sabai, AC

(56508) Satya Priya Saxena, Mech Inf

(56522) Mohit Nigam, Inf

(56524) Nitin Hans, Inf

(56525) Amit Kumar Chhetri, Inf

—16 Dec 2004

(56561) Sajjan Singh Shekhawat, ASC

—06 Nov 2003

(65268) Inderjeet Singh, Inf

(65470) Pushpinder Singh, Inf

—16 Dec 2004

(65530) Dipak Pathak, EME

(65532) Bijoy B, Sigs

—05 May 2004

(53322) Vivek Singh, EME

—10 Dec 1999

(65666) Ayon Chaudhuri, AAD

(65667) Sanjaya Kumar, Inf

(65668) Prakash Prasad, Mech Inf

(65670) Ajay Singh, Inf	(65723) Randhir Singh Suri, ASC
(65671) Subash Chand Punia, Inf	(65724) Ajay Kumar, Inf
(65672) Manish Punj, Inf	(65725) Sukhwinder Singh, Arty
(65674) Puneet Singh Atwal, AC	(65726) Kartik Kumar, Arty
(65675) Ravinder Saini, Inf	(65727) Pragya Verma, Inf
(65676) Jaya Bharat Rao Aritakula, Inf	(65728) Wakade Samir Suresh, Arty
(65680) Narinder Singh Chib, ASC	(65729) Dhundup Keronga, Inf
(65682) Jatinder Jasrotia, Arty	(65731) Vikas Raja, AOC
(65683) Jagdeep Singh, Inf	(65732) Rahul Singh, Inf
(65684) Bhaskar Shinde, Inf	(65733) Gaurav Bali, Arty
(65685) Pushpender Singh, Inf	(65734) Vaidya Abhijeet Anil, Inf
(65687) Rajeev Pandey, Inf	(65736) Kshetrimayum Biken Singh, Inf
(65688) Rishi Bakshi, Inf	(65737) Yuvraj Singh, Inf
(65689) Ravi Shikarwar, Inf	(65741) Davinder Singh, Inf
(65690) Dhruv Saraswat, AC	(65743) Anandjit Singh, Inf
(65691) Tandon Girish CM, Arty	(65744) Karan Singh, Inf
(65693) Amit Bhardwaj, Engrs	(65745) Hameer Singh, Mech Inf
(65695) Bhanu Pratap Singh, Inf	(65746) Virender Singh, ASC
(65696) Ajit Kumar Singh, AOC	(65749) Rajesh Kumar Nayak, Inf
(65697) V Somashekhar, ASC	(65750) Bachaspatimayu ML Sharma, Inf
(65698) Vishal Sharma, AAD	(65751) Arunkumar M, Inf
(65700) Vidyanand D Kanchan, Arty	(65752) Diwadkar Kedar Rajeev, Arty
(65701) Amit Rawat, Inf	(65753) Krishnvir Singh Chahar, Engrs
(65702) Anil Manhas, Inf	(65755) Rohan Sawhney, Arty
(65703) Sameer Kadyan, AC	(65756) Ravneet Brar, Inf
(65705) M Idesh Krishnan, Engrs	(65758) Nagendra Singh Rathore, Inf
(65706) Kuldeep Raj, Inf	(65762) Abhishek Panwar, Inf
(65707) Suneel, ASC	(65763) T Lian Mung, Inf
(65709) Sunil Kumar, Mech Inf	(65764) Deshpande Ajinkya Jagdish, Engrs
(65710) Harneet Singh Bedi, Arty	(65766) Sunil Pankaj Gangal, Inf
(65711) NG Pahlvi, AOC	(65767) Mandeep Singh, Arty
(65712) Naveen Sarwate, Inf	(65769) Chetan Dutta, EME
(65715) Shinde Sangram Ramchandra, Inf	(65770) Mohd Faruk Khan, ASC
(65716) Davinder Singh, Inf	(65771) Charanjeet Singh, Inf
(65717) Vinit Bajpai, Inf	(65773) Santosh Kumar Singh, Inf
(65718) Anant Fogat, AOC	
(65719) Vivek Gupta, Engrs	
(65721) M Palanisaravanan, Inf	
(65722) Gaurav Rana, AAD	
	(65533) Prem Singh Bist, Arty
	(65534) Pankaj Maithani, Mech Inf
	(65535) Ashwani Kumar, Arty

—07 May 2005

(65536) Prashant Jotiba Mane, AC	(65579) Rajiv Ranjan Thakur, Sigs
(65537) Amit Mehta, Inf	(65580) M Babu, Inf
(65538) Zorawar Singh, Inf	(65581) Krishna Kumar Charan, Arty
(65539) Suresh Kumar Pandit, Engrs	(65583) Imtiaz Mansuri, AAD
(65540) Longjam Jimkelly Meetei, Inf	(65584) Dinesh Singh Bhandari, EME
(65541) Sandeep K Thapa, EME	(65585) Sachin Sharma, AOC
(65542) Aditya Wali, Inf	(65586) Amardeep Yadav, Mech Inf
(65543) Fernandes Johny Rocky, Int	(65588) Vikas Khanna, Arty
(65544) Deepak V Sharma, AOC	(65589) Dig Vijay Singh Shekhawat, EME
(65545) Ajit Kumar Rajguru Misra, Inf	(65590) Mishra Rahul Bal, Inf
(65546) Kaushik Tarun Mahesh, AC	(65591) Biju Krishnan, Arty
(65547) Arun Dev Singh Jasrotia, Inf	(65592) Ramandeep Sandhu, AC
(65548) Ramit Chauhan, Sigs	(65593) Vikas Ramachandra Patil (Ghare), Sigs
(65549) Pratap Ranjan Mohanty, Inf	(65594) Pawan Kumar Uniyal, Inf
(65550) Mridul Mishra, Inf	(65595) Sukhwant Singh Dhindsa, Inf
(65551) Manjeet Sangwan, ASC	(65596) Rohit Solanki, Inf
(65552) Vishal Singh Sanga, Mech Inf	(65597) Birendra Kumar Pushkar, Arty
(65553) Akshay Kumar, Arty	(65598) Vikram Singh Bora, Inf
(65555) Aditya Singh Rathore, AC	(65599) Md Anwaruddin Sheriff, Inf
(65556) Shivinder Pratap Singh Kanwar, Inf	(65600) Badal Kaushik, AAD
(65557) Arthur Agay Foning, Inf	(65601) MV Vipin, ASC
(65558) Anand, EME	(65603) Mahendra Kumar Joshi, ASC
(65559) Bhanu Pratap Singh, AOC	(65604) Bisht Abhay Bhuwan Chandra, AOC
(65560) Prem Kumar Tomar, Sigs	(65605) Neeraj Kumar, Inf
(65561) Brijendra Singh B Shekhawat, AC	(65606) Rajiv Menon, Inf
(65562) Sugandhit Vikas Bali, Engrs	(65607) Deepu K, Inf
(65563) Sherap Dorjee Bhutia, Inf	(65608) Shiv Kumar, EME
(65565) Amarinder Brar, AC	(65609) Saurabh Rawat, Inf
(65566) Partha Pratim Dutta, Engrs	(65610) Ajay Kumar, Inf
(65567) Vivek Chaudhary, Arty	(65614) Thongbam Dijen Singh, Inf
(65568) Jadhav Santoshkumar Rangrao, Inf	(65617) Vikrant Mankotia, EME
(65569) Jadhav Mahesh Vaishnu, AC	(65618) Ramesh Kumar, Inf
(65570) Karan Vasishth, Inf	(65619) Paishal Manocha, Inf
(65571) Rohit Chauhan, Inf	(65621) Prashant Jhata, Inf
(65572) Arindam Bardhan, Inf	(65622) Asil Abbas, Inf
(65573) Sudarup Patil, Engrs	(65623) Martand Misra, Arty
(65574) Sanil Kumar, Mech Inf	(65624) Dinesh Singh Thakur, Inf
(65577) Virmani Manu Chandermohan, Inf	(65625) Gajender Singh Shekhawat, Inf
(65578) Hernant Lolian, Arty	(65626) Vinod Joshi, Inf

(65627) Divya Mani Shukla, Engrs
 (65628) Shailendra Singh Shekhawat, AC
 (65629) Anurag Sharma, Sigs
 (65630) Siddharth Virmani, Sigs
 (65631) Man Singh, Engrs
 (65632) Fakir Abbas, AC
 (65633) Vishwas P, Engrs
 (65634) Madhvendra Singh, EME
 (65635) Rakesh Sharma, AAD
 (65636) Mayank Tiwari, Mech Inf
 (65637) Sanjeet S Giani, Inf
 (65638) Vikas Tyagi, ASC
 (65639) Aditya Kapoor, AC

—16 Dec 2004

JASWANT SINGH
 Jt Dir
 MS-8C

(ARMY BRANCH)

No. 303, the 11th June, 2008.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Wg Cdr/Gp Capt (TS) to be Gp Capt (Selection & Equivalent)

SK Awasthi, (MR-04284M)(AF-16354)—26 Feb 07 with notional seniority without effect on pay & pension from 21 Jan 06.

GS Sandhu (MR-04568W)(AF-16767)—22 Mar 07 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jan 07.

RC Panda (MR-05486X)(AF-18434)—12 Mar 07 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jan 07.

JK Shrivastava (MR-04781W)(AF-17270)—26 Feb 07 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jan 07.

Mrs VV Gomez (MR-06436F)(AF-18180)—16 Apr 07 with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Jan 07.

Daljit Singh (MR-04896K)(AF-17403)—26 Feb 07 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Feb 07.

D Gaur (MR-04897M)(AF-17404)—26 Feb 07 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Feb 07.

S Mukherji (MR-04918X)(AF-17405)—23 Jul 07 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jun 07.

SK Aggarwal (MR-05879W)(AF-17407)—01 Aug 07

G RAVINDRANATH
 Brig
 Dy DGAFMS (P)

No. 304, the 11th June, 2008.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

CORPS OF ENGINEERS

BENGAL ENGINEER GROUP

To be Substantive Sub Maj (GD)

Sub Ram Ishwar Ray (JC-327088X), 01 Sep 2006

Sub Himat Singh (JC-327092A), 01 Sep 2006

Sub Kulvinder Singh (JC-327098F), 01 Oct 2006

Sub Dhan Bahadur Bhura (JC-327099K), 01 Oct 2006

Sub Sukhdev Singh (JC-327100N), 01 Oct 2006

Sub Pappi (JC-327928M), 01 Nov 2006

Sub Prasan Kumar Misro (JC-327940N), 01 Nov 2006

Sub Surjit Singh (JC-327941N), 01 Dec 2006

Sub Godha Ram (JC-327948A), 01 Dec 2006

Sub Augustine Kharsyntiew (JC-327994P), 01 Jan 2007

Sub Arup Kumar Gon (JC-328278W), 01 May 2007

Sub Sahib Singh (JC-328029X), 01 Jun 2007

Sub Doodh Nath Singh (JC-328036N), 01 Jun 2007

Sub Ram Bahadur Khatri (JC-328219K), 01 Jun 2007

Sub Urva Datt (JC-328039F), 01 Jul 2007

Sub Fateh Bahadur Singh (JC-328064A), 01 Aug 2007

Sub Jagdamba Rai (JC-328067N), 01 Aug 2007

Sub Hira Singh (JC-328079H), 01 Aug 2007

Sub Raj Pal Singh (JC-328078A), 01 Aug 2007

Sub Pitambar Prasad (JC-328125M), 01 Sep 2007

Sub Chain Singh (JC-328126P), 01 Sep 2007

Sub Dhan Bahadur Chhetri (JC-328127X), 01 Sep 2007

Sub Maan Singh Sarawon (JC-328131A), 01 Nov 2007

Sub Dharamvir Sharma (JC-328129H), 01 Nov 2007

To be Substantive Sub Maj Ck (GD)

Sub Yogendra Kumar Singh (JC-215896N), 01 Jan 2006
 Sub Mohd Abrar Khan (JC-325319K), 01 Apr 2006
 Sub Satbir Singh (JC-325510L), 01 Jun 2006
 Sub Bimal Daimari (JC-325528F), 01 Jun 2006
 Sub Rajendra Prasad Kimothi (JC-325533M), 01 Jun 2006
 Sub Mahender Singh Kaushik (JC-325519A), 01 Jun 2006
 Sub Ashwani Kumar Singh (JC-325527Y), 01 Jun 2006
 Sub Subhash Prasad Kushwaha (JC-3255411.), 01 Aug 2006
 Sub Himangshu Sekhar Nath (JC-325550M), 01 Aug 2006
 Sub Lakhan Singh (JC-325532K), 01 Jun 2006
 Sub Harish Chand Joshi (JC-325181A), 01 Aug 2006
 Sub Mahesh Kumar Brahma (JC-325598A), 01 Sep 2006
 Sub Rakesh Kumar Sharma (JC-325600M), 01 Sep 2006
 Sub Dharam Pal (JC-325601P), 01 Oct 2006
 Sub Soban Singh (JC-325606N), 01 Oct 2006
 Sub Bhura (JC-325608Y), 01 Oct 2006
 Sub Rushen Chandra Roy (JC-325790K), 01 Nov 2006
 Sub Pushkar Singh Bisht (JC-325719W), 01 Nov 2006
 Sub Chander Mohan Soren (JC-325695X), 01 Nov 2006
 Sub Om Prakash (JC-325721N), 01 Dec 2006
 Sub Shashikant Choubey (JC-325177X), 01 Jan 2007
 Sub Kultar Singh Verma (JC-325494Y), 01 Jan 2007
 Sub Purna Kanta Saikia (JC-325503P), 01 Jan 2007
 Sub Shyam Lal (JC-325516M), 01 Feb 2007
 Sub Prasanna Kumar Sinha (JC-325529K), 01 Feb 2007
 Sub Jagdish Chand (JC-325547N), 01 Mar 2007
 Sub Binod Shankar Mishra (JC-325549X), 01 Mar 2007
 Sub Sat Paul (JC-325307P), 01 Mar 2007
 Sub Ananta Charan Mohapatra (JC-325694P), 01 Apr 2007
 Sub Krishan Chand (JC-325720L), 01 Apr 2007
 Sub Raj Kumar Singh (JC-325800H), 01 May 2007
 Sub Wazir Singh (JC-325801L), 01 May 2007
 Sub Shekar Kumar Singh (JC-325803W), 01 May 2007
 Sub Lakhbir Singh (JC-325805F), 01 May 2007
 Sub Bhuneshwar Rawat (JC-325812X), 01 Jun 2007

Sub Naresh Kumar Sharma (JC-325943H), 01 Jun 2007
 Sub Ram Singh Thapa (JC-325947Y), 01 Jul 2007
 Sub Madan Singh Mehta (JC-325874X), 01 Jun 2007
 Sub Pradeep Kumar (JC-325972X), 01 Jul 2007
 Sub Narinder Jeet Singh (JC-325806K), 01 Jun 2007
 Sub Yogendra Prasad Singh (JC-325809X), 01 Jun 2007
 Sub Mange Ram (JC-325804Y), 01 Aug 2007
 Sub Satyavir Singh (JC-325881N), 01 Jul 2007
 Sub Surinder Pal Singh (JC-325884F), 01 Jul 2007
 Sub Bashir Ahmad Mir (JC-325954P), 01 Aug 2007
 Sub Arjun Singh Parashar (JC-326017K), 01 Oct 2007

To be Substantive Sub Maj Svy (CAT)

Sub Daya Singh (JC-325051X), 01 Jul 2006
 Sub Surinder Singh (JC-326479W), 01 Nov 2006
 Sub Hemant Singh Kanwar (JC-328210P), 01 Jan 2007
 Sub Paramjit Singh (JC-326671A), 01 Feb 2007
 Sub Dinesh Singh (JC-326675W), 01 Apr 2007
 Sub Arvind Singh Negi (JC-325560W), 01 Mar 2007

To be Substantive Sub Maj (RT)

Sub Jagdish Prasad (JC-120471K), 01 Feb 2007

To be Substantive Sub (GD)

Nb Sub Shyam Narayan Singh (JC-328972H), 01 Sep 2006
 Nb Sub Sushanta Kumar Paul (JC-329036A), 01 Sep 2006
 Nb Sub Govind Singh (JC-328995K), 01 Sep 2006
 Nb Sub Uttam Singh (JC-328973L), 01 Sep 2006
 Nb Sub Baldev Singh (JC-328886X), 27 Jun 2006
 Nb Sub Bijaya Kumar Behera (JC-328924H), 27 Jun 2006
 Nb Sub Shyamal Kumar Biswas (JC-328300W), 27 Jun 2006
 Nb Sub Kishan Singh (JC-328974N), 01 Oct 2006
 Nb Sub Prem Singh (JC-328996M), 01 Oct 2006
 Nb Sub Shiv Dhan Singh (JC-328997P), 01 Oct 2006
 Nb Sub Jai Ram Singh (JC-329207F), 01 Oct 2006
 Nb Sub Gauri Shankar Yadav (JC-329000F), 01 Oct 2006
 Nb Sub Deep Chand (JC-329038L), 01 Oct 2006
 Nb Sub Jogendra Prasad (JC-329002M), 01 Oct 2006
 Nb Sub Sate Singh (JC-329003P), 01 Oct 2006
 Nb Sub Sukhbir Singh (JC-329004X), 01 Oct 2006

Nb Sub Amrik Singh (JC-329040H), 01 Oct 2006	Nb Sub Dalvir Singh (JC-329062F), 01 Feb 2007
Nb Sub Anant Kumar (JC-329005A), 01 Oct 2006	Nb Sub Mehinga Singh (JC-329135H), 01 Feb 2007
Nb Sub Mithilesh Kumar Ray (JC-329132P), 01 Oct 2006	Nb Sub Banamaji Biswas (JC-329039N), 05 Dec 2006
Nb Sub Bhim Bahadur Thapa (JC-329041L), 01 Oct 2006	Nb Sub Nandan Singh Rawat (JC-329063K), 01 Mar 2007
Nb Sub Kimat Singh (JC-329007L), 01 Oct 2006	Nb Sub Chhanu Prasad (JC-329064M), 01 Mar 2007
Nb Sub Nain Singh (JC-329008N), 01 Oct 2006	Nb Sub Rukam Singh (JC-329066X), 01 Mar 2007
Nb Sub Surender Ram (JC-329009W), 01 Oct 2006	Nb Sub Sudarshan Singh (JC-329136L), 01 Mar 2007
Nb Sub Jaspal Singh (JC-329133X), 01 Oct 2006	Nb Sub Avtar Singh (JC-329067A), 01 Mar 2007
Nb Sub Suresh Pal Singh (JC-329010L), 01 Oct 2006	Nb Sub Nagender Kumar Singh (JC-329137N), 01 Mar 2007
Nb Sub Ram Singh Rautela (JC-329975M), 01 Oct 2006	Nb Sub Arjun Singh (JC-329068H), 01 Mar 2007
Nb Sub Gurnam Singh (JC-329012W), 01 Nov 2006	Nb Sub Nagendra Kumar Lenka (JC-329069L), 01 Mar 2007
Nb Sub Bhishma Narayan Singh (JC-329043W), 01 Nov 2006	Nb Sub Vishwanath Prasad (JC-329070A), 01 Mar 2007
Nb Sub Jarnail Singh (JC-329044Y), 01 Nov 2006	Nb Sub Chandra Mohan (JC-329071H), 01 Mar 2007
Nb Sub Ganesh Singh (JC-329013Y), 01 Nov 2006	Nb Sub Jaman Singh (JC-329113K), 01 Mar 2007
Nb Sub Mahabir Singh (JC-329053A), 01 Nov 2006	Nb Sub Swaran Singh (JC-329072L), 01 Mar 2007
Nb Sub Awadhesh Pandey (JC-329046K), 01 Nov 2006	Nb Sub Shri Bhagwan Singh (JC-329160F), 01 Jan 2007
Nb Sub Raghubir Singh (JC-329047M), 01 Nov 2006	Nb Sub Sanjib Kumar Sarkar (JC-329073N), 01 Apr 2007
Nb Sub Nanda Ballabh Salwasi (JC-329045P), 01 Nov 2006	Nb Sub Gouranga Mishra (JC-329074W), 01 Apr 2007
Nb Sub Umesh Kumar Singh (JC-329054H), 01 Dec 2006	Nb Sub Anand Singh (JC-329075Y), 01 Apr 2007
Nb Sub Matbar Singh (JC-329048W), 01 Dec 2006	Nb Sub Vasudev Prasad (JC-329076F), 01 May 2007
Nb Sub Tejbir Singh (JC-329050M), 01 Dec 2006	Nb Sub Kamla Singh (JC-329209M), 01 May 2007
Nb Sub Jai Prakash (JC-329014F), 01 Dec 2006	Nb Sub Mukand Singh (JC-329077K), 01 May 2007
Nb Sub Gajendra Kumar Chaudhary (JC-329006H), 01 Oct 2006	Nb Sub Shambhu Nath Kunwar (JC-329238F), 01 May 2007
Nb Sub Shri Vilas (JC-329049X), 01 Dec 2006	Nb Sub Dhan Singh (JC-329078M), 01 May 2007
Nb Sub Rajinder Singh (JC-329055L), 01 Jan 2007	Nb Sub Baldev Singh (JC-329079P), 01 May 2007
Nb Sub Hom Bahadur Pun (JC-329019A), 01 Jan 2007	Nb Sub Bachha Singh (JC-329080K), 01 May 2007
Nb Sub Man Mohan Singh Negi (JC-329051P), 01 Jan 2007	Nb Sub Krishan Kumar Thapa (JC-329114M), 01 May 2007
Nb Sub Mohan Chander (JC-329016M), 01 Jan 2007	Nb Sub Jagat Narain Singh (JC-329081M), 01 May 2007
Nb Sub Netra Singh Shahi (JC-329052X), 01 Jan 2007	Nb Sub Krishna Nand Kandpal (JC-329082P), 01 May 2007
Nb Sub Narain Prasad Palai (JC-329056N), 01 Jan 2007	Nb Sub Prahalad Singh (JC-329083X), 01 May 2007
Nb Sub Narain Singh (JC-329134A), 01 Feb 2007	Nb Sub Karnail Singh (JC-329084A), 01 May 2007
Nb Sub Anand Singh Bafila (JC-329057W), 01 Feb 2007	Nb Sub Lakhwinder Singh (JC-329088N), 01 Jun 2007
Nb Sub Subhash Singh (JC-329208K), 01 Feb 2007	Nb Sub Jagbhan Singh (JC-329089Y), 01 Jun 2007
Nb Sub Shiw Nath Singh (JC-329059F), 01 Feb 2007	Nb Sub Suresh Bahadur Singh (JC-329690W), 06 Dec 2006
Nb Sub Joginder Singh (JC-329060W), 01 Feb 2007	
Nb Sub Bachan Singh (JC-329061Y), 01 Feb 2007	

Nb Sub Parkush Singh (JC-329139Y), 01 Jun 2007
 Nb Sub Jitendra Prasad Singh (JC-329090N), 01 Jun 2007
 Nb Sub Krishna Murari (JC-329094K), 01 Jun 2007
 Nb Sub Prem Narayan Singh Yadav (JC-329095M), 01 Jun 2007
 Nb Sub Manoharan V (JC-329091W), 01 Jun 2007
 Nb Sub Bhuvan Chander Singh (JC-329092Y), 01 Jun 2007
 Nb Sub Indrajeet Tiwari (JC-329093F), 01 Jun 2007
 Nb Sub Mahendra Pal Singh (JC-329140N), 01 Jun 2007
 Nb Sub Nar Singh Narayan Tiwari (JC-329115P), 01 Jun 2007
 Nb Sub Jaswinder Singh (JC-329086L), 01 Jun 2007
 Nb Sub Man Bahadur Vishwakarma (JC-329099H), 01 Jul 2007
 Nb Sub Chandra Prakash Arya (JC-329143F), 01 Jul 2007
 Nb Sub Vishwanath Prasad Bamra (JC-329101P), 01 Jul 2007
 Nb Sub Shiv Shankar Singh (JC-329102Y), 01 Jul 2007
 Nb Sub Birendra Kumar Singh (JC-329104H), 01 Jul 2007
 Nb Sub Harbir Singh (JC-329142Y), 01 Jul 2007
 Nb Sub Gopal Chetri (JC-329105L), 01 Jul 2007
 Nb Sub Suresh Chander (JC-329106N), 01 Jul 2007
 Nb Sub Dinesh Chandra Bhangwal (JC-329107W), 01 Aug 2007
 Nb Sub Awadesh Kumar Singh (JC-329108N), 01 Aug 2007
 Nb Sub Kuram Singh (JC-329145M), 01 Aug 2007
 Nb Sub Akhileshwar Singh (JC-329087N), 01 Jun 2007
 Nb Sub Shyam Singh (JC-329085H), 01 Jun 2007
 Nb Sub Bhagwan Singh (JC-329098A), 01 Jul 2007
 Nb Sub Virendra Kumar Singh (JC-329103A), 01 Jul 2007
 Nb Sub Himmat Singh Dharni (JC-329112F), 01 Aug 2007
 Nb Sub Ishwari Datt (JC-329100M), 01 Jul 2007
 Nb Sub Surender Singh (JC-329141W), 01 Jul 2007
 Nb Sub Ramesh Chand (JC-329144K), 01 Aug 2007
 Nb Sub Ramesh Chandra Singh Bishi (JC-329096P), 01 Jul 2007
 Nb Sub Darwan Singh (JC-329146P), 01 Sep 2007
 Nb Sub Kunwar Ram (JC-329148A), 01 Sep 2007
 Nb Sub Sukhwinder Singh (JC-329210F), 01 Sep 2007

Nb Sub Md Hamish (JC-329150X), 01 Sep 2007
 Nb Sub Jaibir Singh (JC-329338M), 01 Aug 2007
 Nb Sub Rajender Singh (JC-329147X), 01 Sep 2007
 Nb Sub Nawab Singh (JC-329151A), 01 Oct 2007
 Nb Sub Jagdish Singh Khatri (JC-329152H), 01 Oct 2007
 Nb Sub Ram Kishore Verma (JC-329153L), 01 Nov 2007
 Nb Sub Surendra Prasad Singh (JC-329154N), 01 Nov 2007

Nb Sub Surjit Singh (JC-329155W), 01 Nov 2007
 Nb Sub Shyam Singh (JC-329156Y), 01 Nov 2007
 Nb Sub Kushal Singh (JC-329157F), 01 Nov 2007
 Nb Sub Bhim Yadav (JC-329158K), 01 Nov 2007

(To be Substantive Sub Clk (GD))

Nb Sub Girish Kumar (JC-327291N), 01 Sep 2006
 Nb Sub Diwan Singh Adhikari (JC-327266P), 01 Sep 2006
 Nb Sub Gayadhara Parida (JC-328012K), 01 Sep 2006
 Nb Sub Bhola Mukherjee (JC-327908Y), 01 Sep 2006
 Nb Sub Ravinder Singh Tomar (JC-327293Y), 01 Sep 2006
 Nb Sub Ramesh Kumar (JC-327920A), 01 Sep 2006
 Nb Sub Ram Kumar Sharma (JC-327290L), 01 Aug 2006
 Nb Sub Kuldeep Chand Sharma (JC-327265M), 01 Sep 2006

Nb Sub Rohtas Chander Dhaka (JC-326970Y), 27 Jun 2006

Nb Sub Hira Singh (JC-327919L), 01 Sep 2006
 Nb Sub Bodh Raj (JC-327261W), 01 Aug 2006
 Nb Sub Gurcharan Singh (JC-327921H), 01 Oct 2006
 Nb Sub Balwinder Singh (JC-327929P), 01 Oct 2006
 Nb Sub Paramjit Singh (JC-327922L), 01 Oct 2006
 Nb Sub Dhani Ram (JC-327923N), 01 Oct 2006
 Nb Sub Raj Kumar Saria (JC-327930K), 01 Oct 2006
 Nb Sub Janak Raj Rana (JC-327924H), 01 Oct 2006
 Nb Sub Ashok Dey (JC-327294F), 01 Sep 2006
 Nb Sub Brahm Jil (JC-327925Y), 01 Nov 2006
 Nb Sub Joginder Singh Puriyal (JC-327926F), 01 Nov 2006
 Nb Sub Sajjan Singh (JC-327961K), 01 Nov 2006
 Nb Sub Om Prakash (JC-327932P), 01 Nov 2006
 Nb Sub Ashoke Kumar Singh (JC-328043K), 01 Sep 2006
 Nb Sub Shailesh Kumar Tiwari (JC-327907K), 01 Oct 2006

Nb Sub Rama Kant Dhar Dubey (JC-328013M), 01 Jan 2007

Nb Sub Ashok Kumar Mishra (JC-328136Y), 01 Jan 2007

Nb Sub Mahender Singh (JC-327935H), 01 Jan 2007

Nb Sub Dharam Bir (JC-327963P), 01 Jan 2007

Nb Sub Pritam Singh (JC-328014P), 01 Feb 2007

Nb Sub Balvir Singh (JC-327937N), 01 Feb 2007

Nb Sub Govardhan Bhakta (JC-327965A), 01 Feb 2007

Nb Sub Swarn Jit (JC-328045P), 01 Feb 2007

Nb Sub Ramesh Singh (JC-327966N), 01 Feb 2007

Nb Sub Desh Ram (JC-328016A), 01 Feb 2007

Nb Sub Aji Kumar Paul (JC-328017H), 01 Feb 2007

Nb Sub Dunger Dev Sharma (JC-328046X), 01 Feb 2007

Nb Sub Shaikh Jahiruddin Ahamad (JC 327295K), 01 Sep 2006

Nb Sub Purn Singh Khanka (JC-328047A), 01 Mar 2007

Nb Sub Om Prakash Dubey (JC-327967L), 01 Mar 2007

Nb Sub Mahavir Prasad (JC-328050A), 01 Mar 2007

Nb Sub Krishan Kumar (JC-328051H), 01 Mar 2007

Nb Sub Shiv Prasad (JC-328137F), 01 Mar 2007

Nb Sub Ramesh Pal Singh (JC-328049L), 01 Mar 2007

Nb Sub Madan Gopal (JC-328052L), 01 Apr 2007

Nb Sub Ajay Pal Singh (JC-328053M), 01 May 2007

Nb Sub Karamvir Singh (JC-328055Y), 01 May 2007

Nb Sub Ram Raj Pathak (JC-328085W), 01 May 2007

Nb Sub Rajesh Kumar (JC-328139M), 01 May 2007

Nb Sub Ram Gopal (JC-328087F), 01 May 2007

Nb Sub Laxmi Narayan (JC-328088K), 01 Jun 2007

Nb Sub Nathuni Singh (JC-328089M), 01 Jun 2007

Nb Sub Ramesh Chandra (JC-328091F), 01 Jun 2007

Nb Sub Mohan Lal Datta (JC-328090F), 01 Jun 2007

Nb Sub Dev Raj Meassi (JC-328141K), 01 Jun 2007

Nb Sub Pranab Bhowmik (JC-328140F), 01 Jun 2007

Nb Sub Harish Chander (JC-328093P), 01 Jun 2007

Nb Sub Rajivir (JC-328142M), 01 Jul 2007

Nb Sub Gurcharan Singh (JC-328170Y), 01 Jul 2007

Nb Sub Rajendra Singh (JC-328171F), 01 Jul 2007

Nb Sub Satyavir Yadav (JC-328197W), 01 Aug 2007

Nb Sub Ram Pal (JC-328222K), 01 Aug 2007

Nb Sub Ishwar Singh (JC-328223M), 01 Aug 2007

Nb Sub Sohan Singh (JC-328225X), 01 Aug 2007

Nb Sub Sunil Chand Rana (JC-328226A), 01 Aug 2007

Nb Sub Bijender Pal Singh (JC-328168F), 01 Jul 2007

Nb Sub Swarn Singh (JC-328169K), 01 Jul 2007

Nb Sub Jagmal Singh (JC-328234Y), 01 Aug 2007

Nb Sub Ravinder Pal Singh (JC-328235F), 01 Sep 2007

Nb Sub Dharamvir Singh (JC-328238P), 01 Sep 2007

Nb Sub Baban Baijnath Pandey (JC-328239X), 01 Sep 2007

Nb Sub Gopi Ram (JC-328407L), 01 Oct 2007

Nb Sub Ramesh Kumar Shaw (JC-328408N), 01 Oct 2007

Nb Sub Suresh Prasad Shaw (JC-328410L), 01 Oct 2007

Nb Sub Chander Shekar Upreti (JC-328411N), 01 Oct 2007

Nb Sub Ratneshwar Nath (JC-328413Y), 01 Oct 2007

Nb Sub Ram Lakhan (JC-328415K), 01 Nov 2007

Nb Sub Pawan Kumar (JC-328435X), 01 Nov 2007

Nb Sub Rajender Kumar (JC-328436A), 01 Nov 2007

(To be Substantive Sub SKT)

Nb Sub Dinesh Pandey (JC-328199F), 01 Oct 2006

(To be Substantive Sub Svy CAT)

Nb Sub Dan Singh (JC-326482W), 01 Oct 2006

Nb Sub Kulwinder Singh (JC-326825F), 01 Mar 2007

Nb Sub Harjinder Singh (JC-326611L), 01 Mar 2007

Nb Sub Sattar Ali (JC-328367P), 01 Apr 2007

Nb Sub Sukhwant Singh (JC-328664H), 01 Apr 2007

Nb Sub Pushkar Singh (JC-328240M), 01 Apr 2007

Nb Sub Santosh Kumar Mishra (JC-329597P), 01 Jun 2007

Nb Sub Naresh Pal (JC-329598X), 01 Jun 2007

Nb Sub Chander Shekar (JC-329743K), 01 Jun 2007

Nb Sub Sompal Singh (JC-329746X), 01 Jun 2007

Nb Sub Arvinda Babu BP (JC-329740W), 01 Jun 2007

Nb Sub Shailesh Kumar Pathak (JC-329744M), 01 Jun 2007

Nb Sub Dongar Singh (JC-329745P), 01 Jun 2007

Nb Sub Atul Kumar Tripathi (JC-329599A), 01 Jun 2007

Nb Sub Masala Pilli Venkat Narayana (JC-329741Y), 01 Jun 2007

Nb Sub Akshaya Kumar Padhi (JC-329742F), 01 Jun 2007
 Nb Sub Rakesh Chaudhary (JC-329747A), 01 Jun 2007
 Nb Sub Hukam Singh Negi (JC-326577W), 01 Jun 2007
 Nb Sub Promod Singh Negi (JC-326550Y), 01 Aug 2007

(To be Substantive Sub RT)

Nb Sub Sarbdeep Singh (JC-326454K), 01 Dec 2006

[(To be Substantive Sub Maj Ck (GD))]

Sub Binod Shankar Mishra (JC-325549X), 01 Mar 2007

Sub Satpal (JC-325307P), 01 Mar 2007

Sub Ananta Charan Mohapatra (JC-325694P), 01 Apr 2007

Sub Krishan Chand (JC-325720L), 01 Apr 2007

Sub Raj Kumar Singh (JC-325800H), 01 May 2007

Sub Wazir Singh (JC-325801L), 01 May 2007

Sub Sheo Karan (JC-326015Y), 01 Sep 2007

Sub Kulbir Singh Dahiya (JC-326078M), 01 Nov 2007

Sub Dalbir Singh (JC-325303Y), 01 Jan 2008

[To be Substantive Sub (GD)]

Nb Sub Ram Nath (JC-329110W), 01 Aug 2007

Nb Sub Banc Singh (JC-329111Y), 01 Aug 2007

Nb Sub Devendra Singh (JC-329162M), 01 Dec 2007

Nb Sub Bhola Nath (JC-329163P), 01 Dec 2007

Nb Sub Kharak Singh (JC-329164X), 01 Dec 2007

Nb Sub Ranveer Singh (JC-329166H), 01 Dec 2007

Nb Sub Maluk Singh (JC-329167L), 01 Dec 2007

Nb Sub Ravindra Singh (JC-329168N), 01 Dec 2007

Nb Sub Salgu Ram (JC-329240Y), 01 Dec 2007

Nb Sub Krishan Kumar Singh (JC-329169Y), 01 Dec 2007

Nb Sub Pratam Chand (JC-329171M), 01 Dec 2007

Nb Sub Prem Dayal Singh (JC-329172W), 01 Jan 2008

Nb Sub Shyam Narayan Singh (JC-329211K), 01 Jan 2008

Nb Sub Gurbachan Singh (JC-329212M), 01 Jan 2008

Nb Sub Probit Kumar Mondal (JC-329213P), 01 Jan 2008

Nb Sub Ranjit Singh (JC-329214X), 01 Jan 2008

Nb Sub Gupala Krishnan Nair P (JC-329215A), 01 Jan 2008

[To be Substantive Sub Ck (GD)]

Nb Sub Rajender Prasad Sharma (JC-328458Y), 01 Dec 2007

Nb Sub Suresh Yadav (JC-328460W), 01 Dec 2007

Nb Sub Kishan Singh (JC-328461Y), 01 Dec 2007

Nb Sub Aseem Rana (JC-328494K), 01 Dec 2007

Nb Sub Chandrama Singh (JC-328495M), 01 Dec 2007

Nb Sub Om Prakash (JC-328496P), 01 Dec 2007

Nb Sub Subhash Singh (JC-328462F), 01 Dec 2007

Nb Sub Braham Dutt Sharma (JC-328498A), 01 Dec 2007

Nb Sub Manoj Mishra (JC-328499H), 01 Jan 2008

Nb Sub Shri Nath Pal (JC-328500M), 01 Jan 2008

Nb Sub Narayan Singh (JC-328501P), 01 Jan 2008

Nb Sub Jia Lal Sharma (JC-328502X), 01 Jan 2008

Nb Sub Mohinder Pal Sharma (JC-328546P), 01 Jan 2008

Nb Sub Madan Lal (JC-328521H), 01 Jan 2008

Nb Sub Piar Singh (JC-328522L), 01 Jan 2008

[To be Substantive Sub Ck (Store)]

Nb Sub Kuldip Singh (JC-326610H), 01 Dec 2007

Bombay Engineer Group

[To be Subedar Major (Ck GD)]

Sub (Ck GD) Virender Singh (JC-347524L), 10 Oct 2007

Sub (Ck GD) Rattan Lal (JC-347523H), 08 Oct 2007

Sub (Ck GD) Dudh Nath Singh (JC-347655W), 27 Nov 2007

Sub (Ck GD) Digamber Singh (JC-347635H), 01 Dec 2007

Sub (Ck GD) Prem Kumar Sharma (JC-347610W), 07 Dec 2007

Sub (Ck GD) Virender Singh Dahiya (JC-347896W), 05 Dec 2007

Sub (Ck GD) Suddala Lokesam (JC-347559F), 13 Dec 2007

Sub (Ck GD) Pershotam Singh (JC-347585H), 15 Nov 2007

Sub (Ck GD) Rattan Singh (JC-347704N), 08 Jan 2008

Sub (Ck GD) Gopal Singh Rana (JC-347879W), 05 Dec 2007

Sub (Ck GD) Harswaroop (JC-347582P), 04 Feb 2008

Sub (Ck GD) Chougule Madhukar Dattatray (JC-347784W), 06 Mar 2008

Sub (Ck GD) Ramesh Chand Sharma (JC-347769L), 04 Feb 2008

Sub (Ck GD) Ramvir Singh (JC-347793X), 18 Feb 2008

Sub (Clk GD) Chander Mohan Pathak (JC-347608Y), 19 Feb 2008

Sub (Clk GD) Rajinder Singh (JC-347779L), 17 Mar 2008

[To be Subedar Major (GD)]

Sub (GD) Karat Balu Krishna (JC-348411P), 12 Mar 2008

Sub (GD) Bakhshish Singh (JC-348344P), 05 Dec 2007

Sub (GD) Uma Shankar Maurya (JC-348376X), 07 Dec 2007

[(To be Subedar (Clk GD))]

Nb Sub (Clk GD) Suresh Chand Verma (JC-349171P), 21 Feb 2008

Nb Sub (Clk GD) Rajinder Kumar (JC-349209N), 19 Feb 2008

Nb Sub (Clk GD) Rakesh Kumar (JC-349284X), 15 Feb 2008

Nb Sub (Clk GD) Shiv Raj Singh (JC-349221P), 14 Feb 2008

Nb Sub (Clk GD) Mahipal Singh (JC-349270X), 14 Feb 2008

Nb Sub (Clk GD) Ramesh Chander (JC-349180W), 12 Feb 2008

Nb Sub (Clk GD) Ram Karan Jat (JC-348992X), 16 Jan 2008

Nb Sub (Clk GD) Harish Kumar (JC-349283P), 09 Feb 2008

Nb Sub (Clk GD) Trepan Singh Panwar (JC-349253X), 08 Feb 2008

Nb Sub (Clk GD) Jayachandran Nair PV (JC-349272H), 01 Mar 2008

Nb Sub (Clk GD) Laxman Gunawant Take (JC-349036F), 11 Feb 2008

Nb Sub (Clk GD) Bhoop Singh Gangwar (JC-349255H), 08 Feb 2008

Nb Sub (Clk GD) Bhokare Jotiram Sadashiv (JC-349268A), 13 Feb 2008

Nb Sub (Clk GD) Bawaskar Shrikrishna Hari (JC-348854W), 22 Feb 2008

Nb Sub (Clk GD) Manabendra Chakravorty (JC-349033N), 10 Feb 2008

Nb Sub (Clk GD) Suresh Kumar (JC-349069M), 07 Mar 2008

Nb Sub (Clk GD) Bahadur Singh (JC-349049Y), 15 Mar 2008

Nb Sub (Clk GD) Yadav Jaysinh Hari Singh (JC-349252P), 28 Feb 2008

Nb Sub (Clk GD) Mangla Ram Mundiya (JC-349213W), 11 Feb 2008

Nb Sub (Clk GD) Bhagwan Singh (JC-349035Y), 27 Feb 2008

Nb Sub (Clk GD) Ramsewak Yadav (JC-349288N), 13 Mar 2008

Nb Sub (Clk GD) Prahlad Singh Ajaiwal (JC-349070F), 11 Feb 2008

Nb Sub (Clk GD) Roshan Singh (JC-349210H), 21 Feb 2008

Nb Sub (Clk GD) Raghuvinder Singh (JC-349073P), 10 Mar 2008

Nb Sub (Clk GD) Narendra Pratap Singh (JC-349034W), 22 Jan 2008

Nb Sub (Clk GD) Surender Kumar Yadav (JC-349257N), 20 Feb 2008

Nb Sub (Clk GD) Patare Bhansaheb Ramchandra (JC-348947L), 16 Oct 2007

Nb Sub (Clk GD) Mahipal Singh Rawat (JC-348914A), 01 Nov 2007

Nb Sub (Clk GD) Daya Nand (JC-348836N), 01 Oct 2007

Nb Sub (Clk GD) Rakesh Kumar Sharma (JC-348792F), 08 Nov 2007

Nb Sub (Clk GD) Abdul Waheed (JC-349201F), 06 Oct 2007

Nb Sub (Clk GD) Ram Baran Azad (JC-348847A), 01 Nov 2007

Nb Sub (Clk GD) Mahendra Pal (JC-348932H), 06 Nov 2007

Nb Sub (Clk GD) Vasudevan N (JC-348846X), 19 Nov 2007

Nb Sub (Clk GD) Basant Kumar (JC-348950L), 04 Dec 2007

Nb Sub (Clk GD) Kasharam Choudhary (JC-348982N), 07 Dec 2007

Nb Sub (Clk GD) Peetharam Choudhary (JC-348991P), 06 Dec 2007

Nb Sub (Clk GD) Kulkarni Vinayak Prabhakar (JC-348948N), 03 Dec 2007

Nb Sub (Clk GD) Patole Shamrao Ancha (JC-348786N), 03 Dec 2007

Nb Sub (Clk GD) Dhiraj Kumar (JC-348952W), 04 Dec 2007

Nb Sub (Clk GD) Ghan Shyam Singh (JC-348954F), 03 Dec 2007

Nb Sub (Clk GD) Rajendra Singh (JC-348974P), 05 Dec 2007

Nb Sub (Clk GD) Govind Singh Bisht (JC-348798H), 03 Dec 2007

Nb Sub (Clk GD) Pradyuman (JC-349317X), 08 Dec 2007
 Nb Sub (Clk GD) Kashmiri Lal (JC-348988P), 06 Dec 2007
 Nb Sub (Clk GD) Chudgar Paresh Kumar Ramesh Chandra (JC-348951N), 04 Dec 2007

Nb Sub (Clk GD) Surinder Mohan (JC-349007M), 27 Dec 2007

Nb Sub (Clk GD) Deep Chand (JC-348972K), 07 Dec 2007

Nb Sub (Clk GD) Randhir Singh (JC-348949W), 09 Dec 2007

Nb Sub (Clk GD) Kashid Shivaji Dayandeo (JC-348999F), 17 Jan 2008

Nb Sub (Clk GD) Neel Bajirao Madharao (JC-349008P), 17 Jan 2008

[To be Subedar (GD)]

Nb Sub (GD) Bhim Singh (JC-349794Y), 12 Jan 2008

Nb Sub (GD) Mahabir Prasad (JC-349695W), 16 Feb 2008

Nb Sub (GD) Bhongale Babajan Rao (JC-349749M), 10 Mar 2008

Nb Sub (GD) Surendra Singh Gurjar (JC-349697I), 05 Mar 2008

Nb Sub (GD) Sardul Singh (JC-349738A), 08 Mar 2008

Nb Sub (GD) Milap Singh (JC-349776W), 10 Mar 2008

Nb Sub (GD) Hari Singh Jat (JC-349689H), 07 Mar 2008

Nb Sub (GD) Uttakar Sanjay G (JC-349708H), 08 Mar 2008

Nb Sub (GD) Sujjan Singh (JC-349745W), 12 Mar 2008

Nb Sub (GD) Vijendra (JC-349733F), 12 Mar 2008

Nb Sub (GD) Vijay Narayan (JC-349692H), 07 Mar 2008

Nb Sub (GD) Sawinder Singh (JC-349705P), 09 Mar 2008

Nb Sub (GD) Parakho Dilip Rama (JC-349820P), 09 Mar 2008

Nb Sub (GD) Ashok Kumar (JC-349796K), 07 Mar 2008

Nb Sub (GD) Sagar Singh (JC-349774L), 10 Mar 2008

Nb Sub (GD) Lalit Mohan (JC-349742I), 13 Mar 2008

Nb Sub (GD) Rajinder Singh (JC-349700W), 13 Mar 2008

Nb Sub (GD) Mukhtiar Singh (JC-349735M), 13 Mar 2008

Nb Sub (GD) Sri Ram Verma (JC-349775N), 17 Mar 2008

Nb Sub (GD) Santokh Singh (JC-349690X), 14 Mar 2008

Nb Sub (GD) Umakant Sudam Borade (JC-349703K), 12 Mar 2008

Nb Sub (GD) Jan Mohamed (JC-349751K), 18 Mar 2008

Nb Sub (GD) Savant Sanjay Ramesh (JC-349747A), 15 Mar 2008

Nb Sub (GD) Kashmira Singh (JC-349701Y), 12 Mar 2008

Nb Sub (GD) Abdul Qayum (JC-349677N), 11 Mar 2008

Nb Sub (GD) Rameshwar Singh (JC-349691A), 24 Mar 2008

Nb Sub (GD) Sukhwinder Singh (JC-349737X), 11 Mar 2008

Nb Sub (GD) Kulvir Chand (JC-349739H), 12 Mar 2008

Nb Sub (GD) Nirmal Singh (JC-349736P), 14 Mar 2008

Nb Sub (GD) Shinde Vishvas Pandurang (JC-349678W), 14 Mar 2008

Nb Sub (GD) Bant Singh (JC-349698K), 21 Mar 2008

Nb Sub (GD) Yadav Appa Dhyanu (JC-349780Y), 02 Apr 2008

Nb Sub (GD) Dnyandeo Pandurang Barge (JC-349624P), 10 Oct 2007

Nb Sub (GD) Virinder Kumar (JC-349638P), 01 Nov 2007

Nb Sub (GD) Navkhare Deoram Raghunath (JC-349609A), 01 Nov 2007

Nb Sub (GD) Mane Ramchandra Ghamanrao (JC-349622K), 01 Nov 2007

Nb Sub (GD) Shabbir Ahmad (JC-349644H), 11 Dec 2007

Nb Sub (GD) Kulange Sampat Bhaghuji (JC-349666F), 20 Dec 2007

Nb Sub (GD) Darbawa Singh (JC-349648Y), 19 Dec 2007

Nb Sub (GD) Sarpal (JC-349665Y), 16 Dec 2007

Nb Sub (GD) Deep Chand (JC-349640M), 18 Dec 2007

Nb Sub (GD) Ashish Kumar (JC-349664W), 18 Dec 2007

Nb Sub (GD) Jarnail Singh (JC-349653K), 13 Dec 2007

Nb Sub (GD) Sudesh Pal (JC-349683F), 13 Dec 2007

Nb Sub (GD) Parlad Singh (JC-349647W), 12 Dec 2007

Nb Sub (GD) Satvir Singh (JC-349654M), 17 Dec 2007

Nb Sub (GD) Patil Gorakhnath Namdeo (JC-349649I), 17 Dec 2007

Nb Sub (GD) Palwinder Singh (JC-349646N), 31 Dec 2007

Nb Sub (GD) Chougule Vilas Keshav (JC-349643A), 19 Dec 2007

Nb Sub (GD) Suresh Kumar (JC-349651Y), 27 Dec 2007

Nb Sub (GD) Gurneet Singh (JC-349623M), 31 Dec 2007

Nb Sub (GD) Gunde Viju Bhagwan (JC-349657A), 09 Jan 2008

Nb Sub (GD) Bangari Ram (JC-349655P), 14 Jan 2008

Nb Sub (GD) Jadhav Ashok Govind (JC-349670K), 10 Jan 2008

Nb Sub (GD) Mohd Rafiq (JC-349652F), 01 Jan 2008

Nb Sub (GD) Vishnu Bappaji Vanwe (JC-349650W), 03 Jan 2008

Nb Sub (GD) Madan Singh Bhandari (JC-349699M), 10 Jan 2008

Nb Sub (GD) Nasim Khan (JC-349679Y), 10 Jan 2008

Nb Sub (GD) Pawar Limraj Udhav (JC-349686P), 10 Jan 2008

Nb Sub (GD) Mohanan S (JC-349764F), 10 Jan 2008

Nb Sub (GD) Thankachen KV (JC-349685M), 10 Jan 2008

Nb Sub (GD) Azad Singh (JC-349671M), 10 Jan 2008

Nb Sub (GD) Harnek Singh (JC-349694N), 11 Jan 2008

Nb Sub (GD) Basant Kumar Swami (JC-349673Y), 11 Jan 2008

(To be Subedar Major (SKT))

Sub (SKT) Mansoor Ahmed Khan (JC-347949K), 08 Mar 2008

Nb Sub (SKT) Dharambir Singh (JC-349159N), 03 Mar 2008

ALKA JOSHI
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 305, the 11th June 2008.—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY

PIONEER CORPS

(To be Nb Sub (GD)/Cik (GD))

Rank, Name, Army No now JC No & Date of Promotion

Hav (GD) Sada Shiv Babu Badiger (No. 8030459Y now JC-829380N), 01 Jan 2007

Hav (GD) Sukumaran Nair M (No. 8030410H now JC-829381W), 23 Oct 2007

Hav (GD) Narendra Bahadur Singh (No. 8030745A now JC-829382Y), 15 Oct 2007

Hav (GD) Dharmendra Singh (No. 8030748N now JC-829383F), 12 Oct 2007

Hav (GD) Bhagi Rathi Behera (No. 8030769K now JC-829384K), 12 Oct 2007

Hav (GD) Hira Lal Pandey (No. 8033205M now JC-829385M), 12 Oct 2007

Hav (GD) Bhawani Datt (No. 8030853K now JC-829386P), 31 Oct 2007

Hav (GD) Jameshwar Patra (No. 8030197N now JC-829387X), 30 Oct 2007

Hav (GD) Rajan Puthusseri (No. 8030369X now JC-829388A), 24 Oct 2007

Hav (GD) Rajendra Pal (No. 8030480F now JC-829389H), 01 Nov 2007

Hav (GD) Basva Rajan Nair R (No. 8030681A now JC-829390X), 07 Nov 2007

Hav (GD) Paris Bogar (No. 8030954K now JC-829391A), 07 Nov 2007

Hav (GD) Radhey Shyam (No. 8031045Y now JC-829392H), 03 Dec 2007

Hav (GD) P Mallesha (No. 8031040P now JC-829393L), 10 Dec 2007

Hav (GD) Bablu Kumar Thapa (No. 8031534K now JC-829395W), 20 Dec 2007

Hav (GD) Purushotham Kumar (No. 8031796A now JC-829396Y), 01 Dec 2007

Hav (GD) Laxman Basappa Modagi (No. 8031805W now JC-829400W), 01 Jan 2008

Hav (GD) Chittaranjan Das (No. 8030569N now JC-829401Y), 01 Jan 2008

Hav (GD) Shri Ram (No. 8031058W now JC-829402F), 01 Jan 2008

Hav (GD) Arjun Singh (No. 8031032A now JC-829403K), 01 Jan 2008

Hav (GD) Ratan Lal (No. 8031062X now JC-829404M), 01 Jan 2008

Hav (GD) Rajendra Prasad Sharma (No. 8031876X now JC-829405P), 01 Jan 2008

Hav (GD) Vijai Ram (No. 8031220P now JC-829394N), 01 Dec 2007

Hav (GD) Pradeepan Chithadi Valappil (No. 8032236A now JC-829397F), 01 Jan 2008

Hav (GD) Ranjit Singh (No. 8029930F now JC-829398K), 01 Jan 2008

Hav (GD) Pradeep Kumar (No. 8029979X now JC-829399M), 01 Jan 2008

\$ Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Feb 2006 without effect on pay & allowances.

@ Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances.

Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Nov 2007 without effect on pay & allowances.

* Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances.

REGIMENT OF ARTILLERY

(To be Nb Sub)

Hav Gulzar Singh (No. 14475968W now JC-271223L),
27 Sep 2007/01 Oct 2006*

Hav Bikkar Singh (No. 14368856Y now JC-271224N),
08 Aug 2007/01 Jun 2007*

Hav Joginder Singh (No. 15100595K now JC-271225W),
23 Dec 2007/01 Aug 2007*

Hav Dildar Singh (No. 14375519M now JC-271226Y),
01 Sep 2007/02 Aug 2007*

Hav Uttam Singh (No. 14378545Y now JC-271227F),
19 Dec 2007/01 Oct 2007*

Hav Hoshiar Singh (No. 14369774H now JC-271228K),
31 Dec 2007/03 Nov 2007*

BHM Baldev Singh (No. 14378290K now JC-271229M),
17 Dec 2007/11 Nov 2007*

Hav Amar Bahadur Singh (No. 15113436L now JC-
271230F), 02 Jan 2008/12 Nov 2007*

Hav Brajakishore Mohanty (No. 15102461K now JC-
271231K), 29 Dec 2007/21 Nov 2007*

Hav Digar Singh (No. 14391342N now JC-271232M),
05 Jan 2008/21 Nov 2007*

Hav Saroop Singh (No. 14397991P now JC-271233P),
31 Dec 2007/26 Nov 2007*

Hav Rajesh Kumar Shukla (No. 14490621F now JC-
271234X), 01 Jan 2008/01 Dec 2007*

BHM Rohitash (No. 14381805K now JC-271235A), 17 Jan
2008/06 Dec 2007*

Hav Kanhaiya Nath Upadhyay (No. 14496495W now JC-
271236H), 31 Dec 2007/06 Dec 2007*

Hav Anil Kumar Gaur (No. 14492576Y now JC-271237L),
01 Jan 2008

Hav Radhe Shyam Maurya (No. 15105923W now JC-
271238N), 01 Jan 2008

Hav Surinder Kumar (No. 14479406W now JC-271239W),
05 Jul 2007/21 Jun 2007*

Hav Raj Kishor Sharma (No. 14489353W now JC-271240L),
28 Oct 2007/01 Aug 2007*

Hav Silas Toppo (No. 14374281L now JC-271241N),
19 Sep 2007/01 Aug 2007*

Hav Surender Singh (No. 14380278F now JC-271242W),
01 Aug 2007

Hav Hansraj Yadav (No. 14488246H now JC-271243Y),
17 Sep 2007/23 Aug 2007*

Hav Krishna Prasad (No. 15107418M now JC-271244F),
25 Jan 2008/01 Nov 2007*

Hav Jarnail Singh (No. 14402349A now JC-271245K),
02 Feb 2008/08 Nov 2007*

Hav Surjit Kumar (No. 14492137N now JC-271246M),
19 Dec 2007/17 Nov 2007*

Hav Yogender Singh (No. 14487371A now JC-271247P),
10 Jan 2008/29 Nov 2007*

Hav Vijay Bahadur Yadav (No. 14389073N now JC-
271348X), 10 Jan 2008/29 Nov 2007*

BHM Nageshwar Prakash (No. 14489490P now JC-
271249A), 09 Jan 2008/01 Dec 2007*

Hav Satya Prasad Mudoi (No. 14493893M now JC-
271250), 18 Jan 2008/01 Dec 2007*

Hav Singha Ram Yadav (No. 14487500P now JC-271251X),
26 Dec 2007/01 Dec 2007*

Hav Sisir Kumar Nayak (No. 15122514Y now JC-271252A),
18 Jan 2008/01 Dec 2007*

BHM Shish Ram Katewa (No. 15104053X now JC-
271253H), 16 Jan 2008/15 Dec 2007*

Hav Roshan Lal (No. 15100045F now JC-271254L), 11 Jan
2008/01 Jan 2008*

*(Gtd Seniority wef)

Hav Surendra Pal Singh (No. 15100478Y now JC-271045N),
15 Oct 2007/11 Apr 2007*

Hav Ramesh S (No. 15103617H now JC-271046W),
21 Sep 2007/01 Jul 2007*

Hav PS Vinayak Naidu (No. 14491724M now JC-271047Y),
03 Sep 2007/25 Jul 2007*

Hav Rajinder Singh (No. 14408592N now JC-271048F),
19 Oct 2007/01 Aug 2007*

Hav Patil Balawant Shankar (No. 14411589Y now JC-
271049K), 22 Oct 2007/20 Aug 2007*

Hav Suram Singh (No. 14479441Y now JC-271050Y),
01 Nov 2007/27 Aug 2007*

Hav Prahlad Pathak (No. 14480208X now JC-271051F),
27 Oct 2007/30 Aug 2007*

Hav Bhanwar Singh (No. 14382070X now JC-271052K),
17 Nov 2007/31 Aug 2007*

Hav Purshottam Ram (No. 14493533W now JC-271053M),
13 Oct 2007/31 Aug 2007*

Hav S Karmar (No. 14482630N now JC-271054P), 01 Nov
2007/31 Aug 2007*

Hav Ramesh Mishra (No. 15112053M now JC-271055X),
19 Oct 2007/01 Sep 2007*

Hav Pavithran Manoli (No. 14392909L now JC-271056A),
10 Oct 2007/01 Sep 2007*

Hav Preman TP (No. 14482915A now JC-271057H), 17 Oct
2007/02 Sep 2007*

Hav Nand Kishore (No. 15102975F now JC-271058L),
30 Oct 2007/17 Sep 2007*

Hav Karan Singh Yadav (No. 14489049M now JC-271059N), 26 Nov 2007/03 Nov 2007*

Hav Pawar Bhivram Tatyaba (No. 14496144F now JC-271060H), 07 Nov 2007/06 Nov 2007*

Hav Saranam Srinivasa Rao (No. 15124704K now JC-271061L), 28 May 2007/01 Mar 2007*

Hav M Veera Prathapa Reddy (No. 14485059Y now JC-271062N), 04 Dec 2007/01 Aug 2007*

Hav Prem Kumar A (No. 14494208H now JC-271063W),
18 Oct 2007/01 Aug 2007*

Hav Raghvendra Singh Yadav (No. 14476211A now JC-271064Y), 30 Sep 2007/01 Aug 2007*

Hav Bihari Singh (No. 14482336N now JC-271065F),
01 Sep 2007/01 Aug 2007*

Hav Tara Singh (No. 14488183L now JC-271066K), 05 Sep
2007/01 Aug 2007*

Hav Senthil Kumar T (No. 14400223F now JC-271067M),
13 Oct 2007/27 Aug 2007*

Hav Vinod Kumar Sharma (No. 14494739A now JC-271068P), 01 Sep 2007

Hav Ram Kishan (No. 14484391H now JC-271069X),
01 Oct 2007/03 Sep 2007*

Hav Naresh Kumar (No. 14367628K now JC-271070M),
23 Oct 2007/20 Sep 2007*

Hav Sarjeet Singh (No. 15103706F now JC-271071P),
13 Nov 2007/24 Sep 2007*

Hav Bhupinder Singh (No. 14404174F now JC-271072X),
27 Nov 2007/01 Oct 2007*

Hav Bhaga Ram Bishnoi (No. 14384007F now JC-271073A), 29 Oct 2007/01 Oct 2007*

Hav Maibam Kanto Singh (No. 14396032M now JC-271074H), 27 Nov 2007/16 Oct 2007*

Hav Rao Saheb Ranadive (No. 14383547N now JC-271075L), 19 Oct 2007/17 Oct 2007*

Hav Padhan Sapta Sindhu (No. 14488136N now JC-271076N), 16 Nov 2007/01 Nov 2007*

(*Gtd Seniority wef)

Hav Yudhbir Singh Bishr (No. 14370925H now JC-271146F), 21 Aug 2007/05 Jun 2007*

Hav K Ramesh Reddy (No. 14400887P now JC-271147K),
08 Aug 2007/21 Jun 2007*

Hav Girish Chandra (No. 14486060A now JC-271148M),
09 Dec 2007/01 Aug 2007*

Hav Aravinda Biswas (No. 14492995W now JC-271149P),
17 Oct 2007/12 Aug 2007*

Hav Bhagwan Singh (No. 14493840N now JC-271150K),
17 Oct 2007/12 Aug 2007*

Hav Mani Chandra Jha (No. 14492069L now JC-271151M),
26 Oct 2007/20 Aug 2007*

Hav Tej Nath Thakur (No. 15109523F now JC-271152F),
24 Dec 2007/20 Aug 2007*

Hav Parmar Kannu Bhai Bolun Bhai (No. 14381324X now
JC-271153X), 22 Dec 2007/27 Aug 2007*

Hav Karunesh Kumar Singh (No. 14383142H now JC-271154A), 14 Dec 2007/31 Aug 2007*

Hav Babu Lal Bina (No. 14384497A now JC-271155H),
13 Nov 2007/31 Aug 2007*

Hav Chander Prakash (No. 14396865W now JC-271156L),
24 Dec 2007/01 Sep 2007*

Hav Dev Raj (No. 14495199Y now JC-271157N), 17 Oct
2007/01 Sep 2007*

Hav Sukhdev Singh (No. 14387710A now JC-271158W),
01 Oct 2007/07 Sep 2007*

Hav Rajender Singh Yadav (No. 14369399H now JC-271159Y), 30 Jan 2008/09 Sep 2007*

RHM Bipul Chandra Nath (No. 14478671A now JC-271160N), 06 Nov 2007/06 Oct 2007*

Hav Nila Kanta Gohain (No. 144961453H now JC-271161W), 21 Nov 2007/01 Nov 2007*

BHM Gopakumar B (No. 14497253A now JC-271162Y),
05 Nov 2007/10 Jul 2007*

Hav Sunil Kumar Singh (No. 14396845H now JC-271163F),
10 Nov 2007/01 Aug 2007*

Hav Rajvir (No. 14398838L now JC-271164K), 17 Dec
2007/01 Aug 2007*

Hav K Sundara Murthy (No. 14392448M now JC-271165M), 18 Aug 2007/01 Aug 2007*

Hav Battagiri V Rami Reddy (No. 15109709L now JC-271166P), 18 Oct 2007/15 Aug 2007*

RHM Nikka Ram (No. 14372093L now JC-271167X),
23 Nov 2007/22 Sep 2007*

Hav Ved Pal (No. 14498374N now JC-271168A), 15 Oct
2007/01 Oct 2007*

Hav Shingara Singh (No. 14387390W now JC-271169H),
12 Dec 2007/30 Oct 2007*

RHM Shashi Bhushan Kumar (No. 14368885N now JC-271170X), 15 Dec 2007/01 Nov 2007*

Hav Arogya Nathan (No. 14497098K now JC-271171A),
20 Nov 2007/01 Nov 2007*

Hav Jarnail Singh (No. 15101897H now JC-271172H),
24 Nov 2007/01 Nov 2007*

Hav Sukhwinder Singh (No. 14493344M now JC-271173L),
19 Dec 2007/17 Nov 2007*

RHM Amiya Kr Patrawi (No. 14389984K now JC-271174N),
30 Dec 2007/25 Nov 2007*

RHM Kunwar Pratap Singh Rathore (No. 14375573A now JC-271175W), 02 Dec 2007/01 Dec 2007*

Hav Jeevan Singh Rana (No. 14378844X now JC-271176Y),
01 Jan 2008/01 Dec 2007*

RHM Kishori Lal (No. 14486302X now JC-271177F),
17 Dec 2007/01 Dec 2007*

Hav Mahatab Singh (No. 14459351W now JC-271104P),
01 Feb 2004

Hav Dudhade Subash Nana (No. 14498833F now JC-271105X), 16 July 2007/01 May 2007*

Hav Janardhan Prasad (No. 14488690Y now JC-271106A),
06 Aug 2007/01 Jun 2007*

Hav Sanjive Kumar Jain (No. 14384149Y now JC-271107H),
08 Sep 2007/06 Jun 2007*

RHM Raj Kumar Sharma (No. 15103700A now JC-271108I), 29 Jul 2007/14 Jun 2007*

Hav K Soundararaja (No. 14390415H now JC-271109N),
03 Sep 2007/01 Aug 2007*

Hav Randhir Singh (No. 15111345H now JC-271110H),
01 Oct 2007/02 Aug 2007*

Hav Shaikh Ibrahim (No. 14494136K now JC-271111L),
11 Oct 2007/22 Aug 2007*

Hav Udayvir Singh (No. 15113935A now JC-271112N),
29 Oct 2007/27 Aug 2007*

Hav Raghunath Singh (No. 15115327X now JC-271113W),
29 Oct 2007/27 Aug 2007*

Hav Kewal Krishan (No. 14481802L now JC-271114Y),
01 Sep 2007

Hav Kodag Hanumant Mahadev (No. 15104159K now JC-271115F), 12 Jan 2008/01 Sep 2007*

Hav Vishnu Dattu Bade (No. 14396452M now JC-271116K), 12 Jan 2008/01 Sep 2007*

Hav Airabat Singh (No. 14393832A now JC-271117M),
03 Sep 2007

Hav Jaswant Singh (No. 15116772H now JC-271118P),
01 Nov 2007

Hav Venkappa Alli (No. 14399196N now JC-271119X),
18 Dec 2007/06 Nov 2007*

BHM Sanjeev Kumar D (No. 14496862X now JC-271120M),
05 Nov 2007/01 Jun 2007*

Hav Karnail Singh (No. 15111304Y now JC-271121P),
31 Aug 2007/01 Jun 2007*

Hav Puran Chand (No. 14395721F now JC-271122X),
31 Oct 2007/01 Aug 2007*

Hav Ram Pal Prajapathi (No. 14367591N now JC-271123A),
07 Sep 2007/17 Aug 2007*

Hav Rajendra Singh (No. 14487056K now JC-271124H),
24 Sep 2007/22 Aug 2007*

Hav Sukhwinder Singh (No. 15111238F now JC-271125L),
03 Dec 2007/01 Sep 2007*

RHM Joginder Paul (No. 14371256F now JC-271126N),
18 Oct 2007/23 Sep 2007*

Hav Raj Singh (No. 14486027H now JC-271127W),
03 Nov 2007/01 Oct 2007*

Hav Shankar Mastiholi (No. 14377627P now JC-271128Y),
03 Nov 2007/01 Oct 2007*

Hav Nripen Kumar Ghosh (No. 14373982P now JC-271129P), 09 Nov 2007/01 Nov 2007*

BHM Ram Pratap (No. 14486042X now JC-271130W),
17 Dec 2007/01 Dec 2007*

Hav Hanamant Sanasidda (No. 14378643Y now JC-271131Y), 26 Dec 2007/11 Dec 2007*

Hav Shiv Pratap Yadava (No. 14486391F now JC-271132F),
05 Jan 2008/01 Jan 2008*

Hav Lalit Yadav (No. 14407571L now JC-271133K),
01 Jan 2008

Hav Gurbachan Singh (No. 14488343A now JC-271134M),
01 Jan 2008

Hav Satwant Singh (No. 14497914P now JC-271135P),
01 Jan 2008

Nb Sub Babban Singh (JC-266463Y), 25 Jan 2008/01 Jan 2008*

Nb Sub Soman K (JC-267231M), 14 Jan 2008/01 Jan 2008*

Nb Sub Daljit Singh (JC-267380A), 01 Jan 2008

Nb Sub Anoop Singh Yadav (JC-267226F), 01 Jan 2008

Nb Sub Satyanath Bhumiz (JC-267408F), 14 Jan 2008/
01 Jan 2008*

Nb Sub Dhanesh Kumar Tyagi (JC-267514N), 01 Jan 2008

Nb Sub Balbir Singh (JC-267680F), 01 Jan 2008

Nb Sub Ram Niwas Singh (JC-268527X), 02 Jan 2008/
01 Jan 2008*

Nb Sub Ram Prasad Mishra (JC-268156A), 01 Jan 2008
 Nb Sub Mool Chand (JC-268109H), 01 Jan 2008
 Nb Sub Kulbir Singh (JC-268142A), 01 Jan 2008
 Nb Sub Suresh Chander (JC-268274N), 07 Jan 2008/
 01 Jan 2008*
 Nb Sub Kuldeep Singh (JC-268127L), 01 Jan 2008
 Nb Sub Gurdev Singh (JC-268410Y), 01 Jan 2008
 Nb Sub Phool Chandra Varma (JC-268336H), 02 Jan 2008/
 01 Jan 2008*
 Nb Sub Akhilesh Babu (JC-268411F), 21 Feb 2008/01 Jan
 2008*
 Nb Sub Bodh Raj SM (JC-268580H), 01 Jan 2008
 Nb Sub Veerender Singh Yadav (JC-268694N), 01 Jan
 2008
 Nb Sub Surya Kant Mishra (JC-269042F), 01 Jan 2008
 Nb Sub Narender Singh (JC-267572X), 28 Feb 2008/
 01 Feb 2008*
 Nb Sub Paras Ram (JC-267091L), 06 Feb 2008/01 Feb
 2008*
 Nb Sub Munshi Lal (JC-267475A), 01 Feb 2008
 Nb Sub Kuraveru Nagamuni (JC-268325W), 23 Feb 2008/
 01 Feb 2008*
 Nb Sub Virender Singh (JC-262602W), 01 Feb 2008
 Nb Sub Bijender Singh (JC-268813Y), 13 Feb 2008/01 Feb
 2008*
 Nb Sub Hemant Kumar (JC-268631L), 01 Feb 2008
 Nb Sub Shobh Nath (JC-266376L), 25 Feb 2008/01 Aug
 2007*

*(Gtd Seniority wef)

P RAMA SASTRY
 Under Secy

(AIR BRANCH)

No. 306, the 12th Jun 2008.—The President is pleased to transfer the undermentioned officer from F(P) to Administrative Branch with effect from the date indicated against his name with adjusted seniority in that branch as if he was originally commissioned in the Admin Branch. The officer will be placed between Sqn Ldr DK Gaur (26382) Adm and Sqn Ldr D Puri (26572) Adm in the Air Force List. The officer will not be entitled to Flying Pay with effect from the date of found unsuitable for flying duties i.e. 21 Nov 07 vide Air HQ/21901/26330/PO-3(E) dated 01 Feb 08.

Sqn Ldr D Hooda (26330) F(P) to Adm wef 21 Nov 07.

P SINGH
 Wg Cdr
 JDPO-3(E)

REGULAR ARMY

(PERMANENT COMMISSION)

No. 307, the 12th Jun 08.—The President is pleased to retire the undermentioned officer(s) on attaining the age of Superannuation :—

Rank & Name, NR Number & Date of Retirement

Lt Col T Stanley (NR-15038F), 31 Mar 2007
 Lt Col M Stephen Jaura (NR-16288P), 31 May 2007
 Lt Col M K Padmini (NR-15027P), 31 May 2007
 Lt Col Prakash Kaur (NR-15990N), 31 May 2007
 Lt Col Bhagya Lakshmi (NR-16891X), 30 Jun 2007
 Lt Col Y Lamhu (NR-15953A), 30 Jun 2007
 Lt Col Shanta Rai (NR-16250L), 31 Aug 2007
 Lt Col C L Pradhan (NR-16249W), 30 Sep 2007
 Lt Col Muktesh Bajwa (NR-16436P), 30 Nov 2007
 Lt Col Sujata Das (NR-15467H), 31 Jan 2006
 Lt Col B Balamaniamma (NR-15005W), 31 Mar 2006
 Lt Col M R Sood (NR-15554W), 31 Mar 2006
 Lt Col M Suguna (NR-15897M), 31 Mar 2006
 Lt Col Shamsheer Kaur (NR-15946K), 31 May 2006
 Lt Col C Indira (NR-15199K), 30 Jun 2006
 Lt Col Pushpa Bhandari (NR-16095P), 30 Sep 2006
 Lt Col C P Bhawani (NR-15338H), 31 Dec 2006

The President is pleased to retire the undermentioned officer(s) on *Premature Retirement* :—

Rank & Name, NR Number & Date of Retirement

Lt Col T G Chandrika (NR-16681X), 31 Mar 2007
 Lt Col M R Singla (NR-15788A), 30 Sep 2007
 Lt Col Leelamma Verghese (NR-16620A), 30 Sep 2007
 Lt Col T H Scurvilles (NR-16654N), 30 Sep 2007
 Lt Col Anvary Begum (NR-16142F), 31 Mar 2006
 Lt Col Alice Thomas (NR-16440X), 30 Jun 2006
 Lt Col Sushma Kaul (NR-16653L), 31 Jul 2006
 Lt Col K P Lalitha Bai (NR-15596H), 31 Aug 2006
 Lt Col S K Rawat (NR-16294H), 31 Aug 2006
 Lt Col S Thomas (NR-15764W), 30 Sep 2006
 Lt Col Charanjit Kaur Nagrath (NR-16884F), 30 Sep 2006

Lt Col Jalajamani (NR-16679A), 31 Dec 2006

(ARMY BRANCH)

Lt Col K Sumathykutty (NR-16310P), 31 Dec 2006

No. 309, the 12th Jun 08.—The President is pleased to make the following appointments :—

Lt Col P U Mary (NR-16032M), 31 Dec 2006

REGULAR ARMY

T PADMINI

PERMANENT COMMISSION

Maj Gen

CORRIGENDUM

Addl DGMNS

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 10 Mar 2007 under the heading "Permanent Commission" in the Regular Army is hereby amended as under :—

INTEGRATED HEADQUARTERS

(NAVY)

(DTE OF ADMIN/CIV SECTION)

No. 308, the 12th Jun 08.—On attaining the age of superannuation, the following officers of NHQ have retired from Government Service from the dates mentioned against their name and transferred to Pension Establishment :—

Name	Date of Retirement	Date of transfer Pension Establishment
Shri Chander Parkash, SO	30-06-07	01-07-07
Shri RNP Gupta, SO	30-06-07	01-07-07
Shri KD Sharma, Jt Director	31-08-07	01-09-07
Smt. Usha Verma, SO	31-10-07	01-11-07
Shri YP Arora, Sr. PPS	31-12-07	01-01-08
Shri AK Dheer, SO	31-03-08	01-04-08
Shri Man Singh, SO	31-03-08	01-04-08
Km. Ujjal Kaur, SO	31-03-08	01-04-08
Shri Vijay Sagar, SO	31-03-08	01-04-08
Shri Ishwar Dutt, PS	Expired on 24-02-08	

SHANKAR SINGH

Dy Chief Administrative Officer (A)

SHORT SERVICE COMMISSION (On Probation)

CORRIGENDUM

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 10 Mar 2007 under the heading "Short Service Commission (on probation)" in the Regular Army is hereby amended as under :—

For —T/6261 Sanjeev Kaushal IC-6788N Sigs
19 Jan 2005

Read—T/6261 Sanjeev Kaushal IC-67880N Sigs
19 Jan 2005

For —T/6254 Amol Vighuti Kujur IC-67858X AEC
01 Feb 2005

Read—T/6254 Amol Vibhuti Kujur IC-67856X AEC
01 Feb 2005

For —T/6310 Navdeep Mittal SS-51775A Sigs,
03 Feb 2005

Read—T/6310 Navdeep Mittal SS-51775A Sigs,
03 Feb 2005

For —T/6313 Abhishek Negi 41778N Sigs,
T/6255.

Read—Delete '(T/6256)' from the line of details of
T/6255.

CHANDER SHEKHAR

Lt Col

AMS-8B

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2008

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2008